

श्रीचंद्रप्रज्ञमहत्तरविरचित्

# श्रीचिजयचंद्र केवली चरित्रम् ।

सुनिराज श्रीहृदसविजयजी महाराजनी

प्रेरणाशी

आते

श्रीबुरानपुरना संघनी इव्यसहायथी  
बपाची प्रकट करनार  
श्रीजैनधर्मप्रसारक सज्जा

चाचनगर.

वीरसंवत् २४३२, विक्रमसंवत् १९६२.

संवई, निर्णयसागर प्रैस्.

આ ચરિત્ર પ્રાકૃત અનુવા માગાયી જાળમાં ગાથા રંદમાં રંદેલું છે. આજસુધીમાં સરકૃત ગ્રંથો કેટલાક બહાર  
પણ્ડા તે, પરંતુ માગધીમાં પ્રાંતે કોડું પણ હેઠાથી આ બહુ રસીક તેમજ ઉપદેશક, પરમાત્માની  
નક્ષિમાં તલુર કરતાર શ્રી વિજયચંદ કેવલોનું ચરિત્ર ઉપાચીને બહાર પાણવાનો અમે પ્રયાસ કરેલો છે.

આ ચરિત્રમાં શ્રી વિજયચંદ કેવલીનું ચરિત્ર તો માત્ર ખૃદ્યપજ હે. વિસ્તાર માત્ર અદ્યપકારી પૂજા ઉપરનાં  
ગાથ હદાંનોને તેમજ ભેટે કહેલ્યા સુરપિવનાં હદાંનનો હે. આન કશ્યારું નીચે પ્રમાણે હે-

૧. ગંગયુજા વિષે જનમુર રાજાની કથા.  
૨. ધ્રુવપૂજા વિષે વિતંબધરની કથા.

૩. અદ્યનૃપૂજા વિષે કીરતુંદાદની કથા.

૪. યુગ્યપૂજા વિષે ચણિકસુતા દીવાચતીની કથા. ૫. જદ્યપૂજા વિષે વીપ્રસુતાની કથા.  
આ ચરિત્ર શ્રી વિજય ચંદ ( ગજ્ઝ ) માં શ્રેવેદા શ્રી અમૃતદેવસ્તુરિના શિષ્ય શ્રી ચંદ્રપ્રમ મહચૌરે સંવત  
૧૧૨૩ માં શ્રી દ્વારાવન નામના શ્રેષ્ઠ નગરમાં રંદેલું હે. એકદર ૧૦૬૩ માથારું હે. કોઇ પ્રતમાં પાંચ દરા  
ગાથારું ચેન્દીચની પણ હે; નેનું કારણ આની અંદર કેટલીક ક્રેપક ગાથારું હે તે હે.

આ ચરિત્ર માગધી જાળારું પણ માને જ્ઞાન ઓયે તેંબું હે. આનું શુદ્ધ ગુજરાતી જાપાંતર કરાવી સુધારીને અમે  
નાયાર કર્યું હે. ડ્રાવના પણ માંચું હે. ઓડા ચાહતમાં બહાર પણરો, જેખી ગુજરાતી જાપા સમજવાચાદારું પણ  
આ હંગમાં રદ્દમન્યો જ્ઞાન કરું શક્યો.

આ મનુષ ચરિત્ર શ્રી કુરુનારુના મંદે મોસ્ટેને જરૂરની સહાયનને સુનિરાજ શ્રી હેસવિજયજી મહારાજાની

श्रीचंद्रपत्नमहतरविरचित्

# श्रीचिजयचंद्र केवली चट्टिम ।

सुनिराज श्रीहंसविजयजी महाराजनी

प्रेरणाशी

आने

श्रीबुगानपुरना संघनी इन्द्रसहायथी  
उपाधी प्रकट करनार  
श्रीजैनधर्मप्रसारक सज्जा

जावनगर.

वीरसंवत् २४३२, विक्रमसंवत् १९६२.

संवई, निष्ठासागर प्रैस.

## प्रस्तावना।

संस्कृत ग्रंथों केटदाक वद्दार  
परमामानी

आजसुधीमां संस्कृत ग्रंथों केटदाक वद्दार  
रचेलुं रे. आजसुधीमां संस्कृत उपदेशाक, परमामानी  
उपरनां रचेलुं रे. आजसुधीमां संस्कृत उपदेशाक, परमामानी

आ चरित्र प्राकृत शशवा मागधी जापाधी मां ग्रामे कोइ पण ग्रंथ वहार पडेल न होवायी आ बडु रसीक तेमज उपरनां अमे प्रयास केलो रे.  
आ चरित्र विजयचंद केवलीतुं चरित्र उपविने वहार पारनानो अष्टपकारी पूजा उपरनां अष्टपकारी पूजा उपरनां  
प्रेक्षा रे, परंतु मागधीमां ग्रामे कोइ विजयचंद केवलीतुं चरित्र तो मात्र स्वाध्यज रे. आठ कशाउं निवे प्रमाणे रे—  
तकिमां तत्पर करनार श्री विजयचंद केवलीतुं चरित्र हायांतनो रे. आठ कशाउं निये जितमति ने धनश्रीनी कआ.  
आ चरित्रिमां श्री विजयचंद सुरप्रियनां हायांतनो ५ दीपपूजा विषे हवीपुणती कआ.  
आठ हायांतेनो तेमज त्रेवट कहेला सुरप्रियनां हायांतनो रे. आठ कशाउं निये हवीपुणती कआ.

१ गंधपूजा विषे जयसुर राजानी कआ.  
२ गंधपूजा विषे विनवंधरनी कआ.  
३ भूपपूजा विषे कीरत्युगावतीनी कआ.

४ भूपपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
५ असृतदेवसृतिरना शिल्य श्री नंदप्रम महत्तरे संवत  
६ जलपूजा विषे विप्रमुकुतानी कआ.

७ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
८ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
९ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.

१० असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
११ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
१२ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.

१३ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
१४ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.

१५ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
१६ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.  
१७ असृतपूजा विषे विष्णुकुमुता दीखावतीनी कआ.

अष्टुप्र.

प्रस्ताव.

नी खास प्रेरणावहे उपावी बहार पाडवामां आवेद ले. तेनी एक प्रत मुनिराजने, साध्वीले तथा पुस्तकनंडा-  
रता रहकोने नंडारमां मूकचा माटे जेट तरीके अपण करवामां आवानार ले. वीजा पण तेना खपी श्रावकन्नाईने  
तेनो स्वधय किंमतमां दाळ नदी शोक एवी गोरवण करवामां आवी ले.

आवा मागधी जापामां गद्यपद्यमां रचायेलां अनेक चित्रिते ने अंशो शुद्ध अङ्गेने बहार पडे एवी अमारी अंतः-  
करणनी इड्डा ले, अने तेना प्राच्यमिक प्रयत्नरूप आ अंश बहार पाडवामां आव्यो ले.

आ चरित्रांश खासकरीने चकचकीत आटपेपर उपर उपावावामां आवेद ले, तेशी तेमां खर्च वधारे अयेल  
ले. पंखु आवा उत्तम कार्यमां तेनी गणना करवामां आवती नन्ही.

आ चरित्र शुद्ध करीने उपावावा माटे त्रण चार प्रतेनी तथा शास्त्री उपरात वीजा मुनिराजनी पण सहाय  
देवामां आवी ले, अने बनी शकती जातमहेनत पण करी ले, तेशी आशा ले के वह स्वदप अशुद्धिज मालव पड़तो.  
आ चरित्रनी उदी उदी प्रतमां घणा पारंतरो दृष्टिप ठडवाशी तेमांता घणा पारंतरो तो देरक मुठ नीचे  
आप्या ले, ते तरां मागधी जापा प्रचारमां उडी अह जवाशी अने तेमां देरक शब्दना घणा विकल्पे अता  
होवाशी क्वचित् कोइ स्थानके छूल जणाय तो एकाएक अशुद्धतानो विचार न लाववो; एम तरां कोइ स्थानके  
छूल रही गइ होय तो तेने माटे दरगुजर करी विच्छने अमने लखवानी कृपा करवी के तेनो योग्य प्रसंगे ज-  
पयोग अह शोक.

लेवेट आ चरित्र उपावावामां दृष्टिदोपशी अशवा मतिदोपशी जे कांइ जूल अह होय तेने माटे कुमायाचना  
करी आ उंक प्रस्तावना समाप्त करवामां आवे ले.

पोप शुक्ल— १५  
सं. १६३२. } }

श्री लैतधर्मप्रसारक समाजा.

चावनग्र.

॥ २ ॥

तमः सर्वकाय ।

# आषुपकारी पूजाउपर आग दृष्टांतशुरक श्रीविजयनंदकेवलीचरित्र ।

आयो जच्चसुवदवशरीरं पणमह वीरं महाकीरं ॥ १ ॥

स्थलसुरासुरकिनरविज्ञाहरनरविन्दशुश्रावयापाम् । उवतनजणजपियतोसं जिनवाणि नमह नन्तीए ॥  
 कमलगप्रसमवर्द्धं कमलाभ्युदं कमलवेत्रसस मप्रयारभि । तव परिवसइराया रितमद्वन नाम विकाश्यो ॥ ३ ॥  
 कमलासने निसदं कमलवेत्रसस मप्रयारभि । तव परिवसइराया रितमद्वन नाम विकाश्यो ॥ ४ ॥  
 अति पुरं रथाणउरं जारहवेत्रसस मप्रयारभि । विसए चुंजताणं ताणं पुतो समुपद्यो ॥ ५ ॥  
 चज्ञा से अणांगरईं रद्धव लवेण पठमद्वलनयणा । चड्डुःसंसारकुसदो लज्जाओ अत्यि से दोक्षि ॥  
 नामेण विजयनंदो चंदो इव स्थलजणमणाणंदो । चण्डुःराया सपरिचारो ॥ ६ ॥  
 पठमा य मध्याणसुंद रिनामे ठुङ्ग्या य कमलविसिरि नामा । ताषुपन्ना उता कुरनंदो तहय हरिचंदो ॥ ७ ॥  
 अह अण्या कयाई विहरंतो तव आणाओ सुरि । तस्स परिवंदणठं चचाइ राया सपरिचारो ॥ ८ ॥  
 सुलिङ्गाण य परिकहियं संसारासारयं महाराठे । सपए नविठं युतं गिछड विरकं गुरुसमीवे ॥ ९ ॥  
 अह अण्या कयाई विहरंतो तव आणाओ सुरि । कुमुमपुरं चरनयरं देउ तओ विएहुचंदस्स ॥ १० ॥

१ ऊनि

सुरपुरनयर उङ्गस्स देइ कुरुचंदनामधेयस्स। लैइ सर्यं पवज्जं केवलिणो पायमूर्दंभि ॥ ३० ॥  
 विहरइ मुणी महपा गीयडो गुरुजाणेण अणुकाञ्चो। उगतवसोसियंगो गामागरमंकिंचं वसुहं ॥  
 वासारते पत्ते<sup>1</sup> निसेसं व जिऊण आहारं । पवयुहाए निच्चं चिठ्ठ लौ सो पगपापण ॥ ३२ ॥  
 सिसिरे सीयं गिमहंभि आयवं सहइद्दृसहं धीरो। उवसगासहस्रोवि गिरिव नहु चबाइ भ्राणाञ्चो ॥  
 एवं तवो विहाण वारसवरिसाण सो चरेऊण । संपत्तो तुगगिरि काणएवणमंकिंयं रम्मं ॥ ३४ ॥  
 तत्र सिदायदवदे घणघाइचउक्कमददण्डं । आरहइ सुहभ्राण निच्चबलचित्तो महासतो ॥ ३५ ॥  
 तरगरुपकाणविहियमणाहि गुरुसत्तज एथतोसाहि । वणदेवयाहि मुक्का सैसे कुसुमंजलीं तस्स १६  
 काणानदेण धीरो कहिकृण घाइकम्मवणगहाण । दोआलोअपयासं उपरुद्द केवलं नाणं ॥ ३७ ॥  
 उपरै वरनाण सहसा देवीहि गाइयं गयणं । मुक्का य कुसुमबुढी गंधोदयमीसिया सीसि॥१७॥  
 वज्जंति उड्हिरे नचंति सुरगणार्जुठार्जु । गायट्ट किनरिसद्वौ गुणनियं विजयचंदस्स ॥ ३८ ॥  
 देवा शुणंति तुठा गुरुमोहमहाजरं जिषेऊणं । गहिया सिवसुहलडी नाह तए जसपकायब ॥१९ ॥  
 इय मुरसंयुचवदणो संपत्तनरामराए परिसाए । मुरकयंकचणपत्तमे उवविठो साहए धम्मं ॥२१॥  
 “जीवो अणाइनिहणो चउगइसंसारसायरे घोरे। जिनधरमजाणरहिउ निवरकइ उरकाइ विसहंतो  
 चितामणिव उवहो मणुयजवो सुक्यजवो मणुयजवेइवहो जिणदेसिउधम्मो

१ पत्तो । २ सर्वं । ३ जय ।

१० प्रदिवकाय ।

मुण्डिचल्ला विहु रेखो सीसे दाकण नरनाहू। उच्चविठो गुरुमुदे घर्मं सो गुणङ् तवनीठे । ५ कुमुमुंगि । ६ लोच । ७ तावस्त । ८ मही । ९ चोहितो । १० कुमुमुंगि ।

तवनीठे ॥ १०३४॥

मुण्डिचल्ला विहु रेखो सीसे दाकण नरनाहू। उच्चविठो गुरुमुदे घर्मं सो गुणङ् तवनीठे । ५ कुमुमुंगि । ६ लोच । ७ तावस्त । ८ मही । ९ चोहितो । १० कुमुमुंगि ।

तवनीठे ॥ १०३५॥

मुण्डिचल्ला विहु रेखो सीसे दाकण नरनाहू। उच्चविठो गुरुमुदे घर्मं सो गुणङ् तवनीठे । ५ कुमुमुंगि । ६ लोच । ७ तावस्त । ८ मही । ९ चोहितो । १० कुमुमुंगि ।

तवनीठे ॥ १०३६॥

मुण्डिचल्ला विहु रेखो सीसे दाकण नरनाहू। उच्चविठो गुरुमुदे घर्मं सो गुणङ् तवनीठे । ५ कुमुमुंगि । ६ लोच । ७ तावस्त । ८ मही । ९ चोहितो । १० कुमुमुंगि ।

तवनीठे ॥ १०३७॥

मुण्डिचल्ला विहु रेखो सीसे दाकण नरनाहू। उच्चविठो गुरुमुदे घर्मं सो गुणङ् तवनीठे । ५ कुमुमुंगि । ६ लोच । ७ तावस्त । ८ मही । ९ चोहितो । १० कुमुमुंगि ।

तवनीठे ॥ १०३८॥

मुण्डिचल्ला विहु रेखो सीसे दाकण नरनाहू। उच्चविठो गुरुमुदे घर्मं सो गुणङ् तवनीठे । ५ कुमुमुंगि । ६ लोच । ७ तावस्त । ८ मही । ९ चोहितो । १० कुमुमुंगि ।

विजय-  
चंद्रः

पञ्चमहवयरूप्नो जद् धम्मो वीड्हरेण से कहिए। साचगधम्मोवि तहा पञ्चव अणुब्याईउ ॥ ३७ ॥  
तह जिणवरस्स पूङ्गा सविसीसे साचगण कायबा। संसारोवहि महणी जणी निवाणमगरस्स ॥  
नमिऊण मुणिचरिदं जंपइसाहेह नाहे जिणपूङ्गा कइविहतेचा चषिया किंव फर्वंतीए विहियाए  
इयत्तणिपामुणिनाहोजंपइनरनाहे सुणसु जिणपूङ्गा। कइविहतेआतणियाजंचफलंतीए विहियाए

वरांध २ ध्य २ चुरकरकपर्हे ३ कुसुमेहि ध पवरदीवोहि ॥ ५ ॥

तेविज्ञ ६ फल ३ जेलेहि ७ जिणपूङ्गा आठहा होइ ॥ ५२ ॥

अंगं गंधसुगंधं वन्नं रुवं सुहं॑ च सोहगं। पावइ परमपर्यंपिहु पुरिसो जिणांधपूयाए ॥ ५३ ॥  
जह जयस्तूरनिवेणं जायासहिएण तइय जम्मंमि॑। संपत्तं निवाणं जिणिदवरंधपूयाए ॥ ५३ ॥

“ गंधपूजापरनी कथाना प्रांतमां एक प्रतिमां ५० मी गाशा पटी नीचेनी उ गाशा वधारे रे ”  
पणमह तं नानिसुधं सुवइसंकंतदोयणसहस्रं। कमकमदंव विरायइ नह सिंक जस्स पयजुबेले ॥ १ ॥  
नमिय सुरासुरसंदरिजावयगांतरकुसकयपूङ्ग। पणमह जयस्तिरिनिदयं सेसजिणाणं च पयकमबरे ॥ २ ॥  
विहरियकमकरंतकं कयकेवदेतयतिहुणुज्जोयं। सुरनरकुसुयाणंदं नमह सया धीरजिणाइदं ॥ ३ ॥  
नमह सुगाथुरमहिए सिंक नीसेसकममदारहिए। निमदत्ताणतसिंक सिंकिसुह सासंय पत्ते ॥ ४ ॥

जीइसायसमीणसमाहयंगतइमेहविंदं च। अन्नाणं जीवाणं तं नमह सरस्सं देविं ॥ ५ ॥  
निसुष्ण उ सुयणो तह छक्कणो उ गुणदोसमाहएकयचित्तो। सिरिविजयचंदचरियं परितुदिनिवंभणं भणिमो ॥ ६ ॥

१ संसारोदहि। २ नाण। ३ जेलेहि ४ जिणपूङ्गाणगहातणिया। ५ सुयंधं। ६ सुर्यं ७ जंमिमि। ८ पूयाउ॑ ।

॥ गंधपूजानिपये जयमुरत्पकशा प्रारंत ॥

॥ गंधपूजानिपये जयमुरत्पकशा प्रारंत ॥ अ मुहूर्मद् नमस्त्र ॥  
वरवेयहनगिहे' द्वाहिणसेहीडि गयपुरे राया । सेयरवडे जयमुरत्पकशा नक्कावि अ मुहूर्मद् ॥५॥  
तीए सरगाडे उर्ह उत्तममुमिलेण सहुड्हे संतो । गरबंसि समुपद्रो संमहिठी मुर्ग कोड़ ॥६॥  
किसिया कीसकिसोयरिसाहुसुजहुपदोहोदोकेवे विहिणाहुपत्ताणाइसासामि निमुणमु  
जाणामि जड़ तप् सह आठावयपवयाड़ तिहेमु । सा सुकाणा विनीया अठावयपवयं नित्रिं ॥७॥  
इय नाणेए सहस्रचिय नरवडणा चरविमाणमाहुडा । कुणड़ पूर्य हरिसियहिया जिपिण्डाणं  
पछु पछुह संख काहव रेण काऊण मज्जाणं विहिणागंयेहिं । ता वणगहण निकुंजे आरवापड़ उस्सहं गंवं ॥८॥  
जा उत्तरड़ नगाडे संपुत्रमणोरहा विसालवडी । कस्सेसो ठुगांओ उस्सहो सामिय मुणीलंगि  
पुठड विहियहिया वरकुसुमसमाउदंसि रवंसि । कस्सेसो ठुगांओ महाउणिं शुरुसिवावडी ॥९॥  
तेणवि सा पन्दिनलिया किं न पिए पैसे पित्रसे पुरहे । घोरं तवं तवंतं तियसाणवि तास संजणयांगा ॥१०॥  
उर्क्कुहियहिरदेहं निम्मदासूरमिद्विहिटीये । उत्तराड़ सरीराउ प्रसस ये ठुक्काकोडोसो  
पत्रणवरकिरणताविषत्तुस्स मलमधवसेयकिनस्से । जड़ कुक्का ठुक्काकोडोसो  
सूरवरपत्रणताविषत्तुस्स मलमधवसेयकिनस्से । फासुपत्रवेण नहाण निच मुहुर्षिवरा हुति  
पत्रणड़ सा मुषिथम्मो पक्कतो "सोहणो जिहिंदेहि । संजमजवेण नहाया निच मुहुर्षिवरा हुति  
गंवं सा पत्रणपत्री रषिया इशप्ण चणसु मा एवं । संजमजवेण नहाया निच मुहुर्षिवरा हुति

१ गिरिदेह । २ मुहम्मद । ३ निमुंजे । ४ इष्ट । ५ कन्नस्त । ६ स । ७ दितो अह ।

तह विदु परकालिकार्जु अंगं एयस्स फासुयजलेण। जेणावेणे गंधो इय नाणिते तोइ निय दृइर्जु ॥  
 नाऊण निभयं निय पियाइ गहिऊणपोइ पुडेहि । पबय निझरणाउनिवर्कंतं फासुञ्चं नीरं ॥ ५७ ॥  
 परकालिकाण नीरेण सहरिसं मुणिवरस्स तं द्वेहं । अइनिं विकं दोहिं पिवि विकंपितुं सुरहि गंधोहि  
 नमिकाण मुणिवरिदं उववितं वरविमाणमारहितं । वच्चताइ जाइथं<sup>१</sup> वंदंति जहिए तिते ॥५८॥  
 मुणितपुणं धविलुका मुनुणं कुमुमियंपि वणगहणं । निवकंति साहुदेहे त्रुगवंपिठु महुयरा वहवे ।  
 कथमहुयरोवसगं घोरं अइ दूसहं सहहू धीरो । आपुरियप्राणार्जु न चबाइ सो कंचणगिरिव ॥५९॥  
 परकंतरार्जु चलित्यो तिडाणि नमंसिकण सो खर्यरो । संपुत्रो<sup>२</sup> मुणिदेसे ता चणिते नियचक्काए ॥  
 सामिय एस पएसो दीसइ सो जड़ मुणिवरो दिठो । न हु दीसइ सो संपद जोइकंतो वि पुणै इठ ॥  
 चणियाय तेण दइर्जु जड़ पएसंमि सो मुणी दिठो । तब पएसे दीसइ दवदहो कीलगो एगो ॥६०॥  
 जाव निहालंति पुणो समं<sup>३</sup> गयणंगणार्जु अवयरितं । ता पिलंति मुणिदं खजंतं डु<sup>४</sup> चमरोहि ॥६१॥  
 उवयारो विहु एसो व्यवयारो मुणिवरस्स संजार्जु । इत्राचितिकाण खयरो निद्वाडे<sup>५</sup> महुअरे सद्वे ॥  
 इतो उवसगंते घाइचउक्कमि तस्स खीएंमि । उपपतं उहदवाणं केवलनाणं मुणिदस्स ॥ ६२ ॥  
 चउविहदेवनिकाया केवलिम हिमं कुणंति संतुठा । मुंचंति कुसुमवासं गंधोइयमीसिञ्च सीसे ॥६३ ॥

॥ ३ ॥

<sup>१</sup> पञ्चमिषि । <sup>२</sup> निवंड । <sup>३</sup> विकंपितु । <sup>४</sup> दवेहि । <sup>५</sup> दवेहि । ५ आवंताइ नहेण । ६ संपत्तो । ७ किं । ८ दइया । ९ सम्मं ।  
 १० कासेण । ११ निकारह ।

तुच्छरितं ॥

पत्रणइ खमसु मुणीसर जं रथम् उद्दृ तुच्छरितं ॥ १०  
जयस्त्रोवि नरिदो सहिते जडाइ पायपनिवारगो । पत्रणइ खमसु मुणीसर जं रथम् उद्दृ तुच्छरितं ॥ १०  
जयस्त्रोवि नरिदो सहिते जडाइ पायपनिवारगो । जं जेण कायं कम्मं तं सो अणुहवइ नियमण ॥ १०  
जं पश्चस्त्रोवि नरिदो नववर मा वहसु निय मां स्वेषं । जं जेण कायं कम्मं तं सो अणुहवइ नियमण ॥ १०  
जं पश्चस्त्रोवि नरिदो नरवर मा वहसु निय मां स्वेषं । जं जेण कायं कम्मं तं सो अणुहवइ नियमण ॥ १०  
अनं चाजो पुष्टकुण्डलु गंठमस्त्रवानं मुणिकरं निपुणकरं निपुणकरं निपुणकरं ॥ १०  
जेण नष्टिक्षामलवमश्वानपकमयवा थूदीमश्वान ते नरामश्वानाजेपावपकमश्वान ते नरामश्वान ॥ १०  
सोकण इमं वयाण नववरीया रणइ सुहमई एवं । जयवं पावाइ सा परिनष्टिया तदे माँ कुणमुणारवयं ॥  
खामश्वपुणेषु विन्यवदेषु विविक्षणमुणिकरान्वहं तेषु वि सा परिनष्टिया तु नियमेण ॥ १५ ॥  
सोकण इमं वयाण विन्यवदेषु विविक्षणमुणिकरान्वहं तेषु वि सा परिनष्टिया तु नियमासहिते ॥  
एवं खामंतीप एवं संबंधि सोस्त्रियं कम्मं । नवरं तु एगजमे अणुहवियं तु नियमासहिते ॥ १५ ॥  
एवं खामंतीप एवं संबंधि सोस्त्रियं कम्मं । नवरं तु एगजमे अणुहवियं पस्त्रा पुवु द्विस्त्रीचव विष्णवाहं ॥ १५ ॥  
एवं खामंतीप एवं संबंधि पुणो पयकमदं पणमितुण केवलिषो । नियनयं संपतो सो राया पियमासहिते ॥ १५ ॥  
धमं सोकण युणो पयकमदं पणमितुण समर्पयि । सुहवारायं पस्त्रा पुवु द्विस्त्रीचव विष्णवाहं ॥ १५ ॥  
कद्वाण नामभेषं रज्जे दारकण तस्त सो राया । पवज्ञं पकिवदो गुरुमूले पियमासहिते ॥ १५ ॥  
पवज्ञं कारकण सोहमं सुरवरो समुपदो सुहमझविय मरिकण देवी तस्सेव संजाया ॥ १५ ॥  
चुरुं सा सुरसुरकं चवित्तणं ह विष्णात्तरे नवरे । जियस्तुमहीवद्धणो जाया धूया निहिते ॥ १५ ॥  
मयणावदिनामाए देहोववएण पत्तसोहाए । परिणवत्तं तीए संयवरो राङ्णा निहिते ॥ १५ ॥  
१. कोस्त्रियं । १० व । ११ संपत्त । १२ उपु । १३ मढवं । १४ उपु । १५ पुणिष्ठिया । १६ पुणिष्ठिय । १७ पुणिष्ठिय । १८ उपु । १९ कुणुचु । २० संपत्त । २१ उवादिसाएव ।

मिलियाथ तब वहवे निकाहर किनरा य नरवइणे । सबे मुन्तु चरिओ सीहेखडे सिन्धुरावासी ॥  
संबंतेउरमज्जो संजाया बद्धहा नरिदस्स । नियज्जीवियच्छ्रव्वहिया सीया इव रामदेवस्स ॥७३॥  
मनइ तं उवयारं तीए विज्जाहरेवि मुन्तूण । एथाइ अहं चरिउ संयवे पायचारीवि ॥ ७४ ॥  
एवं सह नरवइणा विसयसुहं तीइ आण्हवंतीए । उड्रं तं कर्मं जं जणियं मुणिडुगंत्राण इ  
उच्चलिओ डुविसहो निवाण्हदेहाज तीइ तहं गंधो । जह शुहुनि चणंतो नासइ नयरीजणो सवो  
तं दद्धूण नरिदो डुकत्तराज्ञारपी कियसरीरो । इंसेइ सुविज्ञाणं तोहिपि विवज्ञाया इरुं ॥ ७५ ॥  
घोरामवीश्वमझे तुंगमहाज्ञवणसंविया वसइ । दूरछिय सुहेडेहि रसिकंजती पवनेताण ॥ ७६ ॥  
चिंतइ डुखियहिया धिरहुं मे जीवियस्त एयस्स । जेणेरिसं सरीरं निषिनिमंयं हय कयंतेण इ  
अहवावि पुवचवे पावं अइदाराणं मए चिन्नं । तेणेरिसो विवाओ संजाउ मझदेवस्स ॥ ७७ ॥  
ता सहियं एयं किं वहुणा विविषण एषण । इय चिंतिकण सुइरं संधीराई अन्तणो हियरं ॥७८॥  
एवं जा पद्मके चिठ्ठइ गुरुडकनिप्रसरसिरा । ता वरचुवण्हगवरके पित्रइ सुगमिहुणां पाणं ॥७९॥  
जणिउ नियदइयाए सुजेसुश्वगाइपडमरणीए । साहसु मश्वमहायस कहाण्यं किंपिरमणीयां ॥८०॥  
मयणावदीवि चिंतइ संतुठा साहु जंपियं मिमीए । जह साहइतोमझ विडुरक विणोओकओहोइ ॥  
२ सीहेखडे । २ शुरपुरावासी । ३ विज्ञाहरंवि । ४ तोगंधो । ५ घिरचु । ६ विनिमियं । ७ आह्याविय ।  
८ सा धीरइ । ९ जा । १० चवण ।

तेण विसा पक्षितसिया चरियं उय कपियं तुह कदेमो इहतसियानजंपदनरिम् मह महंतोमो

जह जयमूरो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥  
तेण विसा पक्षितसिया चरियं उय कपियं तुह कदेमो इहतसियानजंपदनरिम् मह महंतोमो

जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥  
जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥

जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥  
जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥

जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥  
जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥

जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥  
जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥

जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥  
जह जह महंतोमो रथा मुहमङ्गतमेण तस्म जह चक्का। जह आठावयगमालं मुषिणो जह गंवधूयाए॥

? पाठे । १ सोजायण । ३ सूझौ। ५ नाह । ५ सवधुयाहरण । ६ सुपरिचिन्ना । ७ सूझौ। ८ च

१० चाह । ११ संबुद्धा ।

अष्टप्र.

॥५॥

गंथपू.

बन्द्धविक्षो नरिदो मयणाव लिपाससं त्रियनरेहे । देवी विय लियगंया संजाया देवपुद्वेहि ॥ २०८ ॥  
अमररसेण व तिनों तं वयणं निमुणिजण सो ताण । दाउं पन्न्य दाणं संपत्तो तीर्य पासंमि ॥२०७  
तद्वसणतुदेणं नरवश्चण गयवरंमि आरुहा । आणीया नियगेहं सा जड्या परमं नेहेणं ॥२२३॥  
संहुदो जा राया नयरंमि महूसवं कुण्डे रंमं । ता देवीइ समेउ नाणिउ उक्काणपालेण ॥ २२२ ॥  
देव मणेरमनामे उज्जाणे अमयतेय मुणिवश्चणो । लोयालोपयासं उपदं केवदं नाणं ॥२२४॥  
इत्थंतरंमि राया नाणिउ देवीइ हरिसियमणाए । सामिय महूसवाउ एसो परमूसनो “रंमो ॥२२५॥  
ता गंमउ मुणिपासे समयं चिय सब नयरिलोएँइय नाणिउ संचलिओ संपत्तो मुणिसत्यासंमि ॥  
केवलिणे पयकमदं नमिजण सपरियणो वि<sup>१</sup> नरनाहो । उवविठो पयमुदं<sup>२</sup> धम्मं सोउं समाडत्तो ॥  
पत्थावं दहिकुणं पुठो मयणावर्दीइ मुणिनाहो । जयवं को सो सुयगो<sup>३</sup> जेणाहं नोहिया उहिया ॥  
नाणिया सा केवलिण गहे तुह एस पुवजवत्ता । देवो तुद्धसत्यासे समागर्ते किररुवेण ॥२२६॥  
तित्ययराउ मुणीउ सविसेसं तुश संतियं चरियं । तुह इरुक्कनासण्तरं साहह सुयमिहएरुवेण<sup>४</sup> ॥  
पुड्युणोवि तुठा चयवं सो<sup>५</sup> इत्तु सुरसमूहंमि । चिठ्ठ सो देवसुओ साहसु आइकोञ्चां मझ्या ॥  
नाणिया जो तुह पुरओ चिठ्ठ मणिरयण कुंकलात्तरणो । सो एसो देवसुओ चहे तुह पुवजवत्ता ॥ ॥५॥

१ तीइ । २ पवर । ३ करवेइ । ४ उक्काणपालेहि । ५ आ महसवो । ६ तयरलोएण । ७ नाणिउ । ८ मुणिसत्यासंमि ॥  
एय । १० पयमाले । ११ मुउ । १२ तह किररुवेण । १३ तुह । १४ आइकोउयं ।

सा गंतूणं पताणः साहुतुमे मुग्धु नोहिया अहये<sup>३</sup> । तुह उवयारस्स अहं पकित्वयारं नहुसमत्रा  
 नेणा वि चापनितिणा चाहेहं अज्ञा सतमदिणाई । चविकण स्वयरसुचो होहामि न इह संदेहो  
 पनिचाहयाओऽहं पकित्वत्तमिभीहं तस्मैं तं वयाणं । जह होही महनाणं वोहिस्स मुण्डेवयं ॥१५३  
 छ्य तणिणा सोऽव्यो संपत्तो सहमुरोहं नियताणं । सा विदु नियततारं पताणः महुरेहि वयणेहि १५४  
 तुनं मुग्धो यमुहं मण्डत्त विदु तुमे समं नाह । श्वेहं मुग्धु महायस करेमि ठुकरकर्यं तेण ॥१५५॥  
 विद्विणा वेना मुंदिरि रयाणं नियकरन्वात प्राहं । पुणरवि करयत्तचकियं<sup>४</sup> को मुश्राद् वियकणो  
 नियवाय विदु नाह कर्यात विद्विणे नाण कस्सन होइ संसारे  
 विद्विणे तह विदु सा नाह कुण्डु प निवयं । संज्ञोगात् विद्विणे नाण कस्सन होइ संसारे ॥१५६॥  
 नालामि तुह विद्विणे तह विदु सा नाह कुण्डु प निवयं प किनज्जाइ उत्ति सा विद्विणे ॥१५७॥  
 गुम्बत्तहमाहमुडा पनित्वाणं जाव देहै नहु राया । ता गुलो होहो विद्विणे तह विद्विणे अहं ॥१५८॥  
 तमित्राणा मुलित्राहं चाहै जद्वायुद्वायो राया । पणमः सगगत्वादिरो पद्मा मयणमाविद्विणे ॥१५९॥  
 चुलित्राणा गुणा अम्भं गुरमुद्वत उठिहं तह राया । संपत्तं नियतत्वाणे सविसेसं कुणाइ जिएथम्मा ॥१६०॥  
 मग्नावावदी वि अज्ञा विद्विणे अज्ञाहं सह विद्विणे । उग्मं तवो विहाणं कुबंती जावसुद्विणे ॥१६१॥  
 तंत्रो विय चविकणां उपद्वाय पवाण स्वयरसुवयनि<sup>५</sup> । जोग्मं गुणसंपुद्वो नामेण मियंक नामुत्ति ॥१६२॥  
 ३ विद्विणे । ३ विद्विणे तहम्म तीड । ४ करयत्तच । ५ मंजोगात । ६ पदिविकाइ । ७ गुरुणण-  
 १ मुग्धा । २ अहियं । ३ विद्विणे तहम्म तीड । ४ करयत्तच । ५ मंजोगात । ६ पदिविकाइ । ७ गुरुणण-  
 ८ गुरुणण-  
 ९ गुरुणण-  
 १० गुरुणण-  
 ११ गुरुणण-

अष्टप्र.

॥६॥

गंधृ-

मयणावली वि अङ्गा रथणीए नियथ आसम डुचारै निचादक्षाणं मि त्रिया सा दिठा तेण कुमरण ॥  
दिवविमाणारुह्नो कंचणमणिमउकुमरो पथंकंतो अन्तणो रिङ्कि १३४  
पञ्चणइकीस किसोयरि उगतवं कुणसि कहसु मस एये । जइ इब्बसि लोगसुहं ता निसुणिसु  
जासियं मझ ॥ १३५ ॥

अहयं खेयरकुमरो मियंक नामुनि रथणमालाए । पाणिगहणनिमित्तं गड्ढतेण तुमं<sup>२</sup> दिचा ॥ १३६॥  
आरुहसु वरविमाण रथणमालाए किंपि न हु कर्जे<sup>३</sup> । चुंजसु उत्तमसुरकं मए समं खयरनयरंभि ॥  
एवं पत्रणंतस्स य अर्णेय चाहूणि जंपमाणस्स । न चबाइ नियसतार्जु मुनिचाला मेरुचूलर्व ॥ १३७ ॥  
जह जह मयण वियरे दंसइ सो पुबजमनेहेण । तह तह सा मुहफाण आपुरंइ गुलयसतेण ॥ १३८ ॥  
जा सो मोह विमूढो अणुकुदेह कुणइ तीइ उवसर्गो । ता ऊति तीइ विमदं उपतं केवदं नाण ॥ १३९ ॥  
देवोहं कया महिमाचिकिया कुमुमंजदीवि सीसंमिता सो विक्षियहियठे पदोयए तीइ मुहकमदं  
होऊण तुमं खयरो मए समं निवसिकण सुरदोए । जार्जु पुणो वि खयरो तहविहु नेह न ठड्हेसि १४०  
तह्ना चयसु महायस एयं संसारकारणं मोहं । होऊण एग चित्तो धंमंमि समुज्जामं कुणसु ॥ १४१ ॥  
इय केवलिवयणार्जु सरिजणं पुबजमसंवंधं । संवेगसमावद्वो उपारइ अन्तणो केसे ॥ १४२ ॥

? दिचा सा । २ एवं । ३ निसुणसु । ४ रथणमालाए । ५ मय । ६ न रथणमालाए किंपि महु कर्जे । ७ अ-  
णा । ८ मेलचूलिव । ९ आरुहइ । १० गरुय सत्तेण ।

पताण नवला लिला गो नयवइ सबं पर्वनिं तुमए । पनिनो हिउ अ अहयं पक्षितवयारे कर्ते तुमए॥  
पताण नवला लिला गो नयवइ सबं पर्वनिं तुमए । पनिनो हिउ अ अहयं पक्षितवयारे कर्ते तुमए॥  
उगतवय वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
उगतवय वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
जिल्ला दिकं । उगतवय वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
जिल्ला दिकं । उगतवय वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
अज्ञा संपता सासयं सुरकं १४७  
अज्ञा संपता सासयं सुरकं १४७  
झय नणिङ्गां खयरो समं पनिन जिल्ला वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
झय नणिङ्गां खयरो समं पनिन जिल्ला वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
जिल्ला वियकम्मो संपतो सासयं ढाण  
जिल्ला वियकम्मो संपतो सासयं ढाण

सुहमः गंयपूर्या कहाणयं समर्थं ॥  
पुजाएः प्रथममारुद्यानकं गंधविषयं समाप्तं ॥

१. नविय झाणं ।

अष्टप्र.

अथ धूपपूजा कथानकम् ।

धूपप्र.

॥ ७ ॥

मयणा हिंचंदणगरु कपूरसुगंधां धूबेवोहे । पूथइ जो जिणचंदं पूड़कइ सो सुरिदेहि ॥ २ ॥  
जह विणयंधरकुमरो जिणिदचंदाण धूयत्तीए । जाउ सुरनरपुज्को सत्तमजम्मंमि सिन्दो य ॥३॥  
पोयणपुरंमि नयरे राया परिवसइ पसस्तियावो । नामेण चयरसीहो सीहो इव रिभगंइदाणं ॥४॥  
सबंतेउरमझे हियहरा तस्स नारिया कमला । बीयाय अड्हिं विमला विमलयुणा जयपनायव ॥५॥  
इन्हं पि ताण पुता कमलो विमलो य सुंदरायवा । एरामि दिणे जाया डुनिविहिणो निर्जेण ॥६॥  
विहियहियउ राया पुड्हइ नेमिनियं पयतेण । को मश्यपत्तमुचिते साहसु एयं गणेऊणं ॥  
विमलाए उवयरिउ परणइ नेमिनिउ गणेऊणं । उह कमलाए पुतो सबं रज्जं पणासेही ॥ ७ ॥

( उह हवाउ रज्जं कमलापुतो विणासिहइ ॥ ) पाठांतरं

दरकण्णयुणसंपद्वो निम्मालयुणरणच्छियसरीरो । एसो विमलापुतो उह रज्जाधूरधरो होही ॥७॥  
नेमिनिय वयणाउ राया पहुङ्कोहपज्कालिउ । आणाचइ नियपुरिसे<sup>१</sup> कमलं रज्जंमि ठड्हेह ॥ ८ ॥  
ते रयणीए गंतुं कमला अंकाउ रोयमाणाए । दसदिणजायं वालं गहिहुण विणिगया रज्जे ॥९॥  
मुत्तूण रज्जमझे समागया राइणो निवेयंति<sup>२</sup> । तब विमुक्तो सामिय खाणंपि तो जीवेप जडा॥१०॥  
१ जिणिदवर धूयदाण नक्तीए । २ तस्स ३ डुनिवि विहिणो । ४ विमल । ५ वयणेण । ६ आणवइ । ७ नियप  
पुरिसे । ८ निवेयंति ।

तं वयम् सोकरां वाहजदापुष्टोयणो राया । पठतावेण हृते जदंजरिते हृद युतस्स ॥ २५ ॥

मुग्विरहे कमदाए तह सर्वं उरकनिप्रसमणाए । जह करणाहय हियर्ते रक्षावियो<sup>१</sup> नयरलोगोवि<sup>२</sup> ॥ २६ ॥

इहां तं वादं चारुको चंचुसंपुडे काउं । उपन्नो<sup>३</sup> गणणयले<sup>४</sup> दिठो ता अन्न सत्तेण ॥ २७ ॥

उद्धां तं वादं चारुका दुक्का वादंमि जाव ऊँप्ति । ता चंचुसंपुडे पश्चो पक्षिते<sup>५</sup> कूर्वन्मि ॥ २८ ॥

ते उद्वा वि चारुका दुक्का वादंमि जाव ऊँप्ति । ता चंचुसंपुडे पुरिसेण<sup>६</sup> । जवलुक्केण<sup>७</sup> मुर्विं पक्षिपणं तंमि कूर्वन्मि ॥ २९ ॥

आड निला नकिणां गिहावरपीकिपण पुरिसेण<sup>८</sup> । निवर्कतो सो दिठो उकापुंजब पहिएण ॥ ३० ॥

उज्जोगतो अयन्त समंतज नियवेहकंतीए । निहितो पुतो झव नियव जाणपण ॥ ३१ ॥

जाव जहं नहु उड्डता चुयदंडण तेण निहिताण<sup>९</sup> । वचवले नहु जीविहिई<sup>१०</sup> कह वादो झव निहिई<sup>११</sup> चिनतद्मालामि पक्षिते नहु उरक उड मञ्च मरणंपि<sup>१२</sup> । जीवाविज्ञाड पुरिसो गुव जियकममण चेवा ॥

अहवा किमणेण अहं पंथिअर्थ<sup>१३</sup> इह जीविहिई<sup>१४</sup> नामो संपतो सत्तवाहुन्ति ॥ ३२ ॥

जावेन<sup>१५</sup> परिनितद हियय निहतेर्थं तेण वादेण । ता तहुं सुवर्णर्थुं चारंतो<sup>१६</sup> उरकसद्वाहं पश्च

तं दुरुण मर्यां<sup>१७</sup> पक्षिते नहु उरकसद्वाहो वादं नविजुण अंकमि ॥ ३३ ॥

?

१. रोयानिते । २. नवरितो उवि । ३. उपाड्डते । ४. गचणयदे । ५. पड्ड । ६. पहिएण । ७. गहिरुण । ८. मरणमि ।

९. उद्वा विहिई<sup>१०</sup> । १०. जीविहिई<sup>११</sup> । ११. नि पक्षिते । १२. जीवियंभि । १३. जाएवं । १४. निहितेण । १५. तवा ।

१६. मुर्या । १७. मन्त्रावड । १८. मर्यांते ।

श्वर्.

जा जलगहणनिमित्त समागचा सडवाह नियपुरिसा। तं निशुष्णति रुचंतं कूचात् समुठियं सदं ॥४॥

( ता निशुष्णति य सदं । कुचमधुष्टियं सदं ॥ ) पाठंतरं

ते गंतृण मसेसं<sup>१</sup> सर्वं साहंति<sup>२</sup> सडवाहस्स । सोविय सहै पुरिसेहैं सर्वं ॥५॥  
तं दारएण सहियं पहियं सवायरेण सडाहो । कहुवहै मझकुसलो विहियपउरेण जं तेण ॥६॥  
पञ्चणइ पहुठमणसो सडाहं पण मिकण सो पुरिसो । जीयं दितेण<sup>३</sup> दारएयस्स महजीवियं दिन्नारेण ॥  
सत्थाहेण विचापियं कोसि तुमं दारगोवि को एस । जेणोसो पनियंधो अहिययो दारगो तुक्ष ७  
पहिएण चापियं । दारिवहुरुकता विउ चलिउ देसंतरंमि जाविउ ।

बाढं तहानकिउपकिउ ता कूचमझंमि ॥ ८॥

गथएयलाई एसो विठो कूचोवारिमि निवर्दतो । गहिउ करुणाइ माए जाउ एयंमि पनिवंधो ॥९॥  
आसमओइहैं एयं पालेउ विचवजिउ जज्ञा । गिहुसु एयं सुपुरिसं दिज्ञो तुह दारगो एसो ॥१०॥  
सडाहेणवि<sup>४</sup> गहिउ हडाई तस्सह रिसियमणेण । दिन्नं च तहा दाणं जह जाउ धणवहै पहिउ<sup>५</sup> ११  
विएयं घरति नामं काऊण समणिपउ पिययमाए । साविय गरुथसिएहा<sup>६</sup> पावइ तं तुननेहेण ॥१२॥  
विएयं घर गहेउ आणवरयपथाणएहै संचलिउ । संपत्तो नियनयरे सडाहो कंचणपुरंमि ॥१३॥

<sup>१</sup> असेसं । <sup>२</sup> साहिंति । <sup>३</sup> निय । <sup>४</sup> ध आगडदेसंमि । <sup>५</sup> कहुवेइ । <sup>६</sup> दितेणय । <sup>७</sup> दारगस । <sup>८</sup> य । <sup>९</sup> तम्हा  
गिन्हसु एयं । <sup>१०</sup> सज्ञाएणवि । <sup>११</sup> मणेण । <sup>१२</sup> गुरुयसिएहा ।

॥८॥

दीसद्धुतसरित्रो विणवंधरे जडवि॑ सहवाहेण। तह विडु जणेण बुचाइ॒ कम्मगरो॑ सहवाहस्स ३५  
 अहित्यवरं द्वूमिक्काइ॑ विणवंधरो तेण लोयवयणेण। अहवा परघरवासि॑ द्वूमिक्काइ॑ को न जियवोए॑॥  
 अह॒ अहवा कायाइ॑ कीबंतो जिणहरंमि॑ संपन्तो। निसुणइ॑ साहुसयासे॑ धंमं जिणध्यपूयाए॑॥ ३६॥  
 मयणाहि॑ चंदणायुल॑ कप्पर सुयंध॑ धूवपुकेहि॑। युक्काइ॑ जो जिणचंड॑ पूशक्काइ॑ सो सुरिदहिं॑॥ ३७॥  
 द्व्य निसुणिरुण॑ वरण॑ विणवंधरो नियमाण॑मि॑ चिंतेइ॑। ते थवा जे निच्छूयवेणाँ॑॥३८॥

( ते थवा जे धूवेहि॑। पूयंति॑ जिण॑ सुधूवेहि॑॥ )पाठांतरं

अहयं पुण अस्तमत्रो॑ एगंपि॑ द्विण॑ जिणस्स पूयाएतम्हा धिरत्यु॑ जंमो॑ मह॑ एसो॑ धम्मरहियस्स ४०॥  
 गङ्वं परिच्यतिंतो॑ समागउ॑ जाव अत्तणो॑ गेहे॑। ता॑ गंधिए॑ धूवो॑ समप्पिउ॑ सहवाहस्स ४१॥  
 तेण॑ वियुक्तियनिवद्धो॑ समप्पिउ॑ परियणस्स सो॑ सबो॑। विणयधरेण॑ विद्वद्धो॑ संतुठो॑ अत्तणो॑ हियए॑॥  
 नियपरियणो॑ इहो॑ सो॑ धूवो॑ चंक्कियाइ॑ देवाण॑। विणयधरेण॑ नीउ॑ संझास्तमयंमि॑ जिणत्वाण॑॥ ४२॥  
 परकालियकरन्वरणो॑ चंवेउ॑ नासियं॑ च वेडेण॑। रुहिकर्ण॑ समाहुतो॑ तं जिणपुरखे॑ पवरधूयं॑॥ ४३॥  
 वित्तरइ॑ धूवगंधो॑ सबन्तो॑ महियद्वंमि॑ गयणंमि॑। धूयककुहुयेहरो॑ कुणइ॑ पश्चां॑ च सो॑ धीरो॑॥४४॥  
 जाव न पक्कलाइ॑ इसो॑ रक्षन्तो॑ करकर्तुय॑ द्वियधूते॑। ताह॑ झाँयतेविडु॑ वज्ञामि॑ न नियथगाणार्दे॑॥ ४५॥

? जयवि॑। २ कम्मकरणे॑। ३ मयनाहि॑। ४ चंदणगरु॑। ५ सुंध॑। ६ गंधधूवेहि॑। ७ सुषिकण॑। ८ परिचिंततो॑।  
 ९ द्वित्ताण॑। १० करकर्तुय॑। ?? कडक्कुपादिउ॑। ? २ जीवंतो॑। १३ नियगेहंपि॑।

जा जलगहणनिमित्तं समागच्छा सञ्चवाह नियमुरित्वा । तं निमुक्तं रुद्धं तं कूबाउ समुक्तिं सद्दं ॥३४॥

( ता निमुक्तं य सद्दं । कुक्कुमशुद्धिं रुद्धं सद्दं ॥ ) पाठांतरं  
ते गंतए मसेसं<sup>१</sup> सबं साहंति<sup>२</sup> सञ्चवाहस्स । सोविष सहै<sup>३</sup> पुरिसेहि<sup>४</sup> समागार्जे अयकादेसंभि<sup>५</sup> ॥३५॥  
तं दारएण सहिं पहिं सवायरेण सञ्चाहो । कहुवै<sup>६</sup> मश्कुसदो विहियपउरेण जं तेण ॥३६॥  
पञ्चए<sup>७</sup> पहुठमणसो सञ्चाहं पण मिजण सो युरिसो । जीर्ण दिंतोण<sup>८</sup> दारयस्स महजीविर्ण दिन्जाशुण<sup>९</sup>  
सतशाहेण विर्ण चणियं कोसि तुमं दारगोवि को एस । जेणेसो पन्जिंधो अहिययरो दारगो तुक्ष १८  
पहिएण चणियं । दारिहु उरकतविर्ण चविर्ण देसंतरंभि जाविर्ण ।

बाहं तहान किठप किले ता कूवमझंभि ॥ ३८॥

गयएयदार्जे एसो दिठो कूवोवार्हिमि निवर्णतो । गहिउ करणाइ माए जार्डे एर्यमि पक्किंधो ॥३९॥  
असमओउहं एर्यं पालेऊ वितव जिले जह्वा । गिहसु एर्यं सुपुरिसं दिन्नो तुह दारगो एसो ॥३१॥  
सञ्चाहेणवि<sup>१०</sup> गहिउ हवार्जे तसवह रिसियमणेषु<sup>११</sup> । दिन्नं च तहा दार्ण जह जार्डे धणवई पहिउ<sup>१२</sup> २२  
विणयं थरन्ति नामं कार्जण समप्पिउ पियथमाए । सावियगरुयसिषेहा<sup>१३</sup> पालइ तं पुतनेहेण ॥३३॥  
विणयं थरं गहेऊ अएनरथपथाणप्पिहं संचविर्ण । संपतो नियनयरे सञ्चाहो कंचणपुरंभि ॥३४॥

॥१॥

१ असेसं । २ साहिंति । ३ निय । ४ आगडदेसंभि । ५ कहुवै । ६ दितेण्य । ७ दारगस्स । ८ य । ९ तम्हा  
गिन्हसु एर्य । १० सञ्चापणवि । ११ मणेण । १२ गुरुयसिषेहा ।

दीसद्द युतस्त्रिवो विषयं धरो जडवि॑ सत्त्वनाहेण। तह विहु जरोणा त्रुच्छइ॒ कम्मगरो॑ मत्त्वाह॒ सम ३५  
 अहियरं दूमिक्काइ॑ विषयं धरो तेण लोयवयेण। अहवा परवरवासी इ॒ मिक्काइ॑ को न जियतोगा॑॥  
 अह अन्नया कयाइ॑ कीलंतो जिणहरंमि॑ संपत्तो। निसुणइ॑ साहुसथासे॑ धंमं जिणध्यपृथगा॑॥ ३५॥  
 मयणा हिं॑ चंडणागुरु॑ कपपूर सुयंध॑ धूवपुलकेहि॑। युक्काइ॑ जो जिणनंद॑ पृष्ठक्काइ॑ सो सुरिदेहि॑॥ ३६॥  
 इय निसुणिकाँ॑ वयणं विषयं धरो नियमणंमि॑ चितेइ॑। ते थद्वा जे निच्चं पूर्यंति जिणं सुध्यवेणा॑॥३७॥

( ते थद्वा जे धूवेहि॑। पूर्यंति जिणं सुगंधेहि॑॥ ) पागांतरं

अहयं पुण अस्तमत्रो॑ एरांपि दिणं जिणस्स पूयापातम्हा॑ धिरत्तु जंमो॑ मह॑ एसो॑ धम्मरहियस्स ४०॥  
 एवं परिच्छंतितो॑ समागउ॑ जाव अत्तणो॑ गेहे॑। ता गंधिएण धूवो॑ समपिउ॑ सत्त्वाहस्स ४१॥  
 तेण वि॑ युक्तियनिवङ्को॑ समपिउ॑ परियणस्स तो॑ सद्वो॑। विणयधरेणवि॑ दाळो॑ संहुठो॑ अत्तणो॑ हियगा॑॥  
 नियपरियणेण इहो॑ सो॑ धूवो॑ चंक्कियाइ॑ देवाणं॑। विणयधरेण नीते॑ संझासमयंमि॑ जिणनवणे॑॥ ४२॥  
 परकालियकरचरणो॑ चंघेजं॑ नासियं॑ च वडेण। कहिकाँ॑ समाहुतो॑ तं जिणपुरउ॑ पवरध्यवं॑॥ ४३॥  
 विवरइ॑ धूवांधो॑ सवत्तो॑ महियदंमि॑ गयणंमि॑। धूयकमुहुयेह्वो॑ कुणइ॑ पङ्क्कं॑ च सो॑ धीरो॑॥४४॥  
 जाव न पज्जलाइ॑ इमो॑ कञ्जंतो॑ करकहुय॑ डियध्यउ॑। ताह॑ जीयंतेविहु वज्जामि॑ न निययताणउ॑॥ ४५॥

१ जयवि॑। २ कम्मकरो॑। ३ मयनाहि॑। ४ मयनाहि॑। ५ सुगंध। ६ गंधधूवेहि॑। ७ सुपिजाण॑। ८ परिचंततो॑।  
 ९ दहिकाण॑। १० ककहुय। ११ कडहूपछिउ॑। १२ जीवंतो॑। १३ नियगेहंपि॑।

आष्टप्र.

जा जबगहए निमित्तं समागया सडवाह नियुरिता । तं निसुण्ति रुपंतं कृवाउ समुद्धिं सदं ॥४४॥

( ता निसुण्ति य सदं । कृवमप्रहुयं सदं ॥ ) पाठांतरं

ते गंतृण मसेसं<sup>१</sup> सद्वं साहंति<sup>२</sup> सडवाहस्स । सोचिय सहै पुरिसोहि<sup>३</sup> समागर्जे<sup>४</sup> अथर्वदेसंभि<sup>५</sup> ॥४५॥  
तं दारएण सहियं पहियं सवायरेण सडाहो । कहुवै<sup>६</sup> मश्कुसदो विहियपठेण जं तेण ॥४६॥  
पचणइ पहुमणसो सडाहं पण मिजण सो पुरिसो । जीयं दिंतेण<sup>७</sup> दारयस्तु महजीवियं दिव्यांशु ॥  
सत्थाहेण वि<sup>८</sup> चणियं कोसि तुमं दारगोवि को एस । जेणेसो पकियंधो अहिययो दारगे तुक्ष २७  
पहिएण चणियं । दारिहुरकतविर्जे चविर्जे देसंतरंभि जाविड ।

वाढं तहानकिठपकिठे ता कृवमञ्चंभि ॥ ४७॥

गयणयदार्जे एसो दिठो कूवोवरिभि निवर्कतो । गहिउे करुणाइ मए जार्जे पर्यमि पकियंधो ॥४०॥  
असमओहं एयं पादेत्वं विनवज्जिउे जहा । गिलमु एयं मुपुरिसं दिनो तुह दारगो एसो ॥४१॥  
सडाहेणवि<sup>९</sup> गहिउे हवार्जे तस्तह रिसियमणेषु । दिनं च तहा दाणं जह जार्जे धणवई पहिउे<sup>१०</sup> ३२  
विषयं घरन्ति नामं काजण समपिठे पिययमाए । सावियगलयसिणेहा<sup>११</sup> पालइं तुतनेहेण ॥४२॥  
विषयं घरं गहेउं अणवरयपयाणपहिं संचविल्जे । संपतो नियनयरे सडाहो कंच्चपुरंभि ॥४३॥

<sup>१</sup> असेसं । <sup>२</sup> साहिति । <sup>३</sup> निय । <sup>४</sup> ध अगडदेसंभि । <sup>५</sup> कद्गुवेइ । <sup>६</sup> दिंतेष्य । <sup>७</sup> दारगस्स । <sup>८</sup> य । <sup>९</sup> तम्हा  
गिन्नहसु एयं । <sup>१०</sup> सडाएणवि । <sup>११</sup> मणेण । <sup>१२</sup> गुरुयसिणेहा ।

॥४॥

मर्वन्ति प्रदणिकां चहसा जरको अदृश्यी हूँते । विषाणुं धरो विडु जिएं नमिकाणं चण्ड नरीए ६०  
 उन तुलिकाल जिएं ॥ युग्म युग्म नमि गंडु न समरो ॥ तं होउ मझ्य पुँतं, जं जिण तुह झूयदाणी ६१  
 अह नमि चेव नवै, चाहाहै नाम नरचं चसड ॥ चज्जानिच कण्ठाना, चाणुमडि केनगा तस्स ६२  
 इय धाह धाह धाह धाह धाह धाह धाह ॥ विहिणो वसेण कफ्काँ, सा सुर्ता उग्गुच्छगोण ६३  
 किक्केनि उव्वंकेनो ॥ नवाहुमुज्जल धोइक क्वोलो ॥ ३४ सह परिचाण राया समागर्ते केनगा चवर्णं  
 ना नुक्के कठंपिव ॥ निजिठं पिजिट्टण नं ॥ कहाँ । राया निमीलियो धसनि धरणीयो पक्किई ६५  
 नं चवर्णनामानं नरचं उक्के निचाणि उक्के ॥ अतेत्रेण सहितु धाहाहाह उचाकंठेण ॥ ६६ ॥  
 चंद्राकठिं चियनिच्छानिचिठा जालिऊजाना केना । नीआ महामसाणे चक्किरचहुरनिधेसापु ६७ ॥  
 अह नो किं जियाहान्दा नामं गंडाना जा निचनेह । ना पिच्छ येच्यवाणे रोञ्चं नरचिलोच्यं ॥ ६८ ॥  
 अमानो ॥ ६९ ॥ चुक्करु ॥ ७० ॥ नवाहुमुज्जल निचहरोनो ॥ ७१ ॥ मधिहं ॥ ६९ उचरिं ॥ ७२ ॥  
 ७३ तं सुक्कनांगिच ॥ ७४ निय ॥ ७५ सतिक ॥ ७६ आरि ॥ ७७ सुमुचा ॥ ७८ निय ॥ ७९ सतिक ॥

आप्तः

धूपः

तो पुठो कोवि नरो किं एसो रुयइ नरवइबोई । तेणवि सबो सिठो बुतंतो रायकनाए ॥ ७३ ॥  
जइ एवं ता साहसु एत्रं गंतॄण निययसामिस्स । जह एसो कोवि नरो कंनाए जीविञ्च देइ ॥७४॥

॥११॥

तेणवि गंतुं सिठुं जह एसो देव परिसं जाणइ । अहिइडाए जीयं देमि आहं रायकनाए ॥७५॥  
विषयधरेण जाणियं पडणी करोमि रायवरकाळं । चबणेसु निविकिङणं आह भणियं रायपुरिसिहं ॥ ७६ ॥

कुण्णु पसायं सुपुरिस गम्मज ता नरवरस्स पासंमि । एवंति जंपिजणं पता ते रायपासंमि ॥ ७५ ॥

काऊणं च पणामं जाणियं विणयधरेण कुमरेण । मुंच विसायं नरवर फजाणि च करेमि तुह धूयं ॥ ७६ ॥  
तं निमुलिऊणवयणं हरिमियहियएण राइणा जाणियातुह कंनाए सहियं रक्काळु देमि सविसेसंगद  
अन्नंचिय जं जाणसि<sup>२</sup> तं सर्वं देमि तुम्ह<sup>३</sup> सविसेसं । किं जंपिजणं वहुणा जीयंपिहु तुह पयवामि उह  
विणयधरेण विनैमित्तं जाणियं मा देव परिसं जाणसु । सिद्धेकक्कंमि तुम्हं जं तुतं तं कुणिजासु ॥७७॥  
दंसिज्जउ देव सुआ जाणिए सा कहुहुण चियगाउ । चिणयंधरस्स पुरते रविया वहुलोयपञ्चरकं  
अरकयकुमसमिन्द्र कयगोमयमंरहे त्रवेऊण । जरकं काऊण मणे सिता सा रयणनीरेण ॥७८॥  
रयणजवलमित्तगता चेयणं<sup>४</sup> पाविजण सा कंना । अवबोइयं<sup>५</sup> पयता तं पासपरिठियं लोयं ॥७९॥  
तं सच्छिट्ठ नाउं आंके काऊण अतणो धूयं । आणंदसमुढियनयणवारिधाराहिं घोवेई ॥ ७१ ॥  
पुहुइस गगगयगिरो<sup>६</sup> वडे किं वाहए तुह सरिरे । ताय न वाहइ किंचिवि चियगा किं दीसई एसा ॥  
॥१२॥

१ सर्वं । २ पञ्चणसि । ३ तुक्ष । ४ जंपिषण । ५ विणयंधरेण । ६ चेयज्ञ । ७ अनवोइउ । ८ सिचेई । ९ ग-

गिरगिरो । १० दिससए ।

किं गच्छं पैत्रावरणं जंपाणं सज्जिर्वं च किं एवं । किं एसो लच्छं जणो सडुक्षिर्वं मङ्ग पासंमि' ॥५४॥  
 चाह्नजद्धुक्षियनयणो रात्रा तं नाणइपुनि सप्नेण । इहा उमं निचिठा विचिठा विचिक्षिर्वं मङ्ग पासंमि' ॥५४॥  
 गवजीवन्ति मसाणे जंपाणे गविक्षिर्वं गवंमि । आणीचा तं वर्तु चियगाविवै विरुद्धाएसा ॥५५॥  
 विक्षिर्वं गुळ्य पाणा निक्कारणवड्वेण एपण । जडुएवं<sup>३</sup> तथ मए एयस्स समधिया पाणा ॥५६॥  
 साहुति जंपिक्काणं गववंवेगविक्काण नवड्णा । विनयंधरेण समंचिय निघोहे आणिया धुआ दा  
 कामविक्काण गया धुआ पुण जम्मुक्कास्सवं नवरे । पुढुइ नियमंतिजणं विणयंधर मूल संसुख्न्याणण ॥  
 चणिंवं मंतिजणाणं कंमगरो<sup>४</sup> गस सड्वाहस्स । एयस्स मूलसुख्न्याण ॥५७॥  
 गोचिय युठो पवाणाण एयस्स न डेव जाणिमो सुर्दिं । कूचाइर्वं बुतंतो सबो विय साहिते तस्स ॥५८॥  
 वक्काइवं चिन्दु कंत न वयणं निसुणित्तण नरनाहो । जस्स कुर्वन्पिन निक्काइ नियधृयंदेमि किं<sup>५</sup>  
 पक्षिवज्जिक्काण कंत न दृमि नाहोमि अवियवाइवै<sup>६</sup> । इय पवं जाव मिं दोलाव इतस्सनवड्णो  
 ना जम्को परपने<sup>७</sup> । गाऊणं नाणइ गव जह एसो । पोयणपुरंमि युझो नरवड्णो वयरसीहस्स ॥५९॥  
 कंमद्वा गप्पउपयतो<sup>८</sup> । जह गामो त्रहुत्तु<sup>९</sup> च रंनंमि । चारंकैपस्किगहिते पक्षिर्वं जहै कूचमझंमि ए५  
 ? पामंति । ? चियगावि । ३ रघु । ४ रघु । ५ जंमजमवं । ६ कम्मकरो । ७ वरपते । ८ विचयमीहस्स । ९ लुधण । १० गप्पक्को । ११ कुचाई ।  
 १२ नांदु । १३ ना पदित । १४ अविचारउच्चि । १५ जंमजमवं । १६ जाणइ जहै । १७ विचयमीहस्स । १८ गप्पक्को । १९ विडित ।

अष्टप्र.

॥१२३॥

युवप निष्ठा पत्तो' समपित्ते जह य सड्गवाहस्स । तं सर्वं साहेत् जरको अङ्गसणीहूर्ते ॥ ४६ ॥  
सोक्तण जरकवयणं हरि सियहियर्ते चण्ड नरनाहो । जह एस जाइऐर्ते मह कमला जाइऐपुत्तन्ति ॥  
आणं दियहियएणं दिना विणयं धरस्स सा कंना । तेणवि सा जाणुमईपरिणीया चर विक्रीईप ॥४७ ॥  
पत्तं च महारज्ञं जाया चंसस्स पायना सुर्क्षी । पहयं कंमगरतं जिण्डपूर्वापजावेण ॥ ४८ ॥

( पहयं कम्मकरतं जिण्डपूर्वापदाणेण ) पाठांतरं

गुरुञ्चमरिसं वहंतो पिउणो उचरिं महंत्सिव्रेण । संचविउ विणयधरो संपत्तो “पोयणपुरंमि॥४९॥  
वामं अंगं वामं च लोयणं वामं चै सीसंखं । कमलाए जणणीए विकुरियं” तंमि संमयंमि ॥५०॥  
अमुणियसुयहुतंतो समझरो वाइरसीहनरनाहो । संनद्गवर्कवर्ते विपिगर्ते अजिमुहो तस्स १०७  
संजायं ताण रणं गयवरुसंघटकृरियरुदोहं । चरुसंघटकर छिय कुतण विजित गयनिवहं ॥५१॥  
जावं जणएण मुक्का सरावली नियमुञ्चस्स नीसंका । सादइव सद्वोहा परिया वडब्ले तस्स ॥५२॥  
तेणवि सासंकेण जा मुक्का चाणवर्कृहं<sup>१३</sup> पित्तणो । साँ भयठते तिर्तु माणुवै विषिणगथा तुरियं ॥५३॥  
जणउविहु परिकुद्दो<sup>१४</sup> जाव सरं कुणई निययकोइडेता जरकेण्यरिते श्वेतं चिन्तलिहिउवा ॥५४॥  
( ता जरकेण्यं धरिउ श्वेतं चिन्तलिहियव ) पाठांतरं

॥५५॥

१ पुतो । २ चण्ड । ३ चगिणियापुतो । ४ महत्त्र । ५ संपुत्रो । ६ वामय व । ७ विफुरिय । ८ दियहंमि ।  
९ संघाय । १० जा । ११ निसंका । १२ वाणपद्दई । १३ साविय । १४ परिकुचिते । १५ परिकुचिते । १६ मुयइ ।

दिक्केऽन्वेषणं को आप्तिनरताचना विग्रहे है। नरवडणो जिचोहिं विणयधरो चाणइ ते हसिते<sup>३</sup> १०७  
 मुनं चंद्रापंक अमुद्धिपंक लामिणो हैं। आविष्ट नरणी तर्तु सा परामुच चतुरिसं क्याणो है। आविष्ट ह जो लिचा जेणेस परासं चाणइ ते हसिते<sup>३</sup> १०८  
 नरणाहो विहु नरणी तर्तु परिचरजणियं क्याणो जडवि तुमं परिचतो तहविहु तुहु एस जणाति<sup>४</sup> १०९  
 नोउल नक्कवयां अमाणवर्ण सिंचिते नरवरिहो। पुतोवि तस्त पर्तुत्तु स्वामइ निय डुक्यं<sup>५</sup> ११०  
 आहिंगिज्ञा पिज्ञा वीने परिचुंचिते सिंहेणानपिते अ समसु पुतय जं तुझ डुचिठियं विहियं<sup>६</sup>  
 मुचनी शार्दीरः<sup>७</sup> दूराते थाविज्ञा नियजणी। आविंगिज्ञा चुंचुइ सूनं गोविव नियवत्ते १११  
 प्रका ना जीमं तुमं अंग गजाण पाढ्यं वीरं। इय पराणती कमला निहित तं अतणो जंमं ११२  
 करगविज्ञा गचा नियुतमसामुठं नवरे। पुनस्स नियवरज्जे<sup>८</sup> दाक्तणं अह समाहनो ११३  
 नरणित्त च युन गिन्छनु महरज्जे जाणवयंमि वरकाये<sup>९</sup>। अहयं पुण पवहो परिवज्ञसंजिणमयंमि<sup>१०</sup> ११४  
 वह वरन्यनिमित्त जाउते तुअ रज्जाचायंमि<sup>११</sup>। नह मञ्चवि ताय तुमं जाओ वेरगहेतुनी॥११५  
 ? दिक्कुर । ३ अर्दिनीर । ३ नगिर नो लाल चिणयमो। उनि चतुर्थंगादः । ५ मुहुर्ते । ५ मुहुर्ते । ५ तो ।  
 गुम्हुर । ५ अमिगाव । ५ नरनाहो । ५ पुराते । ५ उक्तियं । ५ वरणीर । ५ जीह । ५ पाणसर्त । ५ तो ।  
 गुम्हुर । ५ गद्यकंसिय ।

ग गिन्दिरमं<sup>१</sup> दिरकं रकां पुण देह विमलकुमरस्त। इय निश्चित्ते<sup>२</sup> मुणेरुं रको संगावित्ते विमदो ॥  
 विनवंभरानि रकां निश्चयं दाउण सत्त्वाहस्त। पिउण्णासह पवड्डे पासे मुण्णि विजयसूरिस्स १२०  
 उगां तगो विहां काऊण संजमंमि उज्जन्ता। मरिकण समुपपक्षा माहिदे सुरवरा दोन्नि॥१२१॥  
 नुजुण तगु सुरकं उज्जवि<sup>३</sup> चविकण आउय खयंमि। जणुरु जाउ राया खेमपुरे युज्जचंदुन्ति॥१२२॥  
 पुत्रानि तमि नयरे खेमकरनामधेय सिट्टिस्स। पुत्रो विणयमईए गप्पे चक्काए जाउन्ति<sup>४</sup>॥१२३॥  
 जंमाउवि विमुदो निचं चिय निम्मलाउ अंगार्त। उव्वलइ धूयगंयो धूवंतो परियां सयदं॥१२४॥  
 गाहरइ जेण दोउरु सिट्टीपुत्रुन्ति धूयगंधुन्ति<sup>५</sup>। तेणांचिय से जायं<sup>६</sup> नामं से धूयसारुन्ति<sup>७</sup>॥१२५॥  
 लागा धूचियवड्डा सुअंधदहण्ण धूयसारस्स। वच्चइ नरिद्वचवण्ण पुछइ तं विक्षित्ते राया॥१२६॥  
 सवहिद फड लङ्गो देवाणवि वहवहो इमो धूवो। जेण सुअंयो<sup>८</sup> गंधो संजाउ तुहु वडेसु॥१२७॥  
 पतणइ लोगो<sup>९</sup> सामिय धूवेण न धूचियाइ चव्वाइ। धूवावियं पयता देहेण धूयसारस्स॥१२८॥  
 ( संसगाउ एसो संजाउ धूयसारस्स ) पाठांतरं  
 संजायमठरेण रक्का तद्वाविकण सो पुठो। केणयधूवेण<sup>१०</sup> गंधो देहाउ तुहु समुद्दित्ते॥१२९॥

गाया १२८ मी पडी नीचेनी गाया चीजी प्रतिमां रे  
 नोक्कण इमं वयां नरवडम हिवाउ नियवडाइ<sup>११</sup>। धूआवित्ते पयता देहेण धूयसारस्स ॥  
 ? निन्हेतु । २ निडिय । ३ पितणो । ४ चोए । ५ डुन्निते । ६ पुत्रचंदोन्ति । ७ जाउय । ८ तस्त निम्मदंगार्ते  
 ९ नवं । १० जिडी पुत्रोय धूयगंधेण इति वितीयपदः । ११ संजाय । १२ धूयसारोय । १३ सुगंधदेहण  
 १४ सुमंधो । १५ लोउ । १६ धूवेणकण ।

गंवसारेण चरीचं नहु एसो सामि धूयांग्युन्ति । महदेहात् समुद्रो एसो साहाविर्जं गंधो ॥२३०॥  
 असुइनिवितं काउं एवं गवेह नयरमझंमि । इय रुठेण रता आइड्हा अतणो पुरिसा ॥ २३१ ॥  
 पनस्त धूयांग्यो देहाते जेण नासइ आसेसो । इय चणिए नरवइणा सर्वंपि आणुहियं तेहिं ॥२३२॥  
 अह सो जरको तह जस्किए उल्लूण माणुसं जंमं । जिनवर धम्मेणै तर्तु उपच्चा सुरवरा दोविरङ्ग  
 इनो ते होवि सुरा चञ्चता केवलिस्त धम्मेणै तर्तु उपच्चा सुरवरा दोविरङ्ग ॥२३३॥  
 युवसिगोहा डुलिनि “अवहीनाणेण तं वियाणेऽजं गंधो देहार्थ तस्स भुविले । पिंति धूयसारं वहुअसुइकहमा लिन्तं ॥ २३४ ॥  
 अहियरं च सुरुंधि गंधो देहार्थ तस्स भुविले । सवजणाणं दकरो चासंतो इसदिसानोच्चां ॥२३५ ॥  
 तेणवि चणिए नरवर योवो विहु नहिं इहु तुहोसोस्वोपुवकयं चिय आणुहवइ सुहासुहं कममं ॥२३६॥  
 राया विक्षिगविधर्व असरिसचरिएण धूयसारस्स । चिंतइ गंतए श्रीहं पुरिस्स केवली एयं ॥२३७ ॥  
 सह परियवेण राया चं धूयसारोवि ॥ गंतुं केवलिपासे जवविदो ॥ पणमितं विलिन्ते एस मए निरुवराहो चिः ॥२४१॥  
 अंमं सोजण तर्तु उउइ नमिकण केवलं राया । जयं किं पुवचवे समजियं धूयसारेण ॥२४२ ॥  
 जगोसो सुरुंधि गंधो देहार्थ निचासुहवाई ॥ असुइए किं विलिन्ते एस मए निरुवराहो चिः ॥२४३॥  
 ? धूयसारेण ॥ आजत्ता ॥३ जिणयमेण ॥४ तर्तु ते ॥५ दोहिवि ॥६ कुषमवर्सि ॥७ सलिव बुहिं । एस सुंधो ॥  
 एविहयं ॥० इमं ॥१ समिचे ॥२च ॥ ॥३ उविचा ॥४ तर्तु ते ॥५ देहाज निचमेव उड्हवइ । इतिवितीयादः ॥

देवोहि फानिदेवं विहियं पापसत कि निमित्तेण । साहेह इमं सर्वं अश्वारुयं कोउगं मझ्मा॥१४३॥  
सादृश मुणी मदपा इतो जंमाउ तश्यजंमंसि । उकितो वरध्वो जिष्पुरुर्ते कथपश्वेण॥१४४॥

१४४ पनी वे गाओ वधारे ने ते.

तेणो गंजाउ धूयुर्यो मणोहरचाउ । देवेण पूयुषिको बुहजारी जोगजागीच ॥ १४५ ॥  
इनो नाथुरसुख उचूणं इच सतमे जम्मे । पानिहङ् मुकमुकं जिणिदवरधूयदाणेण ॥ १४६ ॥  
पासो य धूयसारो पुनो त्रुह आसि तश्यजंमंसि । पोयणपुराइ चरियं सर्वंचिय साहियं तस्सा॥१४७ ॥  
जं पुण इमिणा नणिउँ रणे विलिपेहै असुइणा पयं । तं संपइ अणुहूयं तुक्ष सथासाड एप्पण ४८८  
जायं जाईसरणं तं केवलि जासियं सुणंतस्स । धमंमिय बडुमाणे संजाउ धयसारस्स ॥ १४९ ॥  
संजायथस्मस्तक्तो सर्वंचिय नेहवंधणं निँचु । नरवइसहिउ दिरं पफिवद्वा धूवसारोवि ॥१५०॥  
तवसंजमनियमरउ पवकं पाविकण सो धीरो । आउरकंयमिमिरिउ संपत्तो पहमगे विज्ञेण ॥१५१॥  
ततो सो चविकणं नरसुरजंमेसु परिनवेऊणं । सत्तमजंमंसि तर्तु<sup>१</sup> संपत्तो सासरयं गाणं॥१५२॥  
धयसारकहाणयं संमतं ।

॥ पूजाएक धूपविपये विणयंधरकथा समाप्ता ॥ ५ ॥

॥१२३॥

<sup>१</sup> मप्र । २ नणियं । ३ लिपेह । ४ अणुत्तयं । ५ केवलि संजासियं सुयंतस्स । इति द्वितीयपादः । ६ अणु-  
राउ । ७ चिन्त । ८ संजाउ । ९ परिनवेऊण । १० युणे ।

अवंकु कियुकरकपहि वुंजत्यं जिणिदस्स  
॥३॥ अदत्पूजाविषये कथा.

जह जिणपुरई तुलककपहि वुंजत्यं जिणिदस्स । पुरई नरा कुणंतोः पावंति अवंकियुहाइः ॥१॥  
अविड्व नरहवासे सिरिपुरमधरससवा हिउज्जाहे । कीरमिहेण पतं अवंनियं सासर्वं सुरकं ॥२॥  
जनगणस्स तस्स पुरई सहचार महाइमुन्ति सर्वाई । रिसहजिणेसरउवरण्यं देवविमाणंवरमणीयं ॥३॥  
अह अवया कथाईंचणिई सो तीइ अन्तणे लता आणेह फोहलो मे सीसं इह सालिखिचाई ॥  
चणिया सोः तेण पिए एवं सिरिकंत राझणे खितं । जो एवंमिवि सीसं गिनहड्सीसं निचो तरस ६  
चणिई तीए सामिय तुह सरिसो नहि इड्कापुरिसो<sup>१</sup> (जो लज्जंपि मरणं इवसि नियजीवोहेण)  
( जो लज्जंपि मरंति इड्सि नियजियलोनेण<sup>२</sup> ) इति पागंतरं ।  
इय चणिई सो तीए लज्जाए जीवियस्स निलविसो<sup>३</sup> (गंतूण सालिखिते आणड सो सालिसीसारण<sup>४</sup>  
गावं सो पड़ियहं रकंताणपि राघुपुरिसाण । आणेइ मंजरीई चक्काएसेण<sup>५</sup> सो निचो ॥ ८ ॥  
अह अवया नारिदो समागडे तंमि सालिखितंमि । पिभिइ सउणविवर्तं खितं एगदेसंमि ॥ २० ॥

<sup>१</sup> कुणंतोहि । <sup>२</sup> इड्हु । <sup>३</sup> चाहिरज्जाहे । <sup>४</sup> रक्षण । <sup>५</sup> इमुचितउसडाई । <sup>६</sup> अलोजनेविहंतं । <sup>७</sup> रक्षा । <sup>८</sup> सञ्चितिविभुवं ।  
<sup>९</sup> मा । <sup>१०</sup> कातरिमो । <sup>११</sup> निरपिको । <sup>१२</sup> मालिमिजाई । <sup>१३</sup> लज्जाई वसेण । <sup>१४</sup> सञ्चितिविभुवं । <sup>१५</sup> दोहबो ।

अकृत  
पूजा।

तो अस्याम् तो पुराणात्मा मालिगाद्युनि । किं इति इमं ईस्ट सञ्जोहिं विषासियं खितं ॥ २१ ॥  
विभिर्य तेऽस्ति ग्रन्थं गो मालिमंजसी । विन्दु । गस्ति कंतोवि वदं चोरुल कसुति नारोऽशा ॥  
विभिर्य गो विभागा मंत्रिपांगदि तं गद्युक्तं । आणोहु मङ्गपासे होगोहु चोरुल तं छुन्दं ॥ २३ ॥

( वाणीरत्ने पासे सद् सो चोरुल आहु छुनो ) इति पाठांतरं ।

एतद् एतत् दिग्म तंगे गत्याग्युण तेण पुरिस्ताने । पासनिवले निकाह मूर्द्दिं विभागीगाम्य ॥  
पुर्क्षिग्रामा भारद अंगुजवापुव्वत्वोयणा मूर्द्दि । पचा दृष्टाण समं मुहुर्खिग्रा रायनवार्णमिः ॥ ५ ॥  
पृष्ठाणाहिन्दु गगा निदनो तेण सालिपुरिस्ताने । देवेसो सो मूर्द्दे चन्दो चोरुल आणाहिते ॥ ६ ॥  
तं युद्धाण गगा गगां गद्यित्तण जाव पद्योहु । ता सद्दसचिय मूर्द्दे नियपड्णो अंतरे पकिस्ताने ॥ ७ ॥  
पृष्ठाण मूर्द्दे पहाणमै निसंतो अक्क मङ्गदेहिंमि । मुन्नमु रामिय गायं महृजीवियदायां लीये ॥ ८ ॥  
ताह मार्दीण उतारि मंजाते देव मोहद्वो मङ्ग । सो ताणसरिसं कातुं नियजीयं महृवित्तयंमि ॥ ९ ॥  
दग्धिग्राम चाणाह गगा नीर तुमं विनिति विकाते । मळिदाकङ्को जीयं जो जयसि वियस्तगो कहुण  
पाणाह मूर्द्दे मामिय अहुउ ता जाणिं जाणय विनांडनियजीवियं पित्रुपुरितोमहिवाणग्रामाहु ॥

१०३॥

१ गामियांदेव । २ युक्तियु । ३ युक्तो । ४ गोश्वानित्तित्तण । ५ तेलं विरिंदिं । ६ युक्ति । ७ अश्वाण  
८ तेलं वारिगांवित्त । ९ युक्तु । १० युक्तु । ११ युक्तु । १२ युक्तु । १३ युक्तु । १४ युक्तु । १५ युक्तु ।

तं न त्रिं जं न कीरद् वसणा सतेर्हि कामदुर्देहिं । ता अबृद् इयरजणो हरेण देहठं दिक्षं ॥ ४५ ॥  
 जह् सिरिद्वीइकए देव तुमं जीवियं प्रहुहै । तह अनोविहु बहुह को दोसो इह कीरसस ॥ ४३ ॥  
 तीडि वयणेण राया चित्तद् हियएण विहियं इत्तो । कह एसा परिकषीया वियाणए मश्व बुतंता॒श्वा ॥  
 पत्तणएङ् राया जहे दिँठतो कह कहे अहं तुमए । साहुसु सबं एयं आझरुं कोउयं मश्व ॥ ४५ ॥  
 पत्तणएङ् कीरी निसुणसु दिँठतो इत्त जह तुमं जातोआस्ति पुरा तुह रक्जे सामिय परिचायगा एगाश्व  
 बहुकुक्करनरिया जन्ता जा लह खंदैवाण । सा तुह नज्जाइ चिरं सिरिया देवीए भवयरियाश्व ॥  
 नरवडणोहं नज्जा बहुनज्जो एस मश्व जन्तारो । कम्मवसेणं जाया सबोसं दूह्वा अहयं ॥ ४७ ॥  
 ता तह कुणसु पसाचं लयवह जह होमि बघ्वहा पछ्णो । महजीविएजीवझरइ मरंतीइ किं बहुणा  
 नणिया एसा बेडे गिन्हाइ तुमं ठेसहीवलयं । तं देसु तस्स पाणे जेण वसे होइ तुर्ह जन्ता ॥४०॥  
 दयवहइ नवणपवेसोवि न त्रि कह इंसणं समं तेण । कह ठेसहीयवदयं देमि अहं तस्स पांणमि ३२  
 जह गर्वं ता जहे गहिकाणं अज्ञा महसत्यासैर्ते । साहुसु एगागमणी मंतं सोहगसंजणणा॑३३॥  
 तणिकण मुहमुहैने दिक्षो पचाइयाइ सो मंतो । पूञ्चं काऊण पुणो तीएवि पनिहिउ विहिणा॑३३॥  
 जा न्नायइ मा देवी तं मंतं पइङ्गणं पवतेण । ता सहसा नरवश्वा पनिहारी येसिया चणइ ॥ ३४ ॥

\* आ गात्रा चीजी प्रनमां नवी । १ उड्टुतो । २ पत्तो । ३ वहु । ४ देवीइ । ५ दूह्वा । ६ तीए । ७ गिएहाहि  
 ८ न । ९ पार्णमि । १० महमगाजाठे । ११ जाएसु य एगमणा । १२ सुहमहुते ।

अद्वा  
पूजा.

आणवइ देवि इनो जह तुमए अज्ञा चासगचाणंमि । आगंतवमवसरं कुवियप्पो नेव कायबो॥३५॥  
 रयणी कथासिंगारा समंतरै राथबोधपरियरिया । करिईखंधारुदा समागया रायचवाणंमि॥३६॥  
 नरवरकयसंमाणा दोहगं देवि “सेसमहिलाणं । सोहगं गहिऊ संजाया सा महादेवी ॥ ३७ ॥  
 चुंजइ इष्टियसुरकं संतुझा देइ इच्छियं दाणं । रुझा पुण सा जोसिं ताणं च विषिणगहं कुणइ ॥३८॥  
 अह अन्नदिणे पुझा तीए परिचाइया इमा देवी । वर्षे तुह संपन्ना मणोरहा इल्लिया जेडं ॥३९॥  
 चयचइ तं न डिजए तुह पयजताण जं न संचवईतहविहु चयचइ अज्ञवि हियं दोलायएं मञ्ज ॥  
 जह जीचइ मह जीवंतियाइ अह मरइ मह मरंतीए । जोजापि कौइनेहोमह उवरिनरवारिदससाह ॥४०॥  
 जइ एवं ता गिन्हसु नासं मह मूलियाए एयाएजेण तुमं गयजीवा दारकीयसि । जीवमाणाविा॥४१॥  
 चीयाइ मूलियाए नासं दाजण तुहं करिस्तामि । देहं पुणव्रं चिय मा चीयसु मञ्ज पासडा ॥४२॥  
 एवंति पजणिकणं गहिउं देवीए मूलियाचलयं । सा विच्छ समपितुणं संपत्ता निययताणंमि॥४३॥  
 अह सा नरवइपासेसुना गहिऊ उसही नासं । ता दिढा निखिढा नरवइणा विगयजीववाभ्यु ॥  
 एनो आकंदरउं जहलिउं क्षेत्रनि राइणो चवणे । देवी मथा मयत्तिय धाहावइ नरवइवोउ ॥ ४५ ॥  
 नरवइआएसेणं मिलिया बहुमंतविजकुसदा या तह विर्यं सा परिचत्ता मझनि दद्युण निखिढा॥४६॥

आएप्र.  
॥४५॥

१ अहियं । २ राजदेव । ३ करणि । ४ मरवइ । ५ देइ । ६ पवाइट द संपत्ता । ८ संपदइ  
 ए दोलायए । १० तो । ११ वकिङ्सि । १२ तह । १३ अकंदरउ । १४ कत्ति । १५ तेहिवि ।

॥४६॥

न गिरु मंतीहि निवो किंजौउ पयाइ अगिसक्करोत्तणिया ते नरवाइणा मझ विकिंजाउ सहैमा ॥

न गिरु मंतीहि निवो दोउ पराणइ नहु देव परिसं जुं त्रणइ सुउरंकं राउ नेहस्स नहु विमरगाउ ॥ १४॥  
चदाण विदग्गो दोउ पराणइ नहु देव परिसं जुं त्रणइ सुउरंकं राचा संचलिते पित्रशमासहि उप०

ता मा कुणह विदंबं कढह लडु चंदणिंयां पर्तेर । इय नाणिकाणं राचा संपतो केयगाणसि ॥ १५ ॥  
जा विरक्कण चिअंयं राचा आलहइ । पूरितो गयणयां लं संपतो परिवाइया तर्हिएप०  
जा विरक्कण चिअंयं राचा आलहइ । पित्रशमासहि उरेर । ता झराउ लं संपतो पित्रशमासहि य०  
जा जिरतुररवेणं रोवितरनारिपत्र निवहेण । चिरतो गयणयां लोअपचारकाएप्पा ॥  
जा चणितेर तीए तुमयं मा पर्व देव साहसं कुणसु । चिरतो गयणयां लोअपचारकाएप्पा ॥  
जा चणितेर तीए तुमयं माडु कायरो होसु । जीवावेमि अवसं तुह इङ्गां लोअपचारकाएप्पा ॥  
जां एवं ता विसहमु खणमेंगं माडु कायरो होसु । नहु जीवियस्स लावे जाह बाहे तीइ चक्काएप्पा ॥  
तं चयां सोऊणं ऊससियं तस्स राइणो चित्तं । नहु जीविया य संसयं नरवाइणो नीवियासाए ॥ १५॥

नर्मेवइ कुणसु पसायं जीवावसु मझ चब्बहु इङ्गां । तीए विडु देवीए । विद्वां संजीवणीनासो ॥ १५॥  
तस्स पचावेणं चिय सा देवी सयलबोपचारकं । उज्जीविया य संसयं नरवाइणो नीवियासाए ॥ १५॥  
तं जीवियंति नाउं आणंद जद्वृद्धोयणो लोउ । नवाइ उप्रियवाहो व जिरवहुतुर निवहेण ॥ १६ ॥  
संवंगानरणेहि पाए परिवाइआइपूर्ण । पराणइ अज्जो अज्जो जं मगसि तं पणसेमि ॥ १७ ॥

? कीरतु । २ सडकं । ३ दोजिवहुताउ । ४ कहुदु बहु चंदाण इमं पवरं । ५ पूरतो । ६ चियां । ७ चाणती ।  
८ पाए । ९ चाणिया । १० चावइ । ११ समाँ । १२ आणद । १३ ताहे  
परिवाइयं च पूर्ण ।

आष्टप्र.

चणिते तीए राया सुपुरिसं मह न ल्लि किपि करणिङ्कं । जिखकागहऐण आहं संतुळा नयरमङ्कं मिद०  
गयवरबंधारुं काऊण नियपियमां राया । संपत्तो नियजवेण आणंदमहसं झुणइ ॥ ६१ ॥

॥१२६॥

फलिहमयनियकिञ्चित्विद्विक्षा कंचणसोवाणथंत्रनिम्मविद्विया निवेण महियाअज्ञाइतुठेणदृ  
पवद्या सा नरवर मरिजणं अहड्डणे दोसेण । संजाया सुहसूई साहं पत्ता तुह सयासे ॥ ६२ ॥  
दहूणं देव तुमं तुहपास परिठिँय महादेवि । जायं जाईसरणं संनारिञ्च तुह मए चरिञ्च ॥६३॥  
सोजण तीइ वयणं रोवंतीं जणइ सा महादेवी । नयवइ कह मरिजणं संजाया पस्किणी तुमंयद५  
मा फूैस्ति किसोयरि इक्किंता अज्ञ मझ्य जंमेण । कंमवसं जीवो<sup>१३</sup> तं नविह जनपावेइ ॥६४॥  
तेण तुमं दिठंतो दिव्वो नरनाह महिलियाविसए । सोजण इं राया संतुळो सुहैंगं जणाई ॥६५॥  
संज्ञो दिठंतोहं दिव्वो तुम पैर्ह महिलियाविसए । ता तुठोहं पत्ताणसु जं इठं तं पणामेमि ॥ ६६ ॥  
पत्ताणइ सुई निसुणसु महइठो नाहं अत्तणो चत्ता । ता तस्स देसु जीयं नहु कज्जं किंपि अन्नेणाई ॥६७॥  
हसिजण जणइ देवी देव तुमं कुणसु मझ्यवयणे । एयाए पट्टदाणं चोयणदाणं च निचंपि<sup>२०</sup> ॥ ६८ ॥  
चणिया सा नरवइण वच्छु जदे जहिलियं गाणं । मुक्को य एस जत्ता तुठेण तुक्ष्य वयणेण ॥ ६९ ॥

१ मुपुरिस । २ तुप्पत्तरंभमि । ३ पिययमं । ४ अटप्पाण । ५ हं सूई । ६ सा संपत्ता । ७ पइचियं । ८ वज्जस्त्यं  
तुप्प चरियं च । ९ रोवंती । १० य तुमं । ११ युरेसु । १२ उरकंता । १३ जीवाणे । १४ तं नविं जं न संभवइ ।  
१५ सुझ्यं । १६ जणइ । १७ सञ्च । १८ इच्छ । १९ देव । २० तु.निचंपि ।  
॥१२६॥

आहूत

पूजा.

विवरं ने ॥ ३७ ॥

क्षणिते य साक्षिवादो पश्यां तंडुलाण्डाणं च । पद्मिक्षिहं दायवं गासिं काकुणा विवरं ने ॥ ३८ ॥  
 जं आणेवेऽदेवो इय लण्ठिए ज्ञाणाङ् कीरमिहुण्पिणस पसाउ मामिन इय नतणितं औनि उर्द्धांगः ।  
 पुहुते चूक्काउमे गंतूण् पुक्करोहका मृदि । निय नियक्किमि पमूर्या नियक्कं अंक्युतं अंक्युतं पार्गं ॥३९॥  
 अह तंमि चेव समये तीए सक्करीबि नियतीकुमि । तंमि डुम्मिमि पमूर्या संयुतं अंक्युतं पार्गं ॥४०॥  
 जा सा चूषिणि निमित्तं विषिगगया तं उम्मं पमत्तूण् । ता मठ्टेरेण पडमा आणाङ् तं अंक्युतं ताप्पुण् ॥  
 जा पवित्रान पिहुइ समागया तहु अन्तणो अंक्न । ता सक्फरिव विलोमूर्दि यम लियवं डुक्कमुन्तनाप्पुण् ॥  
 तं विवरंति दुपु पवायवेण तवियहियगापे । पढमाग नेकाणं पुणोवि तवेव तं मुक्के ॥ ४१ ॥  
 घरणियदे बुविकाणं अंवे आरह इ जाव नीकुमि ॥ ता पिच्छं तं दुन्है साक्किय अमयसितवा॥४२॥  
 वर्द्धन च तं निमित्तं कम्मं पडमाए इलाणविचारं । पवायावेण हृयं विरियं चिय जणणि जाणगहि ।  
 तं मिय अंक्युते संजाया सुद्धगा य सुच्चगोच्चा । कीदौति वाणनियुज समयं चिय मिहुण्ति॥४३॥  
 रङ्ग तंडुलक्कडे नरवद्वयणाउ साक्षिविवरं । चंकुपुडे गहिकाणं वज्चाङ् तं कीरमिहुण्ति॥४४॥  
 अह अद्वयाक्याई चारणसमणो समागर्ते नाशी । रिसह जियेसरकवणे चंदणेहेतु जिहिंद्रस्साहुड़ ॥

१ विवरं ॥ २ चालिकाणं एवमुहुण् । ३ चेवडमे । ४ नियवंति । ५ अंडगडुणि । ६ सवकी ।  
 ७ साक्षिवादो । ८ चालिकाणं एवमुहुण् । ९ ताविचा हियए । १० पुणोवि आरहड जाव नियवंति । ११ अंदे ।  
 १२ जणएण ।

अकृत  
पूजा.

पुनरननारिनीरिदो देवं पुण्पकपहि पूएउं । पुड्हइ नमिकण मुणि अरकयपूचाफदं राया ॥ द्य ॥  
 अखंकुमियचोरकफएहि पुंजतर्यं जिणंदस्स । पुरउं नरा कुण्ठो पावंति अखंकियमुहाद्धात्प ॥  
 इय युरुवयां सोउं अरकयपूचा समुर्वेदं लोउं ॥ इहुणं सा सुई पत्रणइ नियमत्तणो कंतं ॥उद्द ॥  
 अलिवि<sup>८</sup> नाह पंवं अरकयपुंजत्तएण जिणनाहं । पूएमो अचिरेण सिन्हिसुहं जेण पावेमो<sup>९</sup> उ ॥  
 पावंतीण चणिकाणं चंचुपुडे खिविर्य चोरकरकपहिंरङ्गं जिणिदपुरउं पुंजतिअं कीरमिहुणेण॥उ ॥  
 नणिअं अवच्छजुअदं जणणीजणएहि जिणवारिदस्स । पुरउं मुंचह अरके पावह जेणएकयं सुरकं उ ॥  
 इय पड्हियहं काऊं अरकयपूचं जिणंदनतीए । आयुरुक्षयं गयाई चत्तौरिवि देववोगंमि ॥एण ॥  
 उहुण देवसुरकं सो सुअञ्जीवो पुणेवि चविकुणं । संजाउ हेमपुरे राया हेमपहो नाम ॥ ए२ ॥  
 सो विय सूर्द्धीवो तक्तो चविकुण देववोगाउ । हेमपहस्स चाज्ञा जाया जयसुंदरी नामाएश ॥  
 सा पत्तिमावि सूर्द्धी संसारे हिकिजण सा जायै । हेमपहस्स रत्नो रङ्गनामा चारिया दुड्ह्या ॥ ए३ ॥  
 अद्वाउवि कमणं पंचसया जोवं चारिया तस्स । जायाउ पुण इठा पढ्हमा ते चारिया दोवि ॥एवा ॥  
 ( संजाया पुण इठा पढ्हमाउ चारिया दुड्हि ) इति पावांतरं  
 अह अद्वया नारंदो दूसह जर ताव ताविय सरिरोचंदणजलुविजेहुलोबह त्रूमीप अप्पाण ल्प ॥  
 ? अह अक्षया नरिदो । २ इ उक्तुयं । ३ जर्चीइ निच । ४ अहोवि । ५ एवं । ६ अवरेण । ७ पावेमि ।  
 ८ चविच । ९ पचदियह । १० आउरकएण । ११ चत्तारितु । १२ चत्तारितु । १३ संजाया । १४ चीया । १५ चेव ।

गच्छ असत्तण विहृणो चिठ्ठ जा तिक्षि सन्तान् गया । ता मंतव्यं तकुमवा विक्रावि परं मुद्दा जायगा ॥१०॥  
 गच्छ असत्तण विहृणो पूर्वाँ द्वय आराह्माते य ॥११॥  
 उग्यो सिप्पइ सत्ती विक्कंति य वहु विद्वां द्वाणां । जिणनवो गुप्त विहृणो कहाँ महै निहाणउ  
 त्तु गो ॥  
 रथणीय पविमेल पवर्दी होकण रखकसो नणाथाकिं मुत्तोमि नरमसर ताणइ निरो कहाँ महै निहाणउ  
 लेखार्णं करेत्तु आप्यां जट नारिं चुहै चक्का परिक्कवड अगिकुंडे तो जीवं अव्रहा नत्रि ॥ १२॥  
 इत्य चणिकण नरिं विषिणगते गलकसो नियगतांगांशाया विक्षिय विहृणु नितदृक्किं इदं जातु निः? ॥  
 किं वा चुक्कतेण अज्ञ मां किं गप्स मुविणांगो दिठो अहृवा न होइ मुविणांगो यज्ञाको गस्तु गस्तु ॥  
 इत्तो वियप्रसहि या चोद्वीणा जामिणी नारिं द्वसा उद्यपाचवलभिम चंकितृ मूर्गो विहृणु कम्बिर्णा नाहार् ॥  
 तेण विभिन्नित्तमै तेण विभिन्नित्तमै किक्कातु देव इमं जीयक जांमि ॥ ३ ॥  
 रथणीपां तुन्तो नरवडणा साहि हेमुमंतिसम्मै । तेण विभिन्नित्तमै किक्कातु देव त्रणितृ गडणा मंतीधि  
 परं त्रिपाणं नियजीय रखकणं नहु कुण्णनि सन्पुरिसा । ता होउ मद्य विहृयं द्वय त्रणितृ गडणा मंतीधि  
 सहाविकण सवाउं मंतिणा नरवयस्मै रक्काते । कहितृ रखकसतरणितृ तुन्तो ताण नीसम्मौ ॥ ५ ॥  
 सोकुण मंतिवयणं सवाउं नियजियस्मै दोहैँ । गाँठं अहो मुहै ते न दिंति मंतिसू पकिक्याणां ॥६॥  
 परुद्वृत्त वयण कमला उठेतूं तणइ गई महादेवी । महेजीविण देवो<sup>१</sup> जड़ जीवइ किं न पड्जातं ॥७॥  
 ? उग्यो मिक्काइसंती । २ मंपूया । ३ मे । ४ उत्तारण । ५ नियगण । ६ इदं जातिमिण । ७ मुमिणगो । ८ मु  
 मिणो । ९ उदयाचवंभि चलितृ । १० संमतिसू । ११ निस्सा । १२ नरवडस्म । १३ नीस्सा । १४ जीविचस्म ।  
 १५ दोन्नेण । १६ सा । १७ ददतृ ।

आदत  
पूजा.

इय नाणिएँ सो मंती जवणगवरकस्त हिठ चूमीए । कारा विक्रण कुरं आरोहइ अगरकेठोहि ॥ ८ ॥  
साविय कयसिंगारा नमिजणं चणइ अन्तणो कंतं । सामिय महजीबेण जीवसु निवदामि कुरंमिाणा ॥  
चणइ सदुरुं राया मञ्चकए देवि चयसु मा जीयं । अणह वियवं च माय सयमेव उराकयं कम्मं ॥१॥  
पचणइ चवाण विलग्गा सामिय माजणसुए रिसं वयणोंज जाइ तुल्ल कज्जे तं संहवं जीवियं मञ्च ॥२॥  
उञ्चारणं करेउ अप्पाणं सा बदावि नरवडणो । जवणगवरके गाउं जलिए कुरंमि परिकवइ ॥ २१ ॥  
अह सो रकसनाहो तीसे सतेण तोसिउ सहसा । अपपत्तं विय कुडे हुयास फूरं समुरिकवइ ॥२३॥  
चणिया रकसवडण तुठोह अङ्गु तुल्ल सतेण । मगणसु जं हियश्टं देमि वरं तुञ्च किं बहुणा ॥४॥  
जणणिजणएहि दिज्जो हेमपहो महवरो किमन्नेण । मगणसु तहविहु जाहे देवाण न ढंसणं विहवं ॥५॥  
जद् एवं ता एसो महजन्ता देव तुह पसाएण । जीवज वाहिविहिणो चिरकालं होउ एस वरो ॥२६॥  
एवंति पजणिजणं दिवादंकारञ्जुसियं काउं । कंचणपउमे मुँहु देवो अदंसणहुउ ॥ २७ ॥  
जीव तुमं याणइ जणो सीसे पुफरकये खिवेऊण । नियजीवियदाणेणं जीए जीवाविउ जन्ता ॥१॥  
तुठो तुह सतेणं चरसु वरं जंपिए पियं तुल्ल । चणिया पश्चण पश्चण देव वरो मह तुमं चेव ॥२८॥  
जीवियमुद्देण तए चसीकहुहं सयावि कमलाहि । ता अनं करणीयं चणसु तुमं जणइ सा हसिंज ॥२९॥  
जद् एवं ता चिठ्ठउ एस वरो सामि तुह सयासम्म । अवसरवकियं एयं पछिसं तुह सयासंझाउ ॥१॥  
१ नाणिउ । २ आजरइ दारकेहि । ३ पुणाए । ४ जायइ । ५ सुखहाविः पमो चुटसगासंमिएप जिसं १० सगासाउ ।

आएग्र.

॥२८॥

॥२८॥



अष्टप्र.

किं हससि तुमं सामिय हसियाहं निघेण देवेण कि कङ्ग्यावि सुवद्वाह वंशा पुतं च पस्वेऽ ३५॥  
 पञ्चण्ड पह स्थित्यरणो जइ मह वयषेण नैडि सहहण्ठा पित्रेहि सम्बित्य नियुतं रथएरासि चै३६  
 इय संसयहियाए परमं साहित्यसा लणिया । नियुतविरहियाणं अमहाणं पस्तुतोति१३॥  
 पन्दिवज्जिकणं एयं नीउ नयरंभि सोय पइ दियहं । परिवह्नै कलाहिं स्थियपरकर्गते भियंकुव ॥१३॥  
 साविय रई मयवादं सीसोवरि नामिकण देवीए । अफावै॒ तं पुरजे वंच सिदायदे तुठा ॥१३॥  
 गंतण तर्ज जवणे संपुत्रमणोरहा सुहं वसइ । जेय सुंदरीवि दियहा सुय विरहे डुकिया गमझ ॥१४॥  
 कयविक्काहरनामो मयणकुमारन्ति गहियवरविज्जो । वचंतो गयणयदे पित्रइ तं अतणो जणाणिभ?  
 नवणगवरकारुडा सुयसोयप्ररंतनयणसलिबोहा । अइ नेह निप्रेरण उकित्ता मयणकुमरेण ॥१५॥  
 तं दहूण कुमारं हरिसंवसर्कं च नयणसलिबेन । मिंचंती य अवलोयइ पुणो निळदिटीप ॥१५॥  
 उप्रियवाहो लोउ धाहावइै॒ मझंभि । एसा हरिक्कै॑ घरिणी नरवइणो उचाकंठेरण ॥ १६॥  
 अइ सूरोविहु राया पयचारी कि करेइ गयै॒ । छुक्कै॑ किं कुणइ फले तरसिहरपयहिए दिंट १४५  
 चिंतइ मर्णमि राया डुर्कं खयखारसंनिहं जायं । एंग सुञ्चस्स मरणं चीअं पुण चारियाहरणं १५॥

१ पस्तुपइ । २ वयणे न अहि । ३ सहियंचिय । ४ रथएरासि॒ । ५ पुत्ति॑ । ६ एवं । ७ कदाहिय । ८ सिय-  
 परकार्गते । ९ सावि॒ । १० अफावै॒ । ११ जयसुंदरी॒ । १२ हरिस समुद्वासि दोयणजदेण । १३ पुरवरी॒ ।  
 १४ गहिक्कै॑ । १५ गयणयदे । १६ लक्कडे । १७ इके॑ ।

॥१३॥

१ नामं २ पितृम् ३ देवरूपां ४ अहन्यं ५ हस्तिरूपां ६ मुकुटिरूपा ७ शत्रुघ्निः ८ मुखितरूपा ।

गांवं उक्तिक्यहियर्दचिछइ गाया नियमित्यरं मित्राहवचा वरिष्ठीहराणे वरण कसस न जायए डुर्संका ॥  
अनहितिसपाण नाउं पुन्तं सूद्धाइदेवीपा । महताया नियजाएरा । वरिष्ठीबुद्धीपा अवहरण॥१८४॥  
नियपुरपञ्चासल्ले सरवरपालीइ चूयतायापा । जणणीसहिते कुमरो जा चिठ्ठ ताव सा देवी ॥१८५॥  
वानरक्षं तद् वानरीण कारकण चूयताहाण । पतणाइ वानररुक्ती कामय तिझं झमं नज्जो ॥ २५० ॥  
तिरिड्वि गाड़ पकिउ तिडपतावेण लहड़ मणुआतं । मणुईविहु देवतं पावडन विहु संदेहो ॥१८६॥  
ता पेवमुं दोक्षिषि माणुत्ताइ पञ्चलक्ष्मेवर्ष्याई । ग्रामाइ मणे काउं निवरामो छव तिर्वंभि ॥ २५७ ॥  
जेण तुमं माणुसिआ औहं पुण गरिसो मणुसुनि । होहामिति परणित्यं को नामं जिन्हइ इमसस  
जो निञ्जाणाणिपिहुं वरिष्ठीबुद्धीइ नेइ हरिजाणांतसविपावस्तुमं सामियलवमिमश्विद्वासो  
रोक्तण वानरीण तं व्रयाणं दोवि विक्षित्यमणाइ । चिंतति कहं गसा महजणणी । सा वि कह युतोप्प  
तेवेणां हरिपविहुं गामा मह जणाइ जणाणिबुद्धीनि । सा विय चिंतेइ यसो महपुतो उत्तरजाऊन्ति १८५  
युठइ संसप्तयहिते कुमरो तं वानरि पयतेण । चहे कि सज्जामिणे जे तुमण चासिय वयर्ण ॥ २५९ ॥  
तीण नरणियं सच्चं जड़ अक्कवि तुझ अविं संदेहो । ता पर्यमि नियुंजि पुठसु वरनाणिणं साहुं॥१८७॥  
इयताणिकाणं महपुरामा वानरउत्त्रप्रलं अहंसपणीहुओ । सो विय विहियहियर्दु पुठइ तं मुखिन्तरं गंतुप्प  
वयवं किं नं सच्चं जं वरणियं वानरीण । महपुरामामुषिकाइणीविहु वरणिते सच्चं तं होइ नहु अवलिख्यं ६०

आष्टप्र.

निचं चिदामि रिउ कम्मरुक्यकाराणमि झाँयंतो। हेमपुरे सविसें साहिस्सइ केवदी तुश्शा॥१६॥

इयन णिउत्तनमिउसहिउजणणीएसोगउरेहाजणणिजणएहिएहिसोविमाणी  
एगंते उविऊण चलणवलगेण पुछिया जणणी। अम्मो साहिउँ कुरुं कह जणणी। मझ को जणउद्दृ  
चित्तइ सा सविइका कि एसो आजु पुड्य एयं। पत्तणइ पुत्तय अहय तुह जणणी। एस जणउत्ति १६॥

सचं अम्मो एयं तह विहु पाँमि जम्मदायैरे। तं परमबं तुत्तय तुह जणणइ एस जणउत्ति १६॥

तेणवि परितुठेण कहिउं परदलाइ वड्यरो तस्स। तह पुण जणउ पुत्तय विन्नाउत्ते कोवि नहो संमर्म दद्ध  
नणिउ कुमरेण पुणो एसा जाँ ताय आणिया नारीसा वानरीए सिठा एसा तुह जम्मजणणित्तिद्धु  
मुणिणा विड्युठेण एयं चिय साहिउण लैणिउहं हेमपुरे गंतुणं पुब्लु तं केवलि एयं ॥ १६॥

तोऽ ताय तब गंतुं पुब्लु मो केवलि निरवसेसं। जेणसो संदेहो तुड्य मह जुवतंतुब ॥ १६॥

इय जणिऊण कुमरो चलिउत्ते सह नियवजणणिजणएहि। संपत्तो हेमपुरे केवलिणे पायमूदंमि १०

( इय चलिऊण चलिउत्ते सह जणणिजणयवोएहिं ) इति पाठांतरं  
न चित्तरनिप्ररंगो केवलिणो पायपंकयं नमिउ। उव विठो धरणियवे सपरियणो सुरकुमारव ॥२७॥

जयसुंदरीवि देवी वहुनारिसहस्र मञ्चयारम्मि। नियपुत्तेण समेया निसुणइ गुरुत्तास्तियंवयाणंश्व॥

१ प्राणमि । २ चित्तेहि । ३ विमणो । ४ विवरणे । ५ साहेषु । ६ का । ७ सवियपा । ८ एवं । ९ पुञ्चमि ।  
१० कारणं किं तु । ११ विनाउ किंचिनहुसमं । १२ ता । १३ मह । १४ सविसेसं । १५ ता । १६ तो कुमारेय ।

॥१६॥

अद्वृत  
पूजा.

द्वैमपन्तोचिरं राया नियपुरनरनारिद्वोयपरिचरित्वाउत्तविद्वो गुरुमूले निसुण्डगुरुत्वासियं व्रयण् १४३  
 पत्रावं लाहिङ्गणं नरनाहो ज्ञणइ केवदिं नमितं । जयवं सा महाराजा जयसुंदिरि केण अवहरिया  
 चणिठे सो कवविणो हरिया नरनाह नियय पुतेण । विम्हयहियैर्भै पञ्चणइकरथवं कह तीए पुतुन्ति  
 जो आसि तीए पुतो सो वालो चेव द्वयं कर्यतेण । कवदीकर्तु महायस वीठे उत्तोवि से॑ नड्बि ॥१५६॥  
 अतियं न तुहुववयणं वीठे पुत्तोवि तीयसे नहि । इय विह निय कर्कंपिव संतावं संसठे कुणइ ॥१५७॥  
 ज्ञणइमुणिंदो नरवर सचं मा कुणसु संसयं पर्है । नयवं कहसु कहंचिय आडगरक्षं कोउचं मद्धरूण  
 कुदेवव पूयए द्वैनंतो ताव तस्स परिकहिते । जा वेयहु पुराउ समागर्ते तंभि उज्जाणे ॥१५८॥  
 विपक्षं विय नयणउठे जोयइ नरवइ तमुङ्गाण । तो विह नियसंदेहो कुमरोविहु नमद् तं जणये १५९  
 आदिंगिकण पुत्तं अंगुजबलवरियदोयणो राया । रोयंतो वहुडरक उकेणय वोहिते गुरुणा ॥१५१॥  
 ( गोयंतोविहु उरुं उरुकेण वीकोहिते गुरुणा ) इति पाठांतरं.  
 जयसुंदिविपद्धाणे चदाणे गहिकण तीए तेह रुद्धं । जह देवाणवि परिसा वहुडरकसमाभाजाया  
 ( जह देवाणवि उरुं परिसामप्ये समावरं ) इति पाठांतरं.  
 पुठो य रुयंतीमि॒ जयवं मद् केण कहमणा एसो । जाउे पुत्तविठो सोलस वरिसाण॑ अडडुसहो १७३  
 ? दंपपहाव । २ जिअदंभियं थममं । ३ तलएण । ४ विम्यहियैर्भै । ५ हरत । ६ पुतुन्ति । ७ तं । ८ पुतुन्ति ।  
 ९ नड्मो । १० इह । ११ कुदेवव उत्तोतो । सदोविहु ॥२ विचारिया ॥३ तमुकाणो ॥४ तो । १५ गुरुतीए । १६ वरिसाणि ।

अकृत  
पूजा.

सोलास मुहुर्तगाँड़ सूखरवे जं सूई ठुहे गविया । अंदू हरिकृष्ण तए सुअचिरहो तेण ठुह जाठे ॥८॥  
जो दुर्कं व सुहं वा निलतुसमितं पि दै अव्रस्स । सो बीचं व सुखिते परबोए बहुफलं लहए ॥९॥  
सोउ गुरणोवयणं गुल पठायाव ता विष्मणाए । जम्भतर ठुचारियं खमा विया सा राइ तीए ॥ १०॥  
तीएवि उठिकृष्ण चणिया जयसुंदरीवि नमिऊणं खमसु तुमंपि महासइ जं जणियं तुश्श सुयुदुर्कं  
नणिया गुरुणा ठुक्क विं बर्नु मध्यरेण गुरुकम्मं । तं अर्जका खामणाए ख्यवियं तुम्हेहिं नीसेसां ॥११॥  
नणइ नार्दो नयवं अव्रतरवे किं कयं मए कम्मं । जेण सह सुंदरीए कुमरेण य पावियं रक्कं ॥ १२॥  
जर्हं सुगंजमंमि तए जिणपुरठे अरकए खिविकृणं । संपतं देवतं रक्कं तहं साहियं गुरुणा ॥१३॥  
जं जंमंतरविहियं अरकयपुंजतयं जिणिदस्स । तस्स फलं ठुह अक्कावि तझ्यतरवे सासयं गाणं ॥१४॥  
इय जणिए सो राया रक्कं दाऊण रथ्यपुत्तर्स्स । जयसुंदरिकुमरजुउ पवईठे गुरुसमीवंभि ॥ १५॥  
पवक्कं पालेउं सहिउ ठइश्चाए तहय एतेण । मरिकृण समुपन्नो सत्तमकपंभि सुरनाहो ॥ १६॥  
ततो चुउ समाणो दाळूण सु माणुसनाणं परमं । पाविहिसि कर्ममुको अरकयसुरकं गर्हे मुरकं ॥१७॥  
जह राया तह जाया कुमरो देवताणंभि जो देवी । चत्तारिवि पत्ताइ अरकयसुरकंभि मुरकंभि ॥ १८॥

( पूजाएक तृतीयकथानकं )

इति अकृतदेवपूजायां कथानकं समाप्तम् ।

॥१२॥

१ होइ । ५ डुलिवि । ३ चा । ४ खमियं । ५ आह । ६ अरकयेहि गविकण । ७ पुणरकं । ८ रईइ गुत्तस्स ।  
९ गुरु सत्यांभि । १० दद्याइ । ११ पुत्तेहि । १२ सासयपुरकं । १३ सा । १४ सासय गुरकत्ति गुरकत्ति ।

अपृष्ठ.  
॥१२॥

॥ ४ ॥ कुकुमपूजाविषे कथा ॥

गुज्जैऽ जो जिणन्हैं तिक्रिवि संझाउ पचकुसुमेहैं । सो पाचइ सुरसुरकं कमेण मुरकं सथा सुरकं ॥  
जहै उत्तमकुसुमेहैं पूर्वं काऊण वीयरागस्तु । संपत्ता वणियसुआ सुरवरसुरकं च मुरकं च ॥ २ ॥

अतिविल जहैनांसे उत्तरमहुराउरिइ सुपसिद्धे उत्तरमहुराउरिइ सुपसिद्धे । रायाविय सुपसिद्धे उत्तरमहुराउरिइ सुपसिद्धे ।

तवय थण्ठै नामो सिद्धी परिवसइ संपत्ता कवितुर । चक्रासे सिरिमादा धूआ दीदावह नाम ॥ ४ ॥

अथियध्य तरहवासे उत्तरमहुराउरिय जयसिद्धि । चक्रासे सिरिमादा धूआ दीदावह नाम ॥ ३ ॥  
चाथा तीड़ि कणिठो मणिझो गुणधरुन्ति नामेण । उत्त्रविसहोयराइ विचूसाणं सिद्धिगेहस्त ॥ ४ ॥  
सा अत्त्रविया कगाइ दाहिणमहुराइ सिद्धितष्टेषण । मथरकूय युत्तेण परिधीया निष्ठाहृतेण ॥ ५ ॥  
संचलिया समुरगिहं सहिया निष्पद्ववीइ दासीए । पश्परियपरियरिया संपत्ता जातुणो नेहं ॥ ६ ॥  
जा चिठ्ठै समुरगिहे ता पित्तै सा कगाइ जिणविं । वरमालाइ मालाए समजियं नियसवकीस्ताण ॥  
अद्गुरुय मत्तरार्म अणाइ मित्तनमोहियमणाए । जणिया दीदावहइ कुवियाए अत्तणो दासी ॥ ७ ॥  
घिन्ताण इसं मालं चौहिं नेकण शिवसु वार्नीए । नक्खंति लोयणाइ मह मालं पित्तमाणीए ॥ ८ ॥  
ताइ वयणाउ दासी पुरहे जा जाइ जिणवारिहस्त । ता पित्तै नयनीया तं मालं संपहवेण ॥ ९ ॥  
? प्रयाइ । २ वरसुकं । ३ वीयरागाण । ४ उक्काणगाण । ५ विनेण । ६ धाईइ वीय । ७ जत्तणो । ८ अउरु ।

९ मवनीग । १० मञ्जराइ । ११ चाहे । १२ मरपरुपर्ण ।



निसुणोहै निसुणे हैं<sup>१</sup> वरणं ॥३३॥

सोकण इमं चयनं पवणाह प्रतलदं त्वं कंपती । पत्रणाऽद्वीवानेहि यज्ञवं निसुणोहै निसुणे हैं<sup>२</sup> वरणं ॥३४॥

जद् एवं ता चयवं पत्राऽ आणुठिये मणं पांचं । मावाए बुतंतो नीसेसो साहिते तस्म ॥३५॥

तद्वं चयवं पावविसोही होही कह कहसु मञ्च पावाएन लिष्णपूर्या तिविसंख्यार्थेद ॥

तिष्णमां य पत्रापावानेण ताविसरिगा । यामाइ चवलण विवरणा पुणो पुणो चाचमुन्हीए ॥३६॥

तद्वं जिष्णमां य पत्रा पत्रायावेण ताविसरिगा । निम्मवस्मतज्या संज्ञाया साविया परमाश्ट

तह जिष्णमां य पक्षिकूला सहजणेण अह दीर्घा । जाव न पावढ दुरकं ताव न धर्ममंभि उक्तमाश्ट

गांवं मुषिवयणार्दे पक्षिकूला सहजणेण अह दीर्घा । जाव न यावढ तीड रोहाठे ॥३७॥

जाव न अत्रविणासो जाव न जावस्स चंथविवित्तेमो । संपत्तसाहुकारा विष्णुग्राया तीड रोहाठे ॥३८॥

गांवं विवोहिकां मुषिणो सम्माणदाणकयपूर्या । संपत्तसाहुकारा विष्णुग्राया तीड रोहाठे ॥३९॥

लांवावद्वितीत्तो तिक्किवि संझौसु पवरककुमुदेह । पुक्काऽजिष्णवरचन्दं पद्वियहं परमेचतीए ॥३१॥

अह उक्तिविग्निहिया वहुविग्निविताउ जणणिजणणाणिजणणाण ॥३२॥

वही इव सहसाए गेहंभि समागयाइ दीर्घा । साहसु तुमं सहेयरि जिष्णवरपूर्याफलं मङ्ग ॥३४॥

कुवंती जिष्णपूर्यं पुठा इत्वं नावणा सिष्णेहेण । सुरचक्कसररिद्वी पुणोविसिद्धीसुहसमिक्ती ॥३५॥

तरणिते मुण्णु सहेयर जिष्णवरपूर्या आइ पावए जीवो । चतीड संतीए ॥३६॥

द्वह दोगाविन पहवढ उवसरगो सहुदुरसंजपिठे । जो जिष्णवरस्स पूर्यं करेइ वीदावडवि ।

१. नीया पत्रणाइ दीर्घा । २. मह । ३. पवाएण्णिये । ४. एवं । ५. निषुक्षिवि । ६. अवस ।

७. दीर्घा पत्रणाइ दीर्घा । ८. इत्तो । ९. सग्राह । १०. पवर । ११. पवर । १२. पुषिवृत्त । १३. तस्म । १४. कुण्ण सया तिजिसंग्राह ।

अप्त्र-

॥५३॥

कुसुम  
पूजा।

जइ एवं ता मङ्गवि एसोविर्ये जावजीव नियमुनि । कायबा जिणपूया निचं चिय तिक्कि संझाउे ३७  
चणिउधन्नोसि तुमं जस्त मई तुक्ष परिसाँ जाया । नहु जिणपूयाइ मई संजायाइ मंडपुद्दस्त॥३८॥  
एवं ठुन्हंपि स्थय जिणवरचरणचार्णमि निरयाण् । बच्चंति ताण दियहा आखं कियनियञ्च नियमाण् ॥  
मरणेवि स नियमेण जिणवरचलणचार्णमि निरयाण । मरिक्काण जायाइ डुक्किवि सोहम्मकपंमिर्मा  
चुंजंति तब डुक्किवि निचं हियइ हियाइ सुरकाइ । उवसमजिणवरपूयाधम्माणुनावेण ॥४१॥  
अह इतो पउमपुरे पउमरहो नाम नरवइ वसइ । पउमा नामेण पिया पाणपिया तस्स नरवइणो भर  
सोविय सगाउ चुर्ते गुणहरजीवि तस्स नरवइणो । जाउे जयकुमरो पचरंक सुरकुमारव ॥४२॥  
गहियकलागमकुसदो ऊवण्डायद्वाकंतिपनियुवो । जाउे सो जयकुमरो पचरंक सुरकुमारव ॥४३॥  
एतो<sup>१</sup> सुरपुनयेर राया सुरविक्कमुनिनामेण । जड्का से सिरिमाला सिरिव सा बह्वहा तस्स॥४४॥  
लिलावइ चविक्काण सिरिमालाकु छिसंचवा जाया । विण्यसिरी नामेण सुरविक्कमराइणो धूया ॥४५॥  
जा सोहग्गुणेण हरिहरघरणिव हरइ हियथाइ । निस्संगाण मुणीणर्य किं पुण सेसाण पाणीणर्य  
अह अन्नदिणे जाणणी उचियं नारुण पाणिगहणस्स पेसेइ नियधूयं नरवइणो पायमूदंमिर्माइण ॥  
अहाणंमिरियस्सर्य पिउणो स्तो पणमिक्कण पयकमदं । उवविठा उड्ङ्गे पिउणा पुण चुंचिया सीसे  
दद्घाणं तं कुमरि<sup>२</sup> चिताजलाहिमि निवकिउ राया । कस्सेसा दायबा उचिर्यवरो नेवै दीसइ इमीए ॥४६॥

<sup>१</sup> एसच्छिय । <sup>२</sup> एरिसी । ३ जोचण । ४ पचरको । ५ इत्तो । ६ मुणीणवि । ७ संक्षियसत्त । ८ नियपित्रणो ।  
ए सीसे परित्युविया पिउणा । २० कुमारि । ११ उचिज्जेवि । १२ न ।

नणिगा मा नियपित्तिणा द्विठं परिकवसु गायपुत्रेषु । साहू जे मण्डनं चरेमि तं तुङ्ग कड्डेण॥५२॥  
 निविक्तिणा तेषु द्विठं पुणोवि गयाई कन्ति संचरिया । जं नयणाण न रुचाई तं किं हियप्रसस पक्षिहाई  
 नीतेष्टरायरुचं ३ पक्षिलिहिउं तीई न्सेई ॥ ५३ ॥  
 नेषु विक्तिण नितं धुआण जालिक्तण नमनाहो । नीतेष्टरायरुचं ३ पक्षिलिहिउं तीई शिई कृणश्चिप्त्र॥  
 नेषु विक्तिण द्विठं पुणो द्विठी नहु रमड् रायकंतां । कंभिवि कम्मवसेणं द्विठे द्विठी शिई कृणश्चिप्त्र॥  
 नेषु विक्तिण द्विठं पुणो द्विठी नहु रमड् रायकंतां । कंभिवि कम्मवसेणं द्विठे द्विठी शिई कृणश्चिप्त्र॥  
 नितड् उक्तिक्वहिउं तीई निया नाई छ नवाणि जोय्याण । हरिसुद्दन्नियेषुवद्याण । पदोइयं निर्देहिउं गिप्त  
 नेषु विक्तिण द्विठं पडाई विहिक्तण इस्तिं तीए । हरिसुद्दन्नियेषुवद्याण । पदोइयं निर्देहिउं गिप्त  
 नयकृष्णप्रसविक्ति रुचं पडाई विहिक्तण इस्तिं पडाई । अहवा हंसी हंसं मुन्तण न चायसं महाइपु ॥  
 मुणिया भा नरवडाणा जहू जयकृमरंभि साणुराउत्ति । येसेई य पउमरुरे पासे स्तिरि पउमरायसस इपु ॥  
 कवादावाणनिमिनं गाया महाविक्तिण नियमंति । येसेई य नयराउठे ८ समागरउ तुहैपासं मि ॥५४॥  
 गंतां पउमरुरे पउमरुरे पउमरुरे १ पामिक्तण सो जाणड । सुरापुर नयराउठे जयकृमारसेन  
 गंतां पउमरुरे पउमरुरे पउमरुरे १ पामिक्तण सो जाणड । विणग्निमिनी जयकृमारसेन  
 गुरविक्कमनरवडाणो १ परताई महू अति मुंदुरा धुग्नासा तुहुसुयससद्विक्ता । नेषु अत्तणो लाठि ६२  
 मंतियणाउतंलवि पक्षिक्तिया तम्मन गाडाणो धुग्ना । अहवा घरमावंति १ को नेषु अत्तणो लाठि ६२  
 कहिउं कवादावाणो १ नरवडाणा तम्मन जगकृमारसस । कुमरो विहु परितुरो रिक्तीवाज्ञेण अयथण्वै ॥  
 मरम्मागिक्तण मरम्मं तिमज्जिउं जोवि राडाणा मंती । सोविय विचाह द्विवसं कहिउण समागरउ नवरं  
 १ युवानिय । २ निहु । ३ गंग मायणाम्मन्ने । ४ पहित्विहिउं । ५ रायघुयाए । ६ तुवरंलवि । ७ रुचाई । ८ पहिप  
 ९ गंग । १० नाननि । ११ गंग रायणाम्मन्ने । १२ अहं । १३ तुप । १४ मुरविक्कमो नरादिव । १५ विजयकृम  
 १६ युवानिय । १७ निहु । १८ माणगरन्नि । १९ अहं । २० नवरि । २१ अहणुण । २२ रिक्तीवाज्ञेण । २३ तम्मन  
 २४ गंगामंति । २५ रायावाहो । २६ रिक्तीवाज्ञेण । २७ तम्मन

कुसुम  
पूजा.

१५

सोहणदिणंमि कुमरो जण्याएसेण परियणसेण संचलिते य कमेण संपत्तो उरपुरे नयरे ॥ ६४ ॥

सुरविक्षमनरवश्चणा पथक्रिय गुरु गउरवेण परमेण । संभाणिकण कुमरो पवेसिते विमल विहवेणद्यै  
पाणिगहण मुहुते<sup>२</sup> संपत्ते चूरिमंगदारवेण । वित्तं पाणिगहणं कुमरीए सह कुमारेण ॥ ६५ ॥

गमिकणं कइवि दिणे गुरुर्य पमोएण समुरगेहंमि । पुणरविक्यसंमाणो संच लिते निययनयरंमिद्द  
विण्यसिरीए सहिते कुमरो जा जाइ रक्तमञ्चंमि । ता पिछइआयरियं सुरमहियं साहुपरियरियं ॥

निम्मलविष्यवड्घरं निम्मलविष्यदंतकंतिपंतिल्लै । निम्मलवचउनाणजुयं निम्मलवनाणं च नामेण्डर  
नाणिते विण्यसिरीए सामिय दीमाई मुणीसरो<sup>३</sup> एस । ता गंतूण एयं वंदामो परमनतीए ॥ ६६ ॥

एवंति पञ्चणिकणं कुमरोसो नियपरियणसमेते । गंतूण मुणिचारिंदं वंदइ विणएण परमेण ॥ ६७ ॥

दाऊण धम्मलाले उत्तरसंसारसायरतरणं । नाणिते सौ मुणिचारिणा जयकुमर सुसाँगयं तुश्चा ॥ ६८ ॥

विण्यसिरी विचाणिया गाहे तुह होउधम्मसंपत्ती इयचणिएसापणमङ्गुणो विपयपकयं मुणिणो<sup>४</sup>  
चिंतन्ति<sup>५</sup> दोवि वियए नयवं कह मुणइअहनामाइ । अहवा इड न चित्तं नाणधरा मुणिचराहुंति  
थम्मं जिणपद्धतं सोऊणं मुणिचारिदवयणाउ । पुछइ नियपुवजावं नमिकणं मुणिचरं कुमरो ॥ ६९ ॥

नयवं किं पुवजवे चहुपुत्रं<sup>६</sup> अजियं मए विमदं । जेण हियस्स इठं पतं रक्कं कलवतं च ॥ ७० ॥

नाणिते तुमं महायस वणियसुते आसि पुवजम्मंमि जिठाय तुझ्य इठा चाइणी लीदावईनामाउद्दा ॥

२ विहवेण । ३ निमित्तं । ३ धतिकंतिल्लै । ४ धंसेइ । ५ मुणिचरो । ६ इठ । ७ सुसंगयं । ८ विय । ९ होइ ।  
१० गुरुणो । ११ चिंतिति । १२ चोक्ते । १३ सुहपुत्रं ।

इद्युणं पूञ्चंती तिन्निवि संझाउ जिणवरं जर्ता॑ । हुञ्जवि जाया सक्का पवनी॒ तीइ हुमयंपि ॥४॥  
 जिणपूञ्चेण सुरदोण चुञ्जिण सुरकाइ । ततो चुएण उमए संपन्त एरिसं रज्जा॑ ॥ ५ ॥  
 पुणरवि मुरनरसुरं कठनय जमंतराइ चुत्तण॑ । पा विहि सिकिसुरं क्षिणवरपूञ्चाणुजावेणपै  
 पुञ्चइ हरसिवैहियउ नवरं पूञ्चाणुजावउ चाइ । कवणं गइं गया सा संपइ युण चिठइ कठ ॥६॥  
 चणिउ सो मुषिवडणा सोहंम सुरसुहाइ चुत्तण॑ । एसा सा त्रह घरिणी संजाया विर्धनिर्गेण ॥७॥  
 सोऊण नियचरिअं मुषिवरन्यणाउ ताण इहंपि । जायं जाईसरणं संन्नरियं पुवतवचरियाँ ॥८॥  
 पवराण्ति दोवि नवरं सच्च त्रहेहिं चासियं चयण॑ । अम्हेहिंवि विन्नायं जाईसरणे नीसेसं ॥९॥  
 पवराणइ सा विण्यसिरी नवरं किं हुयवहंमि पविसामि । जं पुव चंधवो विहु चतारो मञ्च संजाउत्त  
 विकिनि मञ्च जम्मो नवरं लोएवि गरहिउ एस पुवतवे चाया विहु चतारो जम्मिं संजाठा॑ ॥१०॥  
 तणिया सा मुषिवडणा जाइ मा एव इलिया होहि । मरिकण चंधवो विहु चतारो होइ संसारे छद  
 नवरं सच्च गयं किन्तु न टुकं अथाणमाणस । अपहियं इंतो जाणंतो को विसं खाइ ॥११॥  
 नम्हा विण्याणमाणी इत्तामि न नाउणा समं तोए । जानीवेमि इयाणि॑ नियमा चंतवयं मञ्चा॑ ॥१२॥  
 ता देयु मञ्च दिरंक नवरं नवतमणइकनिहवाण॑ चणिया सा मुषिवडणा जाइ उचिउ तुह विवेउ  
 पवराणइ नवरकुमरो विहु नवरं धिन्दिनिएसंसारो जामि मरिउण चाइ । उपज्ञाइ कममुणा वरिणी

? नडणी । २ जमंतराणि । ३ हरसिय । ४ विहि । ५ मप्र । ६ चाक्कीविमियाणि । ७ विवेउ ।

सोहणदिण्मि कुमरो जण्याएसेण परियणसमेडे । संचलिर्य य कमेण संपत्तो भुएरु नवरे ॥ ६४ ॥

सुर विक्कमनरवइणा पयनिय गुह गउरवेण परमेण । संमाणिकण कुमरो पेवेसिते विमल विहवेणदृ  
पाणिगगहण मुहुते<sup>२</sup> संपत्ते त्रूरिमंगलवेण । विचं पाणिगगहणं कुमरीए सह कुमारेण ॥ ६५ ॥

गमिकणं कइवि दिणे गुल्य पमोएण समुरगेहंभि । पुणर विक्यसंमाणो संचलिले नियन्यनयं मिदृ  
विण्यसिरीए सहिते कुमरो जा जाइ रक्षमझंभि । ता पिहुइ आयरियं सुरमहियं साहुपरियरियं ॥

निम्मल सियवड्यरं निम्मल सियदंतकंतिपंतिह्वै । निम्मल चतुर्नाणजुयं निम्मल नामेणदृ  
नणिते विण्यसिरीए सामिय दीसाई मुणीसरो<sup>३</sup> एस । ता गंतूणं एयं वंदामो परमन्तीए ॥ ६६ ॥

एवंति पचणिकणं कुमरो सो नियपरियणसमेडे । गंतूण मुणिवारिदं वंदृ विणएण परमेण ॥७०॥

दाऊण थम्मलाचं उत्तरसंसारसायरतरणं । चणिते सौ मुणिवइणा जयकुमर सुरसागयं तुङ्गा॥७१॥

विण्यसिरी विच्छणिया जावे तुह होउथम्मसंपत्ति । इय्यताणिएसापणमझपुणो विपयपंकयं मुणिणो<sup>४</sup>  
निंतंति<sup>५</sup> दोवि हियए जयवं कह मुणद्वाहनामाई । अहवा इडन चित्तं<sup>६</sup> नाणधरा मुणिवराहुंति

धम्मं जिणपन्नतं सोजाणं मुणिवारिदवयणाई । पुछृ नियपुवचवं नमिकण मुणिवरं कुमरा ॥ ७४ ॥

चयवं किं पुवचवे बहुपुन्हं<sup>७</sup> आजियं माए विमलं । जेण हियसस इठं पत्तं रक्जं कलवत्तं च ॥ ७५ ॥

चणिते तुमं महायस वणियसुठे आसि पुवजम्मंभि जिठाय तुङ्ग इठा चाइणी दीदावईनामा॥७६॥

? विहवेण । २ निमित्तं । ३ वैतिकंतिह्वै । ४ दंसेइ । ५ मुणिवरो । ६ इड । ७ सुसंगयं । ८ विय । ९ होइ ।

१० गुरणो । ११ चिंतिति । १२ चोक्जं । १३ सुहृत्तुं ।

॥१४॥

जिणवरं जाता । उत्क्षबि जाया सरदा पवती उत्तिरे तीइ उमर्यंपि ॥१५॥  
जिणवरं चंद्राव जिणवरं जाता । उत्क्षबि जाया सरदा पवती उत्तिरे तीइ उमर्यंपि ॥१५॥  
उत्कृष्टं पूर्वंती तिन्निवि संद्वात् जिणवरं चंद्राव चंद्राव । तनो बुएए उमर्यं संपत्तं परिसं रक्तं ॥१६॥  
जिणप्यापुदेण सुरवोए चंजिजण सुरक्ताइ । तनो बुएए उमर्यं तिन्निसुरकं जिणवरपूआल्लावेणउ  
पुणवि सुरनसुरकं कडवय जमंतराइ चुत्तुणं । पाविहिमि स्तिन्निसुरकं किठ्ठुक्त कठ्ठु ॥१७॥  
पुणप्यापुदेण सुरनसुरकं कडवय पूआल्लावेण चाडणी । एसा सा तुह यरिणी संजाया विश्विन्तिर्गिणी॥१८॥  
पुणवि हरस्तियहिते जगवं पूआल्लावेण चुत्तुणं । एसा सा तुह यरिणं पुववरवरणेण नीसेसं ॥१९॥  
चणिठे सो मुणिवदणा सोहैम सुरसुहाइ चुत्तुणं । अमहेहिनि विकायं जाईसरणेण संजातेउध  
सोकण नियवर्चिक्षं मुणिववयणाते तण उहंपि । जायं जाईसरणेण नीसेसं ॥२०॥  
पराणति दीवि जगवं सच्च तुहेहिं नासियं कवयां । अमहेहिनि विहु जनतारो मझ संजाताहु ॥२१॥  
पराणति दीवि जगवं कवयवं किं हुयवहं मिपविसामि । जं पुव वंशवो विहु जनतारो होइ संसारे छह  
नपराणति दीवि जगवं दोषवि गरहिउ एस पुववरेव जाया विहु जनतारो होइ संसारे ॥२२॥  
पराणदः सा विण्यसिरी कवयवं तुहिण्यं द्विहुतो जाणतो को विसं खाइ ॥२३॥  
तिन्निति मझ जम्मो जयवं दोषवि गरहिउ एक निहदाल्लावेणस । अपहित्यं नियमा वंतवयं मञ्जातण ।  
तिन्निति मासा मुणिवदणा नहै जगाणमाणरस । अपहित्यं नियमा वंतवयं मञ्जातण ॥२४॥  
जणिया सा मुणिवदणा एनं किंहु न उरकं अगाणमाणरस । जाजीवेमि इशाणं तुचिठे तुह विवेत्तु  
जगवं सच्च एनं किंहु न उरकं अगाणमाणरस । जाजीवेमि इशाणं तुचिठे तुह विवेत्तु  
तम्हा विणाणमाणी इडामि न जाउणा समं जोए । जाजीवेमि इशाणं तुह विवेत्तु  
ता देहु मझ दिकं जगवं चववरमणउ एक निहदाल्लावेणस । उपकृहु कम्मुणा घरिणी  
पतणाइतयक्तमरोविहु तनयवं चिद्दिनिप्संसंसारोजमि मरिकण ताइपि । १ विवेगो ।  
२ चणिठे । ३ उमंतराणि । ४ हरिसिय । ५ विहि । ६ जावकीविमियाणि । ७ विवेगो ।

कुसुम  
पूजा.

रोदलहितांशि कुमरो जाणयाएँगे परियण्टानंतरे । गंगालितुं ग कुमोंलं मंपतो भुखुरे नयरे ॥ ६४ ॥  
 भुखुरभिगमनरयदाणा परगदिग्य गुरु गउरवेण परमेण । संमालिताण कुमरो पवेसितुं विमलविहवेणद्य  
 पाणिगाराणा गुडुने<sup>१०</sup> संपत्ते त्रूरिमंगलरवेण । विंचं पाणिगाहाणं कुमरीण सह कुमारेण ॥ ६५ ॥  
 गमिताण कदवि दिग्गे गुरुय परमोपण समुरगेहंमि । पुणरविक्यसंमाणो संचलिते नियनथरंमिद  
 विणयगितीप् सहिते कुमरो जा जाइ रद्धमझांमि । ता पित्रिअायरियं सुरमहियं साहृपरियरियं ॥  
 निम्मलविषयवहृधरं निम्मलविषयहृधतकंतिपतित्वे । निम्मलविचउतनाणजुयं निम्मलविनाणं च नामेण्टद  
 नणितुं विणयसिरीप् सामिय दीसइ मुणीसरो<sup>११</sup> एस । ता गंतूणं एयं चंदामो परमत्वतीप ॥ ६६ ॥  
 पत्वंनि पनणिताणं कुमरो सो नीयपरियणसमर्ते । गंतूण मुणिवारिदं वंडइ विणएण परमेण ॥ ६७ ॥  
 शाऊण धम्मदाणं डुत्तरसंस्तारसायरुत्तरण । चणिते सौ मुणिवड्णा जयकुमर सुसाँगयं तुङ्गा॥ ६८ ॥  
 विणयसिरी विज्ञाणिया नहै तुह होउथम्मसंपत्ती इयन्नलिष्टसापणमङ्गपुणोवियपंकयंमुणिणो<sup>१२</sup>  
 चिंतन्ति<sup>१३</sup> दोवि वियए वयवं कह मुणइअहनामाइ । आहवा इठ न चिंतं नाणधरा मुणिवराहुंति  
 धम्मं जिणपद्धतं सोजाणं मुणिवारिदवयणाठे । पुत्रिउ नियपुवतावं नमिताणं मुणिवरं कुमरो ॥ ६९ ॥  
 नयवं कि पुत्रतवे बडुपुत्रं अजियं माए विमदं । जेण हिययस्स इठं पत्तं रञ्जा कलवतं च ॥ ७० ॥  
 नणितुं तुमं महावत्स वणियसुर्ते आसि पुवजम्मंमिजिहाय तुङ्ग इठा नाइणी दीवावईतामा॥ ७१ ॥  
 ? विद्वेण । २ निमित्तं । ३ पतिकंतित्वे । ४ दंसेड । ५ मुणिकरो । ६ इच्छा । ७ चुसंगयं । ८ विय । ९ होइ ।  
 १० गुरुरणो । ११ चिंतन्ति । १२ चोक्का । १३ मुहपुत्रं ।

१५

तीइ तुमयं पि ॥७॥

तुक्षवि जाया सङ्का पवन्तीर्ते तीइ तुमयं पि ॥८॥

ततो तुप्पण तुमए संपत्ते परिसं रक्तं ॥ ९॥

जिणवरपूछाण्णजावेणउ  
द्वच्छण पूर्खंती तिविवि संज्ञाउ तिविवि संज्ञाउ चत्तो  
सुरखाउ चंजिकण मुरखाउ । ततो तुप्पण तुमए संपत्ते परिसं रक्तं ॥ १०॥

जिणपूर्खपुद्रेण सुरखोए चुरखोए । पाविहिसि मिन्दिसुर्खं जिणवरपूछाण्णजावेणउ  
पुणरवि सुरतरसुर्खं कक्षवय जमंतराउ चुरताउ । पाविहिसि मिन्दिसुर्खं जिणवरपूछाण्णजावेणउ ॥ ११॥

पुड्ह हरस्तिव्यहियउ तथयं पूछाण्णजावर्ते चाझणी । एसा सा तुह बरिणी संजाया विधिनिर्भेण्णाउ ॥ १२॥

नणिउ सो मुणिवद्धण सोहं सुरसुहाउ चुरसुहाउ । एसा सा तुह बरिणी संजारिव्यं पुवरवच्चरियाँ ॥ १३॥

सोकण निययनरिअं मुणिवरवयणाउ ताण ठुंड्हपि । जायं जाईसरणेण नीसेसं ॥ १४॥

पनरांति दोवि चयवं सच्च तुवेहिं जासियं चयवं । अम्भेहिंवि विकायं जाईसरणेण मङ्ग संजाउ ॥ १५॥

परणउ दोवि चयवं चयवं लोएवि गरहिउ एस पुवरवं किं दुयवहंभि पवित्ता मि । नं पुव चंधवो विहु चत्तारो जम्भं संजाठा ॥ १६॥

प्रिन्दिति मङ्ग जम्भो चयवं लोएवि गरहिउ एस पुव चंधवो विहु चत्तारो जम्भं संजाठा ॥ १७॥

नणिया सा मुणिवद्धण चाहे मा एव डुरिक्या होहि । मरिकण चंधवो जाण्णो को विसं खाइ ॥ १८॥

नयवं सच्च एयं किंतु न डुरकं ऋचाणमाएस्स । अप्पहियं इङ्गतो जाण्णो तुह विवेउ  
तमहा वियाणमाणी इहामिन चावत्ता समं लोए । जाजिवेसि इशार्टि नियमा चंधवयं मङ्ग ॥ १९॥

ता देसु मङ्ग दिरं चयवं चत्तारसारोजंसि मरिजण नद्धणी उपज्जाइ कम्मुणा घरिणी  
? नद्धणी । २ जमंतराणी । ३ हरस्तिव्य । ४ विहि । ५ मङ्ग । ६ जावकीयमियाणी । ७ विवेगो ।

कुसुम  
पूजा।

संसारविरतो निहु पवज्जं पालिकण असमडो । ता किं करेमि जयवं साहसु जं मङ्ग करणीयं॥१॥  
जइ गवं जह तुमं पवज्जं पालिउंच असमडो । ता सम्मत विसुद्धं पनिवज्जसु सावर्गं धर्मं॥२॥  
पवावियनिहिज्जोगे विषयसिरी विषयसुखनिरविरकताजयकुमरो विहुरुणासावगधर्मंमि संठविउ  
विषयसिरी खामेउं नमिकण य पायपंकयं गुरणोसंपत्तो निय नयरे<sup>४</sup> कुमरो परिगहियजिएधम्मो  
सुवय गणणिसंमीवे पवज्जं पालिकण विणयसिरी । पावियकेचबनाणं संपत्ता सासर्य ग्राणं॥३॥

इति पूजाष्टके कुसुमपूजायां चतुर्थमाख्यानकं  
समाप्तम् ।

१ कायवं । २ विसुद्धो । ३ पवाविया य विहिणा । ४ नयरे । ५ गणिणि । ६ संपत्त केवदसिरी ।

## ५ दीपपूजाकथातकम्

जो देइ दीवं जिणवरस्स जबाणमि परमनतीए। सो निम्बलबुद्धियरो रमझ नरो सुरविमाणेषु ३  
 जिणतनाणमि पर्वो' दितो ज्ञानीइ परमकद्वाणैँ। जह किएमईँ पातं धणसिरिसहियाइ देवतां ४॥  
 अ त्रिवृतरह खिते नवरं महिमंकर्वंभि सुपसिर्वं । महेपुरं चितुहावासं सुरपुरं व ॥ ५ ॥  
 तव पुरे नरनाहो मेवो नामेण वसद सुपयावो । जो बड़िरिगच्छराणं सीहो द्वय इपनिदलणो ॥ ६ ॥  
 तंभि पुरे गुणजुतो जिणवरचणच्छाणंभि उज्जुतो । संमदिटी सिठी सुरइतो नाम परिवसद्वा ॥ ७ ॥  
 निम्बलजिणथस्मरया निम्बलयुणरयण चूसीयस्तरीरा निम्बवसीलाहरणा सीदवाईँ चारियातस्स  
 निम्बांसम्मनकर्वि जिणमझ नामेण ताण वर धूया । तीए धणसिरि सहियारहिया सम्मत तुर्दीए  
 उँचिविसम्मुहसुहियाइ निविसमझकड़िक्कियाउयाइ निविसमनेहाउड़िविसम्महवसोहाउ  
 अह अद्वया कवाई जिणनवणे जिणमई जिणिंदस्स । दिंती पवरपैँदं द्वद्वाणं धणसिरि जणइ ८  
 पियसहि साहेई फर्वं दीवयदाणेण जिणवरिदस्स । जेणाहं पद्मसंझं जिणनवणे दीवरं हेमि ९ ॥  
 नणिया य जिणमईए नहै चत्तीइ जिणनवरिदस्स । दीवयविहिदाणफर्वं सुनरमुखं च मुखंच ११  
 विमला बुद्धी दहो आवंकितै हवइ वीयरागाण । दीवयविहिदाणफर्वं रयणाणि य बहुपगाराणि १२

? पट्टवं । २. जानाण । ३. खहइकवाण । ४. जिणमझए । ५. मेघपुरं । ६. चबण । ७. वरदतो । ८. सीलमई ।  
 ९. नं निजात । १०. डुतवि (ध) । ११. माहेह । १२. पि तिसंझं । १३. बहुपगाराणि ।

हीप  
पूजा.

१॥ धणसिरीचिय जिणपुरउ मंकदं विहेऊ। एमेव तस्स कङ्गइ पाचपयंगो न संडेहो ॥ २३ ॥  
 एवं पड़दियहं विय हीवं दितीई जिणचारिदस्स। पुफरकयकयपूर्वं देइ पड़वं मुननीगा ॥ २४ ॥  
 डुन्निवि दिति पट्टवं तिन्निविसंझाउ जिणचारिदस्स। संजायं धणसिरीए जिणथम्मे निचावं चित्तो ॥ २५ ॥  
 अह धणसिरी सयंचिय नाउ नियजीवियस्स पञ्जतं। गिल्लेइ जिणमडाचयाउ चिनाउ ॥ २६ ॥  
 अह सा धणसिरिविहे छुरकता जिणमई विसेसेण। सोहंमे उचवत्ता देवी दिव्या न्वेणा ॥ २७ ॥  
 संपत्ते पञ्जते विहिणा मरिजण विहित्तेण। जिणचरदीवपयाणे पड़दिवहं उ ज्ञामं कुण्ड ॥ २८ ॥  
 अवहिकिसएण नाउ नीसेसं पुबजम्मसंबंध। तडवि गयाउ देवी धणसिरिविमार्मभि ॥ २९ ॥  
 नियरिद्धि दहूण उचवि वितंति विलियमणाउ। केण सुकएण प्रसा पन्ना आत्मात्ति गुरुरिल्लौ ॥ ३० ॥  
 वीजायं नाणेण जिणचरचरणं मि दीचदाणेण। संपत्ता अहोहि एसा हियइत्तीआ रिल्लौ ॥ ३१ ॥  
 ततो समरेकणं रिसहजिणिदस्स मंदिरं पवरं। अवइवत्ताउ उन्निवि रहेषेण महनयरं मिल्लौ ॥ ३२ ॥  
 फलिहसिलायवधकियंकचणमणिरचणथंचपरियरियंरियं जिणेसरचवाणं विणि मिमायंकमलोपरंतं ॥ ३३ ॥  
 ? पयदियहंचिय। २ जिणचर। ३ अहियरे। ४ अवहिवसेण। ५ डुन्निवि। ६ तंसरिकाण्। ७ परमो ८ कल्पमपरंते।

१२८॥

कल्पमपरंते।

कंचणांकसमुस्तियध्यसाकावांकियं करेकण । कवसोवारं पैङ्गो हविर्वे वरयणनिम्नमविउ ॥५६॥  
 मुनृण कुसुमबुद्धं गंधोदयमीसिंच जिणवाचेण । तिप्याहिमी करेउ चंडति य दोवि रिसहेसं पृ  
 योकण जिणवारिं धुणो युणो ज्ञनिप्रमणार्दे । पत्तार्दे नियठाणे सेवंति जहवियं सुरकं ॥५७॥  
 थणनिरिद्वी देवाकुर्यंभि स्वीपंभि निरवसेसंभि । चविकण समुपाक्षा हेमपुरे राङ्गो चक्षा १८  
 नामेण कणगमादा सीसि सेसिव सद्वमहिलाण । नियजीवार्जे इठ्ठा मग्यरन्नयनामधेयसस ॥ ३० ॥  
 अह तस्ते पहमयरा मध्यरानामेण राङ्गो इठ्ठा । सा परित्वाऽर्केण मरिज्ञाणं रक्षसी जाया ३१  
 कणगमालाइसविउ विसयसुहासतमाणसो राया । दोयुंगोवै देवो गंभंपिकादं न वार्केइ ॥३२॥  
 वासहरंभि पर्द्धीवा रघणीग तीइ देवहकंतीए । पहया रवितेए वै नितेया ते पयासंति ॥ ३३ ॥  
 सा रक्षसी नर्मिं दइयासं वियापितं कुर्ना । रथणीइ आद्वरते समागया राङ्गो पासे ॥ ३४ ॥  
 दाढाकराववयणो नीसणनयणो कवंतलुयोयै । मुक्को ताण वहहं चेउवियं विसहरो तीए ॥३५॥  
 मो काणयाग तेयं असहंतो लोयणे निमीवोइ । उहविणयं विउ नियकायं कुंदलिकालै ॥ ३६ ॥  
 ताच न पहवृद्ध सत्पो ता आङ्कोहानवेण पक्कलियौ । मुक्को नीसणसहो पाणहरो मंदसत्ताण ३७

? तिप्याहिमी । २. कणगमाक्षा । ३. नियजीवियार्दे । ४. तीमेविय । ५. दृढमड्हा नाम । ६. दोयुंगुधाय । ७. या-  
 ंग । ८. पविज्ञा । ९. वि । १०. रथणीए । ११. कवंतलव्युध । १२. विचविय । १३. निमेवेडे । १४. उक्केकाण ।  
 १५. कुंदलिकाण । १६. ताचय कोवानदेण चवियाए ।

दीप  
पूजा.

जो जिणवरस्स पुरार्दे देइ पईवं पराइ ज्ञतीए । एमेव तस्स फङ्गड़ पावपयंगो न संदेहो ॥ १३ ॥

सोऊण धण सिरीविय जिणपुरउ मंकदं विहेऊण । पुफकयकयपूर्य डेइ पईवं मुनचीए ॥ १४ ॥

एवं पटद्वियहं विय दीवं दिंतीइ जिणवारिदस्स । संजायं धण सिरीए जिणयम्मे निचावं चित्तो ॥ १५ ॥

ठन्निवि दिति पईवं तिन्निविसंझाउ जिणवारिदस्स । चत्तिवरनिप्रराउ जिणिंधभिमक्कचिनाउ ॥ १६ ॥

अह धणसिरी संयविय नाउ नियजीवियस्स पक्कातं । गिल्लेइ जिणमईए वयणाउ आणसां चीहिणा  
काऊण आणसणविहं विसुद्दोसाइ सा मरेऊण । सोहंमे उववत्ता देवी द्विवा रुवेणा ॥ १७ ॥

अह सा धण सिरिविरहे ठुरुकता जिणमईविसेसेण । जिणवरहीवपयाणे पट्टियहं उज्जामं कुणाइ  
संपत्ते पक्काते विहिणा मरिऊण विहिनिऊण । सोहंमे संजाया देवी धणसिरिविमाणंमि ॥ १८ ॥

अवहिविसएण नाउ नीसेसं पुवजम्मसंवंधं । तडवि गयाउ डुन्निवि जायाउ गुनसिलोहातो ॥ १९ ॥

नियरिल्लेइदृष्टण ठुववि चिंतति विहियमणाउ । केण सुकएण पत्ता अत्तेहिं मुरारिन्दी १२  
वीद्वायं नाणेण जिणवरनवाणंमि दीवदाणेण । संपत्ता अहेहि एसा हियड्डीआ रिल्लो ॥ २३ ॥

तचो समरेऊण<sup>१</sup> रिसहजिणिदस्स मंदिरं पवर्<sup>२</sup> । अवइत्ताउ डुन्निवि रहसेणं मेहनयरंमि ॥ २४ ॥

फलिवसिदायवध कियंकंचणमणिरयणंचपरियरियंरिसहजिणेसरतवाणं विणिभिमयंकमस्त्वपरते ॥ २५ ॥

आष्टप्र.

॥१२६॥

१ पयद्वियहंचिय । २ जिणवर । ३ आहियवर । ४ अवहिवसेण । ५ डुन्निवि । ६ तंसरिकाण । ७ परमं । ८ काहसपरंते ।

वररथणनिम्नविजु ॥१७॥

करतसोवारि पईवो गविउ वररथणनिम्नविजु ॥१७॥  
करेझुण करेझुण । करतसोवारि पईवो गविउ विसहेसं ३१  
कंचणदंरसमूलियथमालादंकियं करेझुण । तिपयाहिँै करेझुण विंडति य वोवि रिसहेसं ३१  
मुकुण कुमुमधुइं गंधोदयमीसियं च जिणवरगणे । पचार्ड नियठाणे संवंति जहू विं मुखकं ॥१८॥  
ओरुण जिणवारिं पुणो पुणो चन्तिनिप्रमणारे । पचार्ड नियठाणे चक्का श॒  
शणसिरिदेवी डेवाऊर्यमि खीर्णमि निरवसेसंमि । चविकुण समुपवाहा हेमपुरे राडणो चक्का श॒  
तासंण कणगमाला सीसि सेसिव सवमहिकाण । नियजीवार्ड इटा मगररुचनमेयस्स ॥३०॥  
अह तसं पडमयरा मळ्रानामैं राडणो राया । दोयुंडगावै देवो गयंपिकावं न लासेकै ॥३१॥  
कणगमालाइसहिउ विसहुहासतमाणसो राया । अक्करते समागया राडणो पासे ॥३२॥  
वासहरंमि पईवा रथणीए, तीइ देहंकंतीए । पहया रवितेए च नितेया ते पयासंति ॥३३॥  
सा रक्कसी नारिं इट्यासतं वियाणितं कुक्कु । रथणीइ वेतविं विसहरा तीए ॥३५॥  
दाढाकरालवयणो नीसणनयणो कर्यंतरहोमै । मुक्को ताण वहू चेतविं विसहरा तीए ॥३६॥  
सो कणयाए तेयं असहंतो लोयणो निमिदेइ । उहू हिण्यै उिउ नियकायं कुक्कुलीकाउ ॥३७॥  
जाव न पहवड सणयो ता आढकोहानदेण पक्कलिया । मुक्को नीसणसहो पाणहरो मंडसत्ताण ३७  
१ तिपयाहिँै । २ कणयमाला । ३ नियजीवियार्ड । ४ तीयेविष । ५ दहमझा नाम । ६ दोयुंडगाव । ७ या-  
ण । ८ पचिचा । ९ विं । १० रथणीए । ११ कंचतरकुचु । १२ विचविष । १३ निमेदेवं । १४ उहूहेकै ।  
१५ कुक्कुलीकाउ । १६ तावय कोचानदेण जवियाए ।  
१७ कुक्कुलीकाउ ।

आखुहृचितो समुद्दिउ नरवैँ सह पियाए । पित्रिद्वुरउ साप्यं पियाइ<sup>१</sup> तेगणा निजेवं ॥३॥  
 लीसणरुवं काऊण्यं चेसिउं समाहृता । तहविहु नियसनताउ नयं चकिया काणगमाला गा ३०  
 तीइ सत्तेण तुठा पसन्नरुवेण<sup>२</sup> अपेणो काऊं । पचण्ड वैते तुठा जं मगा मि नं पाणामेमि ॥४॥  
 चणिया सा कणयाए चयवैँ जं देसि मझ परितुठा । ता तुंगं पुरमझे मणिरयां कुणमु फाणामं<sup>३</sup>  
 एवं ति परणिकुण्यं चिणिगया रखसी निययताण्यं । नीयव रक्खीए पहमंचिय चामिली नठाझू  
 इतो सुहपनियुक्ता समये दहेण्ण कणगमाला सा । पित्रिद्वियमप्पां देवीइ विलिन्मान तराणे ४२  
 तं सुरनवणसरिबं दहूण्यं दण्ड नरवैँलोउ<sup>४</sup> । कणयादेविनिमित्तं देवीइ विलिन्मान तराणे ४३  
 चयणगवरकंमि तिया जिणतचणपैँवयं पदोयंति । कुणइरुँ र्याणीए पद्विवैँ कणगमाला माधु  
 इतो सा सन्गाउ जिणमइ देवीइ वोहण्डाए । आगंतूण्यं पनण्ड कणां रवाणी इयत्रैँहु ॥ ४४ ॥  
 जा कीलेसु किसोअरि कंचणमणिरयणघमियनवेण्णसुतं जम्मंतरजिणतवणे ई । चवडाणम्बनकवमान  
 एवं सा पद्वियहु पुणो पुणो पद्वियहु वोहण्डाए । सावि मणेण्यं चित्तइ का तमो पड़दिगं पड़दिगं ४५  
 जह एही<sup>५</sup> कोवि मुणी आइसयवरनाणीरिन्द्रिसंजुतो । ता पुछिसंपयं इय कणया जा शिनिनेटु<sup>६</sup> भाग  
 ता वहुसमणसमेउ समागउ गणहरुनि आयरिउ । आइसयनाणसमेउ समोसडो नवरतज्जाणगं ४६

<sup>१</sup> दह्या । <sup>२</sup> नहु । <sup>३</sup> पसन्नरुवं च । <sup>४</sup> अचण्णो । <sup>५</sup> जह । <sup>६</sup> पुरवरीलोउ । <sup>७</sup> चंकिहेमि । <sup>८</sup> दीवरशदाणरम  
 ए मणेण । <sup>९</sup> होही । <sup>१०</sup> सिन्कि । <sup>११</sup> कणयमाला जाव चित्तइ ।

नारदिणा ॥२॥

नारदं संचिविया सह नारदिणा ॥२॥  
नर्तीऽवंदण्ठं संचिविया नियसंसयं कण्णा ॥३॥  
नारदण कणगमादा उक्काणे संतिं मुणिवार्दं । नर्तीऽवंदण्ठं पुराद् नियसंसयं कण्णा ॥४॥  
नर्तीऽवंदण्ठं सुणेकणं करेकुणं । भ्रमं च सुणेकणं अद्वकोउं भ्रमल ॥५  
दद्धण मुणिवार्दं चंद्र॒ तिपयाहिमं करेकुणं । केण निमित्तेण चिय साहसु अद्वकोउं भ्रमल ॥६  
दद्धण को पड़ियहं महूपउ एपड़ अद्वरतंत्तमि । केण निमित्तेण गया देवलोगंभि ॥७  
दद्धण वं दोसहियाउ जिणमऽवणसिरि पसिन्ननमाठे । जिणहीवयदाणेणं दोवि गया एपिवोहं ॥८  
पुर्विं दोसहियाउ जिणमऽवणसिरि पड़ियहं कुणाऽपकिवोहं ॥९॥  
तत्तो चविकण तुमं जाया इट्टेव राइणे चक्का । साविय जिणमऽहेवी पड़ियहं दोवि देवनि ॥१०॥  
तत्तो चविकण तुह सही होही । तत्तो मरितं तुहे सवठे दोवि सिलिंपि पावेहं ॥११॥  
सा सगाठे चवितं इत्तर्वे जमंभि तुह सही होही । न तिहं संदेहो॥१२॥  
सा सगाठे चवितं इत्तर्वे जमंभि तुह सही होही । न तिहं संदेहो॥१३॥  
सवठाठ चवितं चवितं इत्तर्वे विहिते तुहेहि । जायं जाईसरणेण कणगमादाए ॥१४॥  
जं जिणवणपाठ्यो विहिते तुहेहि । जायं जाईसरणेण नीसेसं ॥१५॥  
गदं मुणिवयणाठे पुवतरं अत्तणे सुणंतीए । जायं जाईसरणेण नीसेसं ॥१६॥  
पराणऽ नयवं तबो पुवतरो मझ साहिते तुमए । इहि॒ मपवि नायं जाईसरणेण नीसेसं ॥१७॥  
द्य चविकण तुहे पुवतरो मझ साहिते तुमए । समयं विय दःइराणं समागमा अत्तणो गेहेहु ॥१८॥  
जिणमऽहेवी॒ दुपुणो चणिया सा जामिणी॒ पठेक्लासाहु तए पकिवंतो जिणवरमो मध्यसमो चर्वे॒ द्य  
द्य चविकण कणगा समं पकिवज्जिकण जिणभरमं । समयं विय दःइराणं समागमा अत्तणो गेहेहु ॥१९॥  
जिणमऽहेवी॒ दुपुणो चणिया सा जामिणी॒ पठेक्लासाहु तए पकिवंतो जिणवरमो मध्यसमो चर्वे॒ द्य  
द्य चविकण कणगा समं पकिवज्जिकण जिणभरमं । समयं विय दःइराणं समागमा अत्तणो गेहेहु ॥२०॥  
इहि॒ अङ्कं पि चवितं सावरहंतस्तु स्तुठिणो थूया । होहामि ताए लहै वोहेयवा य जिणथममे द्य  
परंति नीग चवितं नियवरहाणां चुजाऽसुरसुरकाठं कणगविय मण्युजममस्ता ॥

दीप  
कृजा.

तेण विं अखुद्विनो समुहिँ नरवई सह पियाए । पिहइ पुरई सपं पियाई तेण नितेवं ॥३७॥  
 इतो चीसणरुवं काऊण जेसिं समाहना । तह विहु नियसत्तारे नर्व चलिया कणगमाला सा ३७  
 तीइ सत्तेण तुठा पसब्रहबेण अपयेण काऊ । पत्तणइ बहे तुठा जं मगगसि तं पाणामेसि ॥४७॥  
 चणिया सा कणयाए लयवई जं देसि मझ परितुठा । ता तुंग पुरमझे मणिगयाण कुणमु पाणायेण ?  
 एवं ति पचणिकाण विषिणगया रकसी निययाण । लीयव रकसीए पहमंचिय जामिली नठाख्है  
 इतो सुहप किहुक्का समये दइएण कणगमाला सा । पिहइ वियमपाण देवीइ विणि म्मारा तचाण ५३  
 तं सुरसवणसरिडं दहूण नणइ नरवईदोउै । कणयादेविनिमित्त देवीए विणि म्मायं तचाण ५४  
 चवणगवरकंभि विया जिणतवणपईक्यं पबोयंति । कुणइ रंड रयणीए पइवियहं कणगमाला साध्य  
 इतो सा सगाउ जिणमइ देवीइ वोहणठाए । आगांतूण पत्तणइ कणएं रयणीइपवेद्द ॥ ५५ ॥  
 जा किलेसु किसोअपि कंचणमणिगणघदियतवणेसुतं जम्मंतरजिणतवणे दीवदाणस्त् करमेवं  
 एवं सा पट्टदियहं युणो युणो पहइ वोहणठाए । सावि मणेण्यं चित्तइ को एसो पट्टदिणं पट्टद ५६  
 जइ एहीै कोवि मुणी अइसयवरताएरि दिसंजुतो । ता पुहिसं एयं इय कणया जा विचतेउै ५७  
 ता वहुसमणसमेते समागर्ते गणहरुनि आयरिउै । अइसयनाणसमेते समोसढो नयरउक्काणे५०

? दह्या । २ नहु । ३ पसवर्लवं च । ४ अत्तणो । ५ जइ । ६ पुरवरिदोउै । ७ जेकीदेसि । ८ दीवदाणसम  
 ए मणेण । १० होही । ११ मिछि । १२ कणगमाला जाव चित्तइ ।

नारिदेण ॥५२॥

नारिण मुणिगमादा उज्जाणे संरियं मुणिचारिणः । त्रतीदं चंद्रणां लंचं द्विग्या सह नारिदेण ॥५३॥  
दंदूण मुणिचारिणः चंद्रणं सुणेकाणं पुठड़ नियसंसरयं कण्या ॥५४॥  
नारिण कण्यगमादा उज्जाणे संरियं मुणिचारिणः । धर्ममं च सुणेकाणं पुठड़ नियसंसरयं कण्या ॥५५॥  
दंदूण महपुरुठे पहड़ अक्षरनंभि । केण निमित्तेण चिय साहसु अट्कोउयं मझ ॥५६॥  
नयवं को पठ्डियहं महपुरुठे पहड़ अक्षरनंभि । जिणाईचयदाणेण देवि गणा देवदोरंभि ॥५७॥  
पुविं देसहियाठे जिणमङ् धणसिरि पसिन्दनामाठे । जिणाईचयदाणेण देवि गणा देवदोरंभि ॥५८॥  
ततो चविकण तुमं जाया देवर राइणे राज्ञा । साविय जिणमङ्देवि देवते सबठे दोवि देवनि ॥५९॥  
सा सरगाठे चविकं द्वृयै जम्मंभि तुह सही होही । ततो मरिठं तुहे डुजिवि सिरिंधि पावेहं ॥६०॥  
सवढाउ चविकं वयजुतं पाविकण मण्यतं । कम्मरकणपैण तुहे होही न जिवं संदेहो ॥६१॥  
जं जिणरवाणपट्टो विहिठे तुहेहं इठ जम्मंभि । तस्स फदं निवाणं होही ॥६२॥  
पैवं मुणिचयणाठे पुवजवं अनतो सुणेतीए । जायं जाईसरणं सहसचिय कण्यगमादाए ॥६३॥  
इठ्लि मएवि नायं जाईसरणे नीसेसं ॥६४॥  
जिणरवाणपट्टो विहिठे तुहेहं समागया अनतणो गोहं ॥६५॥  
पैवं मुणिचयणाठे पुवजवं अनतो सुणेतीए । इठ्लि मएवि नायं जाईसरणे नीसेसं ॥६६॥  
पठणाङ् चयवं सबो पुवजवो मझ साहिठे तुमए । जिणरवाणपट्टो जिणरवाणमो मथसमो वठे ॥६७॥  
इय चणिताणं कण्यगमादा सम्मं पक्किव क्किकण जिणरवाण तए पक्किवंतो जिणरवाणमे ॥६८॥  
जिणमङ्देवि दुणो चणिताणा साजामिणीइ पठ्डेओसाहु तए पक्किवंतो ध्रूया । होहामि तए जहे बोहेयवा य जिणरवाणमे ॥६९॥  
इठ्लि अहंभि चविकं सायरइतस्स स्तिठिणो ध्रूया । होहामि तए जहे बोहेयवा य जिणरवाणमे ॥७०॥  
परंति तीए चणिताण विणिगमाया जिणमङ्देवि नियगवाणांठुजङ् सुरसुरकाठं कण्याविय मण्यजमसस्ता ॥

दीप  
तृजा.

तेण विश्वुहृचितो समुद्दिते नरवर्द्धं सह पियाए । पित्रिद्वय सप्तं पिचाई तेगण निजेष्वं ॥३८॥  
 इतो जीसणरुवं काऊणं नोसितं समाडता । तहविहु नियसत्तार्ते नर्य चलिया कणगमाला सा ३७  
 तीई सत्तेण तुझा पसवर्खबेण अपर्णो काऊ । पचाणई वर्ते तुझा जं मगासि तं पाणामेसि ॥३९॥  
 चणिया सा कणयाए लयवर्द्धं देसि मझ परितुझा । ता तुंग पुरमझे मणियां कुणमु पासारं ?  
 एवं ति पत्रणिकाणं विणिगया रक्षसी नियवर्ताणं । नीयव रक्तसीए पहमंचिय जामिनी नदाभृ  
 इतो सुहप निबुद्धा समये दइएण कणगमाला सा । पित्रिद्वयमपाणं देवीई विणिम्मिग तचाणं ॥४०॥  
 तं सुरगवणसरित्वं दहूणं लणई नरवर्द्धलोई<sup>१</sup> । कणयाई विनिमित्वं देवीए विणिम्मिवं तचाणं ॥४१॥  
 चवणगवरकंमि त्रिया जिणचवणपूँछयं पदोर्यंति । कुणई रंड रयणीए पइवियहं कणगमाला साधु  
 इतो सा सगगाई जिणमई देवीई वोहणठाए । आगंतूणं पत्तणई कणगं रयणीइपत्रेद्व ॥ ४२ ॥  
 जा कीलेसुई किसोअरि कंचणमणियणघ नियत्रवणेसुतं जम्मंतर जिणत्रवणो ईवदाणस्तं फलमयं  
 एवं सा पइवियहं पुणो पुणो पढई वोहणठाए । सावि मणेणयं चित्तई को एसो पइदिणं पढई धट  
 जई एही<sup>२</sup> कोवि मुणी आइसयवरनाईरि फिसंजुतो । ता पुछिसं एवं इय कणया जा विचंतेई<sup>३</sup> ॥४३॥  
 ता वहुसमणसमेते समागते गणहरुनि आयरिते । आइसयनाणसमेते समोसडो नयरउज्जाणे५०  
 ॥४४॥

<sup>१</sup> दह्या । <sup>२</sup> नहु । <sup>३</sup> पसवरुवं च । <sup>४</sup> अत्तणो । <sup>५</sup> जह । <sup>६</sup> पुरवरीत्वोते । <sup>७</sup> जंकीत्वोते । <sup>८</sup> जंकीत्वोते । <sup>९</sup> जंकीत्वोते । <sup>१०</sup> होही । <sup>११</sup> क्षिक्ति । <sup>१२</sup> कणयगमाला जाव चित्तई । <sup>१३</sup> दीवयदाणस्त  
 ए मणेण ।

नाऊण कणगमादा उज्जाणे संगियं मुणिचारिं । जनीइ वंदणं संचलिया सह नारदेण ॥५२॥  
 दद्रृण मुणिचारिं वंदइ तिपथा हिणं करेकणं । धम्मं च सुणेऊणं पुछइ नियसंसयं कणया ॥५३॥  
 चयवं को पङ्गियहं मह्युरउ पहड़ अक्लरत्तमि । केण निमित्तेण चिय साहसु अडकेउयं मझ्य ५३  
 पुर्वं दोसहियाउ जिणमइ धणसिरि पसिरुनामाउ । जिणइ वयदाणेण दोबि गया देवदोगं मि ५४  
 तत्तो चविकण तुमं जाया इव राइणो चज्जाय । साविय जिणमझदेवी पङ्गियहं कुणइ पकिचोहं ५५  
 सा सगाउ चविर्तं इत्यै जम्मंमि तुह सही होही । तत्तो मरिजं तुहो सबठे दोबि देवति ॥५६॥  
 सवदाउ चविर्तं वयजुतं पाविकण मण्णयतं । कम्मरकएण तुल्ये डुनिवि सिर्किपि पावेहं ५७ ॥  
 चं जिणचवणपङ्गेवो विहिउ तुल्येहं इत्यै जम्मंमि । तस्स फर्दं निवाणं होही न छिँ संदेहो॥५७॥  
 गावं मुणिचयणाउ पुवरचं अत्तणो सुणेतीए । जायं जाइसरणं सहसचिय कणगमादाए ॥ ५८ ॥  
 पराणइ चयवं सबो पुवनवो मझ्य साहिउ तुमए । इल्ले मएवि नायं जाइसरणेण नीसेसं ॥५९॥  
 इय चणिऊणं कणया सम्मं पकिचक्किकण जिणधम्मं । समयंचिय दृष्टपणं समागया अत्तणो नोहं ६० ॥  
 जिणमझदेवीइ युणो चणिया सा जामिणीइ पञ्चेदासाहु तए पकिचनो जिणधम्मो मयसमो वह्ये ६१  
 इल्ले अइंपि चवितं सायरदक्षस्स सिठिणो धूया । होहामि तए तहे बोहेयवा य जिणधम्मे ६२  
 यावंति तीर चणियं चिणिगया जिणमई नियवराणो चुंजइ सुरसुरकाइ कणया विय मण्णयजमसस्ता ॥  
 ? पयाहिणी । २ तुहवोहिं । ३ इत्तनि । ४ कम्मरकएवि । ५ पाविक्का । ६ नीसेसं । ७ मइ विसावट्टि

दीप  
पूजा.

तेण विश्वारुचिनो समुद्दिउ नरवर्द्ध सह पियाए । पिड्डु पुरजे सर्पं पियाई तेषु नितेयं ॥३७॥  
 इनो नीसणरुवं काऊण नेसिं समाहना । तहविहु नियसत्ताउ नये चलिया कणगमाला सा ३८  
 तीइ सतोण तुठा पसन्नरुवेण अपणो काउ । पञ्चएइ वडे तुठा जं मणसि तं पणामेसि ॥४०॥  
 जणिया सा कणयाए नयवर्द्ध जं देसि मळ्ह परितुठा । ता तुंग पुरमळ्ह मणिरथाण कुणसु पासायधृ  
 गां ति पचणिऊण विणिगगया रखकसी नियठाण । नीयव रखकसीए पहमंचिय जामिणी नद्दाख्ह  
 इनो मुहप कियुक्का समये द्विष्टुण कणगमाला सा । पिड्डु त्रियमप्पाण देवीइ विणिमिमए चवणे भृ  
 तं सुरनवणसरिउ इक्कूण जणए नरवर्द्धोउ । कणयादेविनिमित्त देवीए विणिमिमयं चवणं ॥४४  
 जवणगवरकंमि विया जिणजवणपैवयं पदोयंति । कुणए रं रयणीए पट्टियहं कणयमाला साथ५  
 इनो सा सगाउ जिणमइ देवीइ वोहणठाए । आगंतूण पत्रणए कणां रयणी इपहुर्के ॥ ४६ ॥  
 जा कीदेसु किसोच्चरि कंचणमणिरथणयन्दियनवणेसुतं जम्मंतरजिणजवणे दीवदाणसर्फलामेयं  
 पावं सा पट्टियहं पुणो पुणो पड्डु वोहणठाए । सावि मणेणयं चित्तइ को एसो पट्टियं पट्टु धां  
 जए पही<sup>१</sup> कोवि मुणी आइसयवरनाईरिक्किसंजुत्तो । ता पुहिसं एयं इय कणया जा विचितेऽ<sup>२</sup> भृ  
 ता वहुसमणसमेते समोसढो नयरउज्जाणेऽ<sup>३</sup> । अइसयनाणसमेते आयरिउ ।

<sup>१</sup> दद्या । २ नहु । ३ पसवत्त्वं च । ४ अत्तणो । ५ जइ । ६ पुरवरीतोर्जे । ७ जंकीतेसि । ८ दीवयदाणसम  
 मणेण । ९ होही । ११ निक्कि । १२ कणयमाला जाव चितेऽ ।

नाऊण कणगमादा उज्जाणे संनियं मुणिचार्दः । जतीइ चंदण्डं संचलिया सह नरिदेण ॥५३॥  
 इहूण मुणिचारिदः चंदइ तिपयाहिणं करेकणं । धर्मं च मुणोकणं पुछइ नियसंसर्वं कणया ॥५४॥  
 नयवं को पड़ियहूं महपुरउ पहड़ आङ्गरतंमि । केण निमितेणं चिय साहस्र आङ्गकोउयं मझ्य ५३  
 गुर्विं दोसहियाई जिणमइ धणसिरि पसिन्दनामाई । जिणदीचयदणिणं दोविं गथा देवदोगंमि प५  
 ततो नविकण तुमं जाप्या इवेव राझ्यो चक्षा । साविय जिणमझ्देवी पड़ियहूं कुणइ पकिनोहूं प५५  
 सा सगाई चवित्त इहूं जमर्मभि तुह सही होही । ततो मरितं तुहो सवाठे दोवि देवति ॥५६॥  
 सवधाउ चवित्त चयजुतं पाविकण मण्यतं । कम्मलकएण तुहो डुज्जिवि सिंकिपि पावेहूं ॥ ५७ ॥  
 जं जिणचवणपट्टो विहिते तुहोहिं इत्त जमर्मभि । तस्स फलं निवाणं होही न त्रित्र संदेहोपत्ता  
 गंवं मुणिचयाई तुवरचं अनाणे मुणतीए । जायं जाइसरणं सहसचिय कणगमादाए ॥ ५८ ॥  
 पचण्ड चयवं सबो पुवनवो मझ्य साहित्त तुमए । इहिं मएवि नायं जाइसरणेण नीसेसं ॥५९॥  
 इय चणिकणं कणया सम्मं परिवक्किज्ञण जिणचम्मं । समयंचिय इहूणं समागया अतणो नेहंदृ  
 जिणमझ्देवीइ पुणो चणिया सा जामिलीइ पञ्चेक्षासाहु तए पकिनंनो जिणधम्मो मयसमो वहेहृ  
 इहिं अहंपि चवित्त सायरइचस्स स्तिथिणो भूया । होहामि तए चाई चोहेयवा य जिणधम्मे ६३  
 गंवंतितीण चणियं चिणगया जिणमइ नियवाणं चुंजइ सुरसुखाई कणयाविय मणुयजमस्ता ॥  
 १ पयाहिणी । २ तुहोहिं । ३ इविं । ४ कम्मलकएवि । ५ पाविक्का । ६ नीसेसो । ७ मइ विसावत्ति

तेष वि अग्नुह चिनो समुद्रिते नरचई सह पियाए । पिड्डु पुरजे सर्पं पियाई तेष नितेयं ॥३८॥  
 इन्हो नीसणहवं काऊण नेसिं तमाहन्ता । तहविहु नियसत्तारे नयै चलिया कणगमादा सा ३७  
 तीइ सतेण तुठा पसन्नहवेणै अप्पेणी कारं । पजणइ वडे तुठा जं मणसि तं पणामेसि ॥४०॥  
 चणिया सा कणयाए नयवइ जं देसि मञ्छ परितुठा । ता तुंग पुरमञ्छ मणिरथाणै कुणसु पासायधै  
 गावं ति पञ्चषिकाणै विषिणगया रक्षसी नियगताणै । चीयव रखकसीए पढमंचिय जामिणी नद्धाख्है  
 इन्हो सुहप नियुक्ता समये दइएण कणगमाला सा । पिड्डु त्रियमप्पाणै देवीइ विणिमिमए चवणे भै  
 तं सुरनवणसरिउं इद्धूणै नणइ नरवईबोउै । कणयादेविनिमित्तं देवीए विणिमिमयं चवणं ४४  
 चवणगवरकंमि रिया जिण तवणपैद्वयं पदोयंति । कुणइ रंझ रयणीए पटदियहं कणयमाला साथ५५  
 इन्हो सा सगारे जिणमइ देवीइ बोहणठाए । आगंतूणै पत्रणइ कणगं रयणीइपहुर्क्के ॥ ४६ ॥  
 जा कीदेसु किसोअरि कंचणमणिरयणघनियनवणेसुतं जम्मंतरजिणजवणे दीवदाणसर्फलामेयं  
 एवं सा पटदियहं पुणो पुणो पड्डु बोहणठाए । सावि मणेणर्यं चितइ को एसो पटदिणं पटह धट  
 जइ एहीै कोवि मुणी आइसयवरताणैरिफिसंजुत्तो । ता पुहिसंएयं इय कणया जा विचितेहै भै  
 ता वहुसमणसमेते समोसढो नयरउज्जाणेहै । आइसयनाणसमेते समोसढो नयरउज्जाणेहै

१ दद्या । २ नहु । ३ पसत्तरवं च । ४ अचणो । ५ जइ । ६ पुरवरीत्वोर्ते । ७ जंकीत्वेसि । ८ दीवयदाणसम  
 ९ मणेण । १० होही । ११ निक्कि । १२ कणयमाला जाव चितेहै ।

नाऊण कण्णगमादा उज्जाणे संनियं मुणिवरिंदै । जत्तीइ चंदणहं संचलिया सह नारिदेण ॥५२॥  
 दृष्ट्युण मुणिवरिंदै चंदइ तिपयाहिणं करेऊण । धरमं च सुणेऊणं पुछइ नियसंसयं कणया ॥५३॥  
 चरयवं को पड़ियहं महूरउ पहड़ अन्नरतंमि । केण निमित्तेणं चिय साहसु आइकोउयं मञ्च ५३  
 पुर्विं दोसहियार्दै जिणमइवं प्रणसिरि पसिल्लनामाठै । जिणइवयदागेणं दोवि गया हैवलोंगमिप४  
 तनो चविकण तुमं जाया इत्तेव राइणो चाक्का । साविय जिणमइवं पिडवियहं कुणइ पकिवोहं प५५  
 सा सग्गार्दै चवितं इत्तर्यं जरमंमि तुह सही होही । ततो मरितं तुहेस तवठे दोवि देवनि ॥५६॥  
 सवठाउ चवितं चयजुतं पाविकण मणुयतं । कम्मरकएणं तुहेडु द्विविसिर्द्विपि पावेहं ॥५७॥  
 दं जिणत्वणपर्द्विवे विहिते तुहेहं इत्त जम्मंमि । तस्स फटं निवाणं हेही नवित्रं संदेहो॥५८॥  
 गवं मुणिवयणार्दै युवरवं अत्तणे सुणंतीए । जायं जाईसरणं सहसचिय कणगमादाए ॥५९॥  
 पवणार्दै नवरवं सबो तुवरवो मझ सहिते तुमाए । श्वं मरवि नामं जाईसरणे नीसेसं ॥६०॥  
 इय चणिकुणं कणया समं पनिवक्किऊण जिणधरमं । समयंविय इणां समानया आतणे गेहंद६१  
 जिणमइवं पुणो नलिया सा जामिणीइ पहरेक्षसाहु ताप पकिवनो जिणधरमो मयसमो वर्ते ६२  
 इलिं आइंपि चवितं सायरइत्तस्स सिठिणो थ्या । होहामि तए तहे वोहेयवा य जिणधरमे ६२  
 पर्वन्ति तीए चणियं विणिगमया जिणमइ नियवाणांचुंजडु सुरुखकाँडु कणयाविय मणुयजमस्सा ॥  
 ? पयाद्विणी । २ तुहेहिं । ३ श्ववि । ४ कम्मरकएणि । ५ पाविक्का । ६ नीसेसो । ७ मझ विसादविजि

दीप  
पूजा.

तेणवि असुहचिनो समुद्दिउ नरवद्दु नरवद्दु सह पियाएः । पित्रद्वु पुरव्वं सप्तं पित्राण तेण निजेवं ॥३८॥  
इतो चीसणरुवं कारुण्यं नेसिं समाहता । तहविद्वु नियसत्तार्जे नर्वं चवित्या कणगमादा सा ३७  
तीर्द्वु सनेण्यं तुठा पसवर्लवेण्यं अपण्यो कारुं । पत्रण्ड वेठे तुठा नं मगसि तं पणामेसि ॥३९॥  
चणिया सा कणयाए चयवद्वु जं देसि मझ्प परितुठा । ता तुंगं पुरमझे मणिरयाणं कुणमु पासानेधु ?  
एवं ति पचणिऊणं विणिगगया रखकसी नियथगाणं । चीयव रखकसीए पहर्मचिय जामिणी नचाधु ?  
इतो सुहपक्षितुक्षा समये इश्वण कणगमादा सा । पित्रद्वु नियमप्पाणं देवीद्वु विणिमिमा नचान्न धृ  
तं सुरचवणसरिउ इहूणं चण्ड नरवईद्वोर्दु<sup>१</sup> । कणयादेविनिमित्तं देवीपा विणिमिमयं नचान्नं धृ  
चवणगवरकंमि रिया जिणजवणप्पैवयं पदोयंति । कुणद्वु रं रथणीप पद्विद्वियहं कणगमाला स्नाधु  
इतो सा सगार्जे जिणमद्वु देवीद्वु वोहणठाए । आगंतूणं पत्रण्ड कणगं रथणीद्वित्तेक्ष्व ॥ ४० ॥  
जा कीलेसु किसोच्चारि कंचणमणिरयणघक्षियजवणेसुतं जम्मंतरजिणजवणे ईवडाणस्तं फवामेनं  
एवं सा पद्विद्वियहं पुणो पुणो पहड्वु वोहणठाए । सावि मणेण्यं चित्तद्वु को प्रसो पद्विणं पहड्वु  
जद्वु एही<sup>२</sup> कोवि युणी अइसयवरनाणीरिक्षिसंजुत्तो । ता पुठिसं एयं इय कणया जा विचित्तेत्त<sup>३</sup> धृ  
ता वहुसमणसमेते समागर्जे गणहरुनि आयरिउ । अइसयनाणसमेते समोसदो नवरउज्जाणेप्प०

१ दद्वा । २ नहु । ३ पसवर्लवं च । ४ अचणो । ५ जह । ६ पुरवरीबोर्दे । ७ जंकीदेसि । ८ दीचयदाणसम  
ए मणेण । ९ होही । १० विक्कि । ११ कणगमादा जाव चित्तेत्त ।

न अज्ञ एकणगमादा उज्जाले संविधं मुणिचरितं । चर्ची इं चंदणतं संचलिया सहृद न रिदेण ॥५७॥  
 दृढूण मुणिचरितं चंदइ तिपया हिष्ठं करेकरणं । थम्मं च सुणेऊणं पुढृ नियसंसयं कणया ॥५८॥  
 रथवं को पट्टियहं महपुरउ पहडृ अल्लरतंतमि । केण निमित्तेण चिय साहमु अळकोउयं मझ ॥५९  
 पुर्विं दोसहियाउ जिणमझ धाणसिरि पसिल्लनामाउ । जिणडृ वयद्वाणोणं दोवि गया देवदोणं मि ॥६०  
 तत्तो चविकण रुमं जाया छेव राणणे रक्का । साविय जिणमझडृवी पट्टियहं कुणइ पकिचोहं ॥६१  
 सा सगाउ चविं इत्यै जम्मंमि तुह सही होही । तत्तो मरिउं तुह्मे सवहं दोवि देवनिलाइ ॥  
 सवहाउ चविं चयत्तुतं पाविकण माणयतं । कम्मरकणाणं तुह्मे डविवि मिस्त्रिपि पावेहं ॥६२॥  
 लं जिणत्रचणपट्टिवो विहिउ तुहेहिं श्व जम्मंमि । तस्स फलं निवाणं होही न जित्तु संदेहोगाइ ॥  
 एवं मुणिचयणाउ पुवत्रवं अत्तणो सुणंतीए । जायं जाइसरणं सहसचिय कणगमालाए ॥६३॥  
 पञ्चणइ चयवं सद्वो युवत्रवो मझ सा हिउ तुमाए । इहिं मणवि नायं जाइसरणेण नीसेसं ॥६४॥  
 इय नणिऊणं कणया सम्मं पकिचज्जिऊण जिणथम्मं । सम्मंचिय इट्टणं समागया अत्तणो गेहंदृ ॥  
 जिणमझडृवी इपुणो चणिया सा जामिणीइ पडृद्दोसाहु ताप किचनो जिणथम्मो मध्यसम्मो चर्चै ॥६५  
 इहिं आहं पि चविं सायरहत्स्स सिद्धिणो धूया । होहामि तप् चहे दोहेयवा य जिणथम्मे ॥६६  
 एवंति तीए चणिर्व विणिगमया जिणमझ नियशबाणाउजाइ सुरसुरकाउ कणया विय मणुयजमस्सा ॥

१ पयाहिणो । २ तुहेहिं । ३ श्ववि । ४ कम्मरकरवि । ५ पविका । ६ नीसेसो । ७ मझ विसावद्विः

तेणवि असुहृचितो समुद्दिते नरवै सह पियाए । पित्रइ पुरञ्च सर्वं पियाइ तेणा निजेष्व ॥३३॥  
 इत्तो चीसणरुवं काऊणं लेसितं समाडता । तहविहु नियसत्तार्ते नर्वं चलिया काणगमादा मा ३३  
 तीइ सत्तेण तुठा पसन्नारुवेण अपर्णो काउ । पचणइ वर्ते तुठा जं मगामि तं पाणमेमि ॥४३॥  
 नणिया सा कणयाए जयवै जै देसि मझ परितुठा । ता तुंगं पुरमझे मणियां कुणमु पाणामें? १  
 एवं ति परणिकृष्णं विणिगया रकसी नियवर्गाणं । नीवत रक्तमीए पढमंचिय जानिमि नडाहृ २  
 इत्तो सुहप फिबुद्धा समये दइएण कणगमादा सा । पित्रइ त्रियमणाणं देवीइ विणिमिमा गचाणं ३  
 तं सुरत्रवणसरिबं ददूणं जणइ नरवैद्वतोर्ते<sup>३</sup> । कणयाइ विनिमित्तं देवीइ विणिमिमाय तचाणं ४४  
 त्रवणगवरकंमि त्रिया जिणत्रवणपैक्यं पदोयंति । कुणइ रंड रयणीए पइवियहं कणगमादा माध्यम  
 इत्तो सा सगगार्ते जिणमइ देवीइ वोहणथाए । आगंतूणं पत्तणइ कणगं रयणीइपत्रहृ ॥ ४५ ॥  
 जा कीलेहुं किसोअरि कंचणमणिरयणघफियत्तवेणेसुांतं जम्मंतर जिणत्रवणे ईत्रवाणम्मन्मक्तवमय  
 एवं सा पइदियहं पुणो पुणो पढइ वोहणथाए । सावि मणेणयं चितइ को एसो पइदिणं पहइ ४५  
 जइ पही<sup>४</sup> कोवि मुणी अइसयवरनाणीरि झिसंजुतो । ता पुत्रिसं एयं इय कणया जा विचिनेत्ते<sup>५</sup> ४६  
 ता वहुसमणसमेते समोसडो नयरउज्जाणेऽ५०

२ दद्धा । ३ नहु । ३ पसन्नारुवं च । ४ आतणो । ५ जइ । ६ पुरवरीत्वेते । ७ जंकीदासि । ८ दीवायदाष्टरम  
 ९ मणेण । १० होही । ११ मिन्दि । १२ कणयमादा जाव चित्तेइ ।

नाऊण कणगमाला उज्जाणे सुणिवारिं । चतीइ चंदणाहं संचलिया सहै नारिङ्गा ॥५७॥  
 नाऊण मुणिवारिं संत्रियं मुणिवारिं । उज्जाणे च सुणेऊण पुत्रइ नियसंसयं कणाया ॥५८॥  
 चरणवं चरणवारिं चंदइ तिपयाहिणं करेकुणं । भर्मं च साहमु अडकेतुयं मझ ॥५९  
 दृढ़ण मुणिवारिं चंदइ तिपयाहिणं करेकुणं । केण निमित्तेण चिय साहमु देवदोरोग्मि ॥६०  
 दृढ़ण को पड़निवहं महपुरउ पठइ अरुरत्तमि । जिणहिवयदाणेण दोवि गया फिनोहं ॥६१  
 दृढ़ण दोसहियार्ह जिणमइ धणसिरि पसिस्तनामाठै । जिणमइवं चंदणहं कणहं पकिनोहं ॥६२  
 दृढ़ण तर्मं जाया इत्रेव राइणो जक्का । साचिय जिणमइवं दोवि देवनिति ॥६३॥  
 दृढ़ण तर्मं जाया इत्रेव राइणो जक्का । साचिय जिणमइवं दोवि देवनिति ॥६४॥  
 तत्तो चविक्षण तर्मं जाया इत्रेव राइणो तुह सही होही । तत्तो मरितं तुहेसे डुक्किनि सिक्किमि पावेहं ॥६५॥  
 सा सगार्ह चवितं इत्रये जर्मंमि तुह सही होही । कम्मरकएणु तुहेसे डुक्किनि होही नवित्रं संदेहो ॥६६॥  
 सव्वात चवितं वयजुतं पाविकण मण्यतं । तरस्स फदं निवाणं होही नवित्रं संदेहो ॥६७॥  
 जं जिणरवणफैक्को विहिते तुहेहं इत्र जर्मंमि । तरस्स फदं जाइसरणेण नीसेसं ॥६८॥  
 एवं मुणिवणाहे पुवत्रवं अन्तेणो उषण्टीए । जायं जाइसरणं सहस्रिय कणगमाला अन्तेणो गोहंदृ ॥  
 एवं मुणिवणाहे पुवत्रवं अन्तेणो उषण्टीए । इहं मएवि नायं जाइसरणेण नीसेसं ॥६९॥  
 एवं मुणिवणाहे पुवत्रवं अन्तेणो उषण्टीए । जायं जाइसरणं सहस्रिय कणगमाला अन्तेणो गोहंदृ ॥  
 परणइ चयवं सबो पुवत्रवो मझ साहिते तुमए । इहं मएवि नायं जाइसरणेण नीसेसं ॥७०॥  
 इय तणिऊणं कणया समं पकिनजिज्ञाह तए पकिनितो जिणयमो मयसमो चहं दृ ॥  
 जिणमइदेवीइ पुणो चणिया सा जामिणीइ पर्छेक्कासाहु तए पकिनितो जिणयमें ॥७१॥  
 इहं आहंपि चवितं सायरइतरस्स सिटिणो धुया । होहासि तए तहे चोहेयवा य जिणयमस्सा ॥  
 एवंति तीए चासियं वितिगमया जिणमइ नियवणाणुज्जुइ सुरसुरकाहं कणया विय मण्यवजमस्सा ॥  
 १. पचाहिणी । २. तुहेहोहि । ३. च्छवि । ४. कम्मरकएवि । ५. पाविका । ६. नीसेसो । ७. मइ वितादविति

दीप  
मूजा.

असुह चितो समुठिउ नरवहूँ सह गियाए । पिछइ युरउ सर्पं पिचाइ तेष्ण निरेवं ॥५८॥  
 इतो जीसणहुवं काऊण चेसिउं समाहता । तहविहु नियसत्तारे नय॑ चकिया कणगमाला सा ३८  
 तीइ सत्तेण तुठा पसन्नरहवेण॑ अप्पैनो काउं । पञ्चण्ड वहै तुठा जं मगसि तं पणमेसि ॥५९॥  
 चणिया सा कणयाए चयवहूँ जं देसि मझ परितुठा । ता तुंगं पुरमझे मणिरयणं कुणसु पासायंधै  
 एवं ति पचाणितुणं चिणिगया रकसी निययगाण॑ । चीयव रकसीए पहमंचिय जामिणी नकाभृ  
 इतो सुहपकिबुद्धा समये दइप्पण कणगमाला सा । पिछइ त्रियमप्पाणं देवीइ विणिम्मिए जवणे ४३  
 तं सुरचवणसरिउँ दक्षुणं तण्डुणं नरवहैदोउ॑ । कणयादेविनिमित्तं देवीए विणिम्मियं जवणं ४४  
 जवणगवरकंमि रिया जिणजवणपट्टवयं पदोर्यंति । कुणइ रङ् रयणीए पइदियहं कणयमाला सा ४५  
 इतो सा सगारे जिणमइ देवीइ वोहणठाए । आगंतुणं पञ्चण्ड कणगं रयणीइपठेक॑ ॥ ४६ ॥  
 जा किलेसु किसोओआरि कंचणमणिरयणघनियजवणेसुतं जम्मंतरजिणजवणे दीवदाणसर्स फलमेयं  
 एवं सा पइदियहं पुणो पुणो पहड वोहणठाए । सावि मणेण्यं चितइ को एसो पइदिएं पहड धर  
 जइ एही॑ कोवि मुणी आइसयवरनारैरि निक्षसंजुतो । ता पुहिसं एयं इय कणया जा विचितेइ॒ ४८  
 ता बहुसमणसमेरे तसमागरे गणहरुनि आयरिउ । अइसयनाणसमेरे समोसदो नयरउजाण॑ ५०  
 ॥५९॥

<sup>१</sup> दद्धुया । २ नहु । ३ पसन्नरहवं च । ४ अतणो । ५ जइ । ६ पुरवरीदोउ । ७ जंकीदेसि । ८ दीवयदाणस  
 ए मणेण । १० होही । ११ मिक्कि । १२ कणयमाला जाव चितेइ ।

नारिद्वा सह नारिद्वा ॥५॥

तारुण कणगमाला उक्काणे संरिय मुणिवर्तिैः । चत्तीदं वंद्वात्रं संचलिया सह नारिद्वा ॥६॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः करेक्काणे । अरमं च सुणोक्काणे पुढृद् नियमंसय कलाया ॥७॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे करेक्काणे । चिय साहमु आडकोउयं मञ्ज ॥८॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥९॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१०॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥११॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१२॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१३॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१४॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१५॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१६॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१७॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१८॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥१९॥

दृष्ट्यु मुणिवर्तिैः वंद्वात्रं तिपाहिणे दोवि गया देनदोरांमि ॥२०॥

जिणमह देवी चवितं सायरइतस्स निठिषो भूया । सुलसाग्रुप्पदा नामेण सुदंसणा जाया ६५  
 सा पठमत्तुग्रासमाग्रायाकह विजिणहे दिठाकणग्रामादाइनाणिया सुसागर्यं मञ्जुः सहियाए ६६  
 तायं तं जिणनवायं रिसह जिण्हेदस्स संतियं पचरं । जम्मंतरनिम्मवियं कवसुवरि रयणदीवंच ६७  
 तं सोउणं वयणं सुदंसणा पासजण कणयं च । संपत्तजाइसरणा आविंगइ गुरसिणेहेण ॥ ६८ ॥  
 साहु तण् सहि सम्मं अहयं पकिवोहिया पयनेण । इय नाणिकाण्ड दुन्निवि संजाया हरिससंतुदा ६९  
 काऊण सावगतं सुर्कं तमण्णताणं च पालितं । मरिकाण समुप्पदा सबठे सुरवरा दोवि ॥ ७० ॥  
 ततो चविकण पुणो सम्मतं पालिकण सुविसुक्दं । कम्मरकएण दुन्निवि पता सिर्कु सुहसमिन्दु ७१  
 इय नाणियं सुपस्तं जिणदीवयदाण सुहफदं ऐयं । संखेवेण सर्मर्जं चवियाण विवोहणथाए ॥७२॥

( दीपव्य कहाण्यं समतं )

इति पूजाएके दीपदानोपरि पंचमं कथानकम् ।

? सुलगाया । २ उप्प । ३ एयं त जिणनवायं जम्मंतर दीवर्जवि सो चेव । अहयं सा तुह सहिया त्रुमंषि मह सा  
 तही चेव । ५ सोउणइमंवयणं । ५ समत्तगं । ६ सामत्तं । ७ पुत्रफलमेयं । ८ महवं ।

।

६ अथ नेवेयपूजायां कश्चानकम् ।

\* दोयङ् वहूतनितुर्ते नेवक्तं जो जिणिक्कन्ददाण् । उंजङ् सो चरतोण् द्वायामाण्यनाहाण् ॥?

\* दोयङ् वहूतनितुर्ते नेवक्तं जो जिणिप्रमाणेण । सो नारमुर्सिवसुकं लवद्वृं कार्मचियनन्वी ॥ २ ॥  
रेमा नामेण पुरी निवसइ चरहृस्त मङ्ग्यारंभि । जो चुरपुरिव निचं सुरक्खवाणविदृमां आज्ञिं ॥३॥

दोयङ् जो नेवक्तं जिणिपुर्ते नवनिप्रमाणेण । सो नारमुर्सिवसुकं लवद्वृं कार्मचियनन्वी ॥ ३ ॥  
रेमा नामेण पुरी निवसइ चरहृस्त मङ्ग्यारंभि । परिकसड् तज राया नामेण मूर्त्याणुनि ॥ ४ ॥  
सुरव जो अरीणं तेणां समिहृल्व दोयाणी । सीहूल्वति राया चुपमिला शीरमताण्ण ॥ ५ ॥  
यद्वा नामेण पुरी आसि पुरा तस्त राङ्णो चंसे । सीहूल्वति राया तामेण मूर्त्याणुनि ॥ ६ ॥

( अवसउण्टि निगबंतो यं निक्षिणो लोगो । अवसउण्टि मुण्टं पहण्ड मुंड्य मीमंसि ।) पानंतरं ।

पविसंतो नयरीग तड्या पवेस मानंसि महरिसीगांगोकयनियमो श्वाणां न चवइ । सीहूल्वति मुण्टं पहण्ड मुंड्य मीमंसि ॥७॥  
तह पामरे य पावो पहरइ । आराइ सामिणो देहं । तहूविहु न चवइ धरीरो प्राणाँते मंद्रगिरिव ॥८॥  
नवरनिवासी देहो कुविई दोयस्त सावराहृस्त । जायं कवलनाणं मरणंचिय तस्कणाचेव ॥९॥  
कुंतरंसि मुणिणो चोरवसगेवि विसहमाणस्त । जायं कवलनाणं सासदं पन्तो ॥१०॥  
कम्मद्वाहरित्यकं उवसमचक्रेण निवदेताणं । सो चरसुंपी महापा परमपयं सासदं ॥११॥

\* आ गाथा चीजी प्रत्यां नशी । ? नरोहतियमुरिव । २ विक्रिपिया । ३ जयइ । ४ पण्याणं । ५ वीम-  
तंण । ६ विं । ७ पहण्ड । ८ तरुकाणंचेव । ९ चीमधुण ।

नेवेच्य  
पूजा.

तह उवसगो कुरेण सुरेण नयरबोयस्स | जय सहस्रियं नयं सर्वं पि निरुद्धसंचारं १३  
 आराहितउण् विहिणा तुठेण सुरेण पत्रिण्डे राया | अन्नपएसे नयं कुण्डु तुमं होहिंही खेमं १३  
 तस्स ययाणेण एसा पुर्वि निवासिया नरिदेण | जायं च तर्ते खेमं खेमपुरी तेण विकाया ॥१४॥  
 तयरि निवासियै देवो सुन्ने रन्नमिं रितहचवणं मि | देइ न ठुडपवेसं निवसइ सो सीहलवेण १५  
 पागो कोवि॒ जुवाणो उस्सहदारिइ उक्संततो॑ | जिणहपुरउ॑ खिन्तं पद्दियहं सो हबं वहह १६  
 खेमपुरउ॑ घरिणीए आणियं सामिणो य गेहाठे॑ | चुंजइ अरसं विरसं घयतिद्विविक्कियं चातं १७  
 अन्नदिणं मि नहाठे॑ चारणसमणं समागणं दहु॑ | रिसहजिणिं थोउ॑॑ भवविटं एगदेसंमि १८  
 आणंदयाहजलचरियद्वोयणो जानिनिप्रसरीरो॑ | मुहाणं नियहबं॑ तं चंदइ॑ परम विनपण॑ १९  
 तयं निसुण्डु॑ एयं ऊवहं दहिऊण माणुसं जम्मं॑ | किं जम्माठे॑ अहयं संजाठे॑ ऊस्किठे॑ निचं २०  
 तणिउ॑ सो मुणिवइणा नह तए परजवंमि जतीए॑ दिन्वं मुणिहिं॑ न दाणं नय नेवज्जं॑ जिणिंदसस २१  
 तेण तुमं इह जम्मे कह विठु॑ संपत्तमाणुसे॑ जम्मे॑ | जाठे॑ नोगविहुणो॑ दीणो॑ ऊहिउ॑ दरिदो॑ य २२  
 सोजण इमं चयं धरणियदवनिहत्तमुत्तिमंगोय॑॑ \*चाणिउ॑ तेण मुणिदो॑ नयवं निसुणेमु॑ महवयेण॑ २३

१ सहस्रिय॑ | २ निरुद्धसंजायं॑ | ३ आराहिएण॑ | ४ होइ॑ जह॑ | ५ नयनिवासी॑ | ६ नयनिवासी॑ | ७ नयर-  
 वि॑ | ८ कोइ॑ | ९ खिते॑ | १० खेमपुरउ॑ | ११ शुष्पेउ॑ | १२ दोयणो॑ | १३ विषएण॑ | १४ जाणइय॑ जयवं नि-  
 चुणेउ॑ | १५ सुरक्षविहुणो॑ | १६ निहिय॑ उत्तमंगोण॑ | \* निकिस्मस्तकेन॑ | १७ निसुणेह॑ | १८ मेवयण॑ |

मङ्गल पृथि

विद्वन् चित्रगाहो मङ्गल पृथि  
नियजोन्मामद्वात् पिंडि दोकुण जिणवरिदःसासंपत्तमुषिवरस्स विं छत्तवम् निवारहो मङ्गल पृथि  
नियजोन्मामद्वात् पिंडि च सुदेहेण सासयमुहूचायां होहिपृथि  
तरणिठ व मुण्णिवरेण निचादालिनेषा इद्धै होयवं । जेण तुमं च सुदेहेण विहरेऽहियुतियं देसं २६  
तरणिठ व मुण्णिवरेण निचादालिनेषा इद्धै गयाएयवेण । उपट्टै विषुद्धौ गयाएयवेण कुण्डि जिणपुरठे  
श्वर रणिठण मुण्णिवे नमिठ द्विणा विषुद्धौ विषुद्धौ गयाएयवेण अंगतेनोनियमं २७  
द्वे त्रिउविद्वि पट्टै वियद्वि विरणीइस्सा एियंसि चांत्सिनियोन्मामाएियंसि चाव कवर्वते ता समर्है अत्ताणोनियमं २८  
अह अद्वया चिराउठ उडाजिकृत्यस्स आगामं चांत्सुखिकृत्यनदि जाव कवर्वते ता जायं तर्य सुणह  
उरकिकं पिडु कवर्वते त्रुकृति मुत्तै गहिय निवक्तो । जा च लिंठे जिणवराणस्स उवारे चिठ्ठै सो सीहलबेण २९  
मन्तपरिकाकामो द्वियस्स पुराहिवो सयं ढेक्को । जिणवराणस्स मादिते तवके जिणवरिदःस्स ॥३०॥  
त्रिविकं पिडु कवर्वते त्रुकृति मुत्तै गहिय निवक्तो । कह उंजिस्स मादिते तवके जिणवरिदःस्स ॥३१॥  
ता अर्के जिणपुरठे नीवियमरणं व होड़ ता होड़ । अवस्स मए दायवं तेवक्ते जिणपुरठे ॥३२॥  
त्रिविकं द्वियउचाणो जिणपुरठे पिडुकुण तं सीहं । कह उंजिस्स मादिते तवके जिणवरिदःस्स ॥३३॥  
त्य कवर्वते त्रुकृति मन्त जह वेँडि जिणवरासदे ॥३४॥ तह तह तुठो सीहो फरुनि आद्वसणीहूँ  
तनियविकुण चांत वेँडि जिणवरासदे । तह सहसा सो सीहो फरुनि आद्वसणीहूँ  
तनियविकुण निचादालिनेषा पविस्तु जा जिणपुरठे । युणरविनमिकुण तर्तु समागाठे नियवराणमि ३५  
तनियविकुण निचादालिनेषा पविस्तु जा जिणपुरठे । युणरविनमिकुण तर्तु समागाठे समागाठे समागाठे ३६  
द्विक्यूमन तम्म पाने नवनिनिवासी युणोवि सो ढेक्को । पत्तो नोयणसमए समागाठे समागाठे ३७  
द्विक्यूमन तम्म पाने नवनिनिवासी युणोवि सो ढेक्को । ९ शोवं । ८ सुमरै । ९ नेवको ।

६ हियरुद्धिए देसे । १ उपनरं । ५ युक्तें । ३ राह । ७ चित्रवद्वि । १४ उद्दृढो ।  
१५ । २६ । ३७ । ५८ । २८ । १३ । २७ । १३ । १४ । २८ । १२ । ११ । १० । ११ । १० । १० । १० । १० ।

नैवेच्य  
पूजा.

उरुकराइ जाव कवलं ता दिठो मुणिवरो य सो गुरडे। संगहियं जं जनं तुटेण तस्स तं दिक्षं ॥३७॥  
 अगरं च गदेकूणं पुणरवि जा चुंजिकण माड्हतो। ता आन्नो विहु समागडे शिविरहवेण३८  
 तस्सवि जं संगहियं तं दाऊं चुंजिजण माड्हतो। ता आन्नोवि य सहसा समागडे खुड्हगो समणो ३९  
 जा नीसेसं जनं जनीए तस्स देउमाड्हतो। ता पचास्कीहोऊं पञ्चण्ड तं देवरहवेण ॥ ४० ॥  
 नोजो परितुठोहं जिणवरधम्मंभि सुखबुद्धीएँ। पञ्चण्णसु जं मणिईं तं तुह सर्वं पणमेमि॥४१॥  
 जद् देव हेसि तुठो मझ वरं ज्ञण्ड सो हदी तुठो। ता दारिहैतमोहं पहणसु मह अब्बसुरेण ॥४२॥  
 एवं हवउनि सुरे चणिकण विणिगाएँ नियथगाएँ। तेणवि सुरुतुंतो दद्ध्याएँ साहिते सबो ॥४३॥  
 तीणविहु सो चणिठे धन्नो तं जस्स जिणमए जनी। जद् जनीए तुठो देवोविहु तुह वरं देइ ॥४४॥  
 अणमोयणंपि<sup>१</sup> तीए चावविसुर्दीइ अजियं पुन्नां। अणमोयणयावि जउ<sup>२</sup> जीवो चवपंजरं दद्वश्वर  
 इनो रेमपुरीए धुआ सिरिसूरसेणरवडणो। विन्हसिरी नामेण विलहसिरीचेव पच्चरका॥४५॥  
 तीए गुणालुवं वरमलहंतो नरेसरो नैवं। सवेवि<sup>३</sup> क्रूमिपाले मेलिन्तु संयवरं कुण्ड ॥ ४६ ॥  
 वियर्हं परमसंचे तीए नयरीइवाहिरुक्ताणे। कंचणमणिसोचाणे देवविमाणव रमणीए ॥ ४७ ॥

? गहिजण । २ तुंजिउं समाड्हतो । ३ शेररहवेण । ४ जाव चुंजए अवरं । ५ खुड्हगो । ६ दाजमाड्हतो ।  
 ७ उप्रजचीए । ८ देवो । ९ दालिह । १० विणिगडे । ११ अणुमोअणाइ । १२ अणुमोचणाइ जहा ।  
 १३ नैव । १४ दृष्टिह । १५ मेवेचि । १६ विरपवि ।

कर्यनिंगाग सदै आरहा तेसु परममंचेसु । रेहंति वृसिपाला अमुख लिया विमाणम् ॥५७॥  
 नियनामगयवत्ता सियवत्तिवेचाणाहरणमोहा । निकृक्षवसरोक्ते इव सा कन्दा गयहंसीव ॥५८॥  
 नरवड्ड्या पुरजे वज्रियपठुपहसंखसहाद्यो । उच्छवद् तरस्मद्दो दुर्ते इव मुखराहवाम् ॥५९॥  
 सोऊण तरसदं कोऽक्षहवमाणसो स मण्यतो । हृषिते हृषमाळहो जोणइ मयंवरं तुठो ॥६०॥  
 पृष्ठिहरिइ कमणं कहिए सबेवि पहिचे मुरुं । कयसुरसंनिष्टाण कवाण हृषिते वरिते ॥६१॥  
 जणणी जणउ तह चंथवाय कवाणहृषिता वरिता । वज्ज्ञेण ताकिया इव वज्ज्ञाइ अहोमुहा जाया ॥६२॥  
 लंपंति इक्किंक सविकरका पवित्रा सकेवा य । मुरुण पवित्रवरं कवाण हृषिते वरिते ॥६३॥  
 किं कुणहगहगहिया मूहा चा हुँका नाविचा एसा । जा पवित्रे पमुं हीणंपिड्ह हा लियं वरिते  
 ते मूरसेणामुहा सबेवि य पविचा य जंपंति<sup>१</sup> । जहृ हृषिते वरिते कीमपु  
 तहा हृषिणा सहियं गयं हणितण कवाण लेहृ<sup>२</sup> । किज्जाउ संयंवर्येण मणाढ्ठं कर्त्तव्य चरन्ता  
 परणोइ चंद्रसीहो वरिते पण्याइ मूहड्ठनीण । नहु पितणो वयोणं तहा पेसहुमो इव ॥६४॥  
 तस्म वयोणा दुर्ते पठिते मूरसेणनरचडणा । गंतपु पदितियतो पक्षिक्यां साहग तार्हि ॥६५॥

१. तेवि । २. पवरमंचेयु । ३. नियकपलसरे रेहड । ४. संकेयए । ५. संकेयए । ६. कक्षाइ । ७. कक्षाइ ।  
 ८. दोक्का । ९. मूरसेणस कुविया । १०. पयंति । ११. हृषिते विहु । १२. मैतड । १३. तेमो । १४. मयंवरो पुण ।  
 १५. कवाणा । १६. वेमिज्जाउ । १७. दुर्ते । १८. तेण ।



निंदइ अरिकरिकुन्ने हवागा तिकंकुसेण सो धीरो । पहाणेइ तुरयवहै चूरेइय रहवरेइको ॥१७३॥  
 वदाइपमुहवहंते मुहडे सबै वि अनिमुहान किए । तामइ हवी हदेण दुयवहजालै मुयेण ॥१७४॥  
 ते चंकसीह पमुह सबै क्रिय पहिचा विचिन्तति । अहविषासो गँसो कोवि कयंतुव उठरिउ” ग्र५  
 पतराणेइ चंकसीहो कोवि मुरो गँस कोविउ हुज्जा । ता गंतूण श्वल उवरामिङ्गुज पणामेण ॥१७५॥  
 गंवंति पत्रणिकुण्ठं सरणं सरणं तेहि चाणमाणा । गंतूण चवाणज्जुपदं नीया पणामंति ते तस्स पु  
 जाणाई जाणाउ तहवं चवाय कवाइ परियाणे सब्बो । सयणावियं परितुदा दहुण जिन्हिं” तस्स प्र८  
 गारको चीर्हाहो कंताप सुरसेणनरवइणा । परिणीया सा कज्जा ह लिवइणा पत्रिवसमरकं ॥१७०॥  
 विहिउ तस्सनितिसे ते नारिदृपदं मि नरवरिउहिं । चणिउ”<sup>१२</sup> आजाप्पलिइंसामी अहं तुमं चेव ॥१७१॥  
 चाणाप्पा य सबै अदयपयाणेण पत्रिवा तेण । तस्सवि ससुरेण तहे सबैवि विसज्जिया सिग्यां॥१७२॥  
 नारिउ चुरेण सिग्याय सबै अदयपयाणेण ह दिउ तुझ निद्विय । अहन्वियै जं मणामि उर्  
 ग्र नारिउ चुरेण सिग्याय ह दिउ तुझ निद्विय । सा चसउ मञ्ज नयरी सविसेसा तुह पसाएण उर्  
 ग्र नारिउ ता युवि कुर्दैर्त्त उचासिया ताए नयरी । सा चसउ मञ्ज नयरी सविसेसा तुह पसाएण उर्

ग्र । ६ भणामेमि । ७ उष । ८ सग-  
 ? रहयराहडहो । २ दुयवहजालै । ३ पुह्डा । ४ अवयरिउ । ५ पणामेमि ।  
 चो । ७ मचाविय । १० विचित्रिय । ११ चणाहो । १२ चणिउ । १३ अन्वचिय । १४ कुविएण ।  
 ?५ इविउ ।

नेवेग  
मुगा।

—  
—  
—

10. The following table gives the number of cases of smallpox reported in each State during the year 1802.

॥३॥

महावीर द्वारा लिखी गई यह शब्दों की संख्या १५४ है।

卷之三

मह एवं सुररिद्धि ॥४३॥

तेषोसा संजाया विजवा मह एवं सुररिद्धि ॥४३॥  
नं जस्मंतर निवं नेवक्ता जिणवरस्त नतीप । तेषोसा संजाया पात्रिया एसाऽश्विन्ह मए महायस तुम्बं पिता कुणासु जिणाथसं  
तुङ्ग पसाणाणं चिय जिणवरयस्मात् पात्रिया एसाऽश्विन्ह मझ उर्जे पुणोवि अद्वंसाणी होइण  
विक्षियमणो विनिंतद् कुमुयनारिदोवि एस को निच्छिपडिऊण मझ सुरविसाणं मिं ॥२०२  
अह अदविणे चणिठे कोसि तुम्बं निच्छेवत महपुरठापडिऊण पुणो वचसि साहमुक्त्रकोउञ्चमझ  
तलिउं सोवि सुरेण सोहं तुहं पुवनम्भ जणउठनि । जिणनेवक्ताफलेण संजाठे सुरविसाणं मिं ॥२०३  
युगारवि नेह निच्छेवत समाराठे तुहं ताय चोहिउं अह्यं । अज्ञापनिडि सरणं मझवि जिणदे सिउं अस्मो  
तलिउं सोवि सुरेण सोहं तुहं पुवनम्भ जणउठनि । तम्हा तुम्बं पिता कुणासु ॥२०४॥  
जिणनेवक्ताफलेण सोही डेक्को । संपतो सुरलोए चुंजड हिय इडियसुहाँ ॥२०५॥  
परिक्तोहि त्राण पुतं जिणवरयस्मेण सो हली डेक्को । संपतो सासवं गाण ॥२०६॥  
जिणनेवक्ताफलेण सोही डेक्को । संपतो सुरलोए चुंजड हिय इडियसुहाँ ॥२०७॥  
जिणनेवक्ताफलेण सुरनासुरकां अणुहवेक्ताए । होउ सथा सिवसुकं नेवक्ते  
जिणनेवक्ताफलेण सुरनासुरकां अणुहवेक्ताए । होउ सथा पांतरम् ।  
जिणनेवक्ताफलेण सुरनासुरकां अणुहवेक्ताए । होउ सथा जिणाथसं उज्जमंताण ॥ २०८ ॥ पांतरम् ।  
( होउ सथा जिणाथसं उज्जमंत )

इति प्रजापांक नेवक्ता प्रजाया: पष्ट कश्चानकम् ।  
पासु । २ अद्विन्द । ३ जिणवरयस्मंमि ।

फल  
पूजा।

अथ फलपूजाया कृत्तानकम् ।

निष्ठावाहनं दोषह गरीगं जो निष्ठिदस्त । जम्मंतरेवि सहदा जायंति मणोरहा तस्मा ॥१॥  
 ( निष्ठावाह दोषह गरीगं निष्ठिदंचंदाणं ) पावांतरम् ।  
 निष्ठावाहनापात्ते पानिकाइ प्रमरिद्धि संचुन्ते । जह कीरमिहुणोर्ण दरिदनारीइ सहिष्णु ॥२॥

तंत्रह-

गतिय हितानवणाए मुरापुरि सरिसाइ कंचणपुरी पात्रर जिणनवणडुवारे निवसइ साहारचूयंमिई  
 तापुरायह अत्यरिचं सुधउपरं पथद्वाहगं एगं । तबवि जिणिदववेणे जायंमि महूसवे परमे ॥३॥  
 नवानुदत्तताहो नपरीदोण्ण सह जिणिदस्ते । सुंदरफलेहि पूयं कुणइ जिणिदस्स जातीए ॥४॥  
 नगा उरिवनारी पांगिह वरफदं जिणिदस्त । दाऊणं असमढा तत्र पुरे डुरिक्या वसइ ॥५॥  
 निष्ठइ क्लियहिचया धन्नो जो जिणवरस्स पइडियहंडोओइ पवरफलाइ नाहं एगस्सवि समडा  
 गहं निष्ठितंतंती जिणपुरडे चूयपायवाहुडं । पिच्छइ तं सुयत्तुयदं चक्कतं पायवफलाइ ॥६॥  
 नलिउ नो नीइ सुर्ज तुमं जिवसु अंवां मझ । जणिया किं कुणसि तुमं ढोइसं जिणवरिदस्त ॥  
 नलिया उपण नाहु जिणवरदाणेण होइ जं पुनं । जेण पयवामि आहं तुहु पुरजे अंवां एगं ॥७॥  
 १. निष्ठावाहन २. निष्ठाव ३. जयमुंदर । ४. तत्र आंगतु । ५. सो । ६. अंवांगकवाह ।

मायं तिर्णते विस्फुलो जायंति मणोरहा तस्मै ॥२॥

मीरा तरिणं चरन् करवां दोयाग जिणिङ्द्रस्म। जम्मंते विस्फुलो जायंति मणोरहा तस्मै ॥२॥  
(वरतकवरः करवां देवद जो जिणवरस्म लक्ष्मी) पांचांतरं ।

इन स्तों युरमुहूं करमलाउ तिगयं वराण्याता शिवसु मझ अंच लेण याहा मि जिणपुरठे  
तलिठे मो मुड़ग नाहूं पवत्रामि अंचवामि । अम्ब्हे विय होएमो जिणपुरठे अंचवाकलाइ ॥२३॥  
इय तरिणं मुन्यमिहुलां तुठां चन्तुसंतुडे भरिठे । उविठे जिणिङ्द्रपुरठे चूयफलं होइ फलं होउ तं मझ्हे ॥  
उव तरिणं परिक्तन नीडे मयासंमि अंचवां पांगासाविय गहिठे डोयदृ जिणिङ्द्रपुरठे तुहफलदाणे होइ फलं पुक्केण ॥  
कंलावि मुन्यमिहुलां तुठां चन्तुसंतुडे भरिठे । उववंता सुरखोए जिणिङ्द्रफलदाणे पुक्केण ॥२४॥  
पताळाउ तं मुग चुयवर्तन चाणिमो नाहूं तुहूं काऊंजे जिण तुहफलदाणे पुक्केण ॥२५॥  
आउलकंयं मरिठे चुयवर्तनपरिण । जिमुख्यमिहुलाउ । सुरतराहिवपुतो रंतो डेविडीं गांभंमि ॥२६॥  
आंकियं चुडे मरिठे चुयवर्तन गवा । चंडे साहमु महू दोहल सहुवं ॥२७॥  
माकियं चुडे मरिठे चुयवर्तन गवा । चंडे साहमु महू आउवाए ॥२८॥  
गपंत नंम चुगा । उववर्तन उम्भ अंचवाक्येसु । सो कहू प्रे अवो नाहूं ताए महू अनिचेट ॥२९॥  
पताळाउ चामि अगांवे ढोइकरठे निगांवे ववां । निना चुरक्यसमुहूं करकनि पनिठे निचितेट ॥३०॥  
उव चाऊंग गवा इडवामुहूं कुहू निगांवे ववां । अपुल पुणा गसा मराइ धुवं नति संडेहो ॥३१॥  
कर लगा मोहकरठे प्रेववा माग अगांवे निंग । ५ रंतोहिडी ।

१ चिणां । २ नीरा । ३ नीरा । ४ अद्व । ५ अद्व । ६ मरिकां । ७ मरिकां ।

फल  
पूजा.

इतो उग्रयनारी देवो जाणेऽ अवहिविसए । जो<sup>२</sup> सो उग्रस्त जीवो रब्बो<sup>३</sup> गर्यंमि उववद्वो ॥३  
 जेण कर्ते भवयारो पुवचवे मञ्च फवपयाषेण । ता गंतृण अहं पिहु पुरेमि मणोरहे तस्स ॥२४ ॥  
 पुवचप्रासार्ते अहिलासो तस्स अंवगफलेसु । तस्स वसेण अंवाण अंवाए शोहलोचेव ॥२५ ॥  
 ता सड्वाहवेसण चुह्वां अंवगाणजरिकाण । ठोएमि तीइ पुरउ डुरकसमुहाउ उत्तरण ॥२६ ॥  
 एवं विचिंतिकाण सो देवो सड्वाहवेसेण । अंवगजरियं चुह्वं ठोयहु अह तस्स नरवइणो ॥२७ ॥  
 नरवइ रवागप्ते पुत्रो परिवसइ तस्स पुत्रेहि । इहवि पत्ताइ मए चणिकण अंदंसणीहूर्ते ॥२८ ॥  
 आणं दियहियएण विजायं राइणा जहा एसो । जम्मंतपकिवद्वो कोवि सुरो हुक्का पुत्तस्स ॥२९ ॥  
 देवविणिम्मय अंवगफलेहि संपुन्न नोहला देवी । रंना सुउ पस्तुउ सुवरकणो सुरकुमारव ॥३१ ॥  
 ( रंना सुयं पस्त्या सखरकाणं सुरकुमारं व ) पावांतरम् ।

वद्वाचाणं नरिदो परितुदो कुणइ पुत्तजम्मंमि । जिण गुरुयणेमु पूया दाणं चिय देइ दीणेसु॥३२ ॥  
 पत्ते सुहनरकत्ते पस्त्यवारंमि सुरुक्तम दियहे । फलसारन्ति गुलाहं नामं च पइठियं तस्स ॥३३ ॥  
 सोहगरुवकलिते उवाणदाइङ्कं कंतिपकिपुन्नो । तं ददृण अणंगो गवं तो वहइ रुवस्स ॥३४ ॥

<sup>२</sup> जह । <sup>३</sup> रवा । <sup>३</sup> डोहदो तारिसो चेव । <sup>४</sup> होएइ । <sup>५</sup> नाणिय । <sup>६</sup> जणेमु । <sup>७</sup> पूर्ण । <sup>८</sup> सुपस्त्वे वास-  
 रंमि सुपविते । <sup>९</sup> ओयणदायन्न ।

सुकर्यं ३५

तिसामेहुं तुमं पुवनवे जं कयं सुकर्यं ॥ ३६ ॥

कुमर तिसामेहुं तुमं पुवनवे जं कयं सुकर्यं ॥ ३६ ॥  
अह सो छुगयदेवो पत्रणाऽच्यणीऽप्तिमे जाने। कुमर संपत्तं माणयन्तं उत्तमं पर्यं ॥ ३६ ॥ पार्वतं  
नं निंवं जिणपुरउ चूयफलं सह पियाऽसुपत्तंमे। तेण तए संपत्तं माणयन्तं उत्तमं पर्यं ॥ ३६ ॥ पार्वतं  
नं निंवं जिणपुरउ चूयफलं तस्स कलं तुहं निरी एसा ॥ ३६ ॥ पार्वतं  
कीरजवे जा चक्का जिणिङ्दन्दस्स फलपथयालेण। मरिजुण समुप्पदा रायपुरे राइणो खुमारइणा।  
जं निंवं मङ्ग फलं पूर्वं तुमए जाहासो फलदाणेण मए पुरिठे तुक्ष जाणणीए ॥ ३७ ॥  
जं निंवं मङ्ग फलं पूर्वं तुमए जाहासो फलदाणेण संयंवरो तोए ॥ ३७ ॥  
जा तुहं सुपत्रवत्तज्जा सा संपद् समरकेत्तणो ध्या। नरवड्णो रायपुरे वड्डियं संयंवरे तोए कत्ताए ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण नियन्त्येवक्कासु तुमं महायस संयंवरे तोए कत्ताए ॥ ३८ ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण नियन्त्येवक्कासु तुमं महायस संयंवरे तोहिं नजित्र संदेहोधर  
चिन्तप्रक्रियाऽलिहिं सुयमिहुं तियजाइजायसंतोसा। तुहं उत्तरि चरमालं खिवही नजित्र संदेहोधर  
ज्ञान तरणिकण समरियैत्यजाइजायसंतोसा। कुमरेणवि पक्किवंते संपत्तो नियवताणंमि ॥ ३९ ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण नियन्त्येवक्कासु तुमं महायस संयंवरे तोहिं नजित्र संदेहोधर  
ज्ञान तरणिकण समरियैत्यजाइजायसंतोसा। कुमरेणवि पक्किवंते संपत्तो नियवताणंमि ॥ ३९ ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण य पुवत्तमसंवंचं। कुमराचिंधो संयंवरे गयकवाए ॥ ४० ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण य पुवत्तमसंवंचं। किठो सो मुयाचिंधो संयंवरे गयकवाए ॥ ४० ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण य पुवत्तमसंवंचं। सो कोरो इह कुमरो अहयं निय सा मुहुं चेव ॥ ४० ॥  
जा तुहं सुपत्रमिहुं गविकण य पुवत्तमसंवंचं। निय सा मुहुं चेव ॥ ४० ॥  
कुमरोनिय संपत्तो संयंवरे तोइ चंद्रदेहाए। सो कोरो इह कुमरो अहयं निय सा मुहुं चेव ॥ ४० ॥  
तं दंतु सुपत्रमिहुं जाइसरणं विचित्रितं तीए। सो कोरो इह कुमरो अहयं निय सा मुहुं चेव ॥ ४० ॥  
तं दंतु सुपत्रमिहुं जाइसरणं विचित्रितं तीए। सो कोरो इह कुमरो अहयं निय सा मुहुं चेव ॥ ४० ॥  
ताय अहं पुवनवे कीरी कीरो य एस कुमरति। जिणफलदाणेण युणो दोहिं विमणं भुयता।  
ताय अहं पुवनवे कीरी कीरो य एस कुमरति। जिणफलदाणेण युणो दोहिं विमणं भुयता।

निमामेह । २ ताए । ३ कर्मां । ५ जोगायन्निविष्ट । ५ लिहिकण । दसुपरिय । प्रजायं सरिकण ।



मंजरि तस्मा॥

दुग्धे वो करइ करे मंजरि तस्मा॥ ६४॥

जा चिठ्ठे<sup>१</sup> सो<sup>२</sup> कुमरो दुङ्गा पुरुषक उल्कियं सरीरे । तासो छुगायें द्वे वो<sup>३</sup> करइ तस्मा॥ ६५॥  
आवदोयइ तं कुमरं<sup>४</sup> ता पिच्छइ सीहरु वेण् ॥ ६५॥  
जा चिठ्ठे<sup>१</sup> सो<sup>२</sup> कुमरो होठं । आवदोयइ तं कुमरं परिक्षियं सरहरु वेण् ॥ ६५॥  
आवाए जाव । ता पिच्छइ तं कुमरं परिक्षियं सरहरु विहिद्य  
मुन्हाण विक्कारुचं कुरुरु वेण् आवाए जाव । ता पिच्छइ तं कुमरं परिक्षिया नयरिद्य  
मुन्हाण करिरुचं मयारिलवेण् सो तण्ड<sup>५</sup> कुमरं<sup>६</sup> तुमं मझ पुरं<sup>७</sup> सुरपुरसरितं दृ  
संहिरिकाणं मायां परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष । जड़ एवं कुणासु तुमं मझ पुरं<sup>७</sup> सुरपुरसरितं दृ  
पताणमु जे मण्डनं परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष । निम्मइयो देवेणं सुरगवाणी<sup>८</sup> ॥ ६६॥  
संहिरिकाणं पतलिकाणं कंचणमणिरण्ण रुद्धपायारा । परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष ॥ ६६॥  
सांक्षिति पतलिकाणं कंचणमणिरण्ण रुद्धपायारा । काङ्कणं संपतो सो देवो अन्तणो गणो<sup>९</sup> ॥ ६७॥  
सांक्षिति पतलिकाणं कंचणमणिरण्ण रुद्धपायारा । परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष ॥ ६७॥  
सांक्षिति कुमरस युणवावं च तं दृश्य । परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष ॥ ६८॥  
सांक्षिति कुमराकर तयरि दृश्य पुणवावं च तं दृश्य । निकंतो द्वायजसो सकुरसव सईए<sup>१०</sup> ॥  
सांक्षिति य तं नयरि दृश्य पुणवावं च तं दृश्य । सिंचिकणं तं कुमरं परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष ॥ ६९॥  
कुमरानि य तं नयरि दृश्य हि सिंचिकणं तं कुमरं परितुठो देमि अज्ञ तं हुक्ष ॥ ७०॥  
सो मरो निहु गया रक्को अहि समिक्षेहाकु त्रिसंकृते<sup>११</sup> । नासेण चंदसारो संपतो द्युवाणं रम्मं ॥ ७१॥  
कंचणापुरं मि नयरे कलसार तिवस चंदवेहाए । सहियस जंति दियहा सुहेण सकुरसव सईए<sup>१२</sup> ॥  
कारवरकुमुगाणं<sup>१३</sup> युनो फलसार तराहिवस संजाई । नासेण चंदसारो संपतो द्युवाणं रम्मं ॥ ७२॥  
कारवरकुमुगाणं<sup>१४</sup> चंदुव कद्याकरायावरियरिते । उम्मुक्तवादत्तावो संपतो द्युवाणं रम्मं ॥ ७२॥  
चंद्यवकुमुगाणं<sup>१५</sup> युनो फलसार तराहिवस संजाई । उम्मुक्तवादत्तावो संपतो द्युवाणं रम्मं ॥ ७२॥  
कारवरकुमुगाणं<sup>१६</sup> युनो फलसार तराहिवस संजाई । उम्मुक्तवादत्तावो संपतो द्युवाणं रम्मं ॥ ७२॥

१. पिच्छइ । २. ता । ३. दुग्धिय । ४. आवदोयइ । ५. आग्रा वीजी प्रतमां नशी । ६. जण्ण सोसुरो-  
कुमान । ७. युनो । ८. परर । ९. निम्मविचा । १०. वरकवण । ११. नियपटु ओमेषु ।  
१२. तोसेण । १३. नियपटु ओमेषु । १४. अदिगंभीनकृता । १५. गाशा वीजी प्रतमां नशी । १६. नियपटु ओमेषु ।  
१७. नियपटु । १८. नियपटु । १९. नियपटु । २०. नियपटु । २१. नियपटु । २२. नियपटु ।

इय चणिजकाणं तीए जम्मंतरजणिय नेहन कियाए । सहस चिय वरमादा पस्किवियो कुमरकंरभंमि ॥  
दिनो साहुकारो नारिदमझ्यंमि सबलोपण । अणुरुवो एस वरो वरिई कुमरिई कुमरन्ति॒ ॥ ४७ ॥  
कुमरकुमरीणसुलं अद्वृत् समागमंमि संजायं । तं नूण्<sup>x</sup> सुरलोप देवाणवि उद्धवं चेव ॥ ५८ ॥  
अद्वेनह निप्रराणं उन्हं पिहु गुरुपमोय उच्चाणं । विं पाणिगहणं सवाणरिदाणपञ्चरं ॥ ५९ ॥  
ससिलेहाए पितणा वरवर्डनिप्रस्तेणिविहेहि॑ । सम्माणिऊण विहिणा विसज्जिठे नरवर्डलोर्डे॑ ॥  
फलवत्सरोवि य कुमरो सहिठ॑ दइयाइ नियसमुरेण । सम्माणिऊण मुक्तो संपत्तो अन्तरणो नयरो ॥ ५३ ॥  
तीए सह विसयसुहं अणुरुवमाणस्स तस्स कुमरस्स । वच्चन्ति बड्डराविहु दियहव सुहावगाहस्सप्त  
नं जं माणंमि चिंतइ सुहदं सर्वंपि होइ तं तस्स । पुव्वर्जवंतरविरश्य जिणफलपूयाणुजावेण ॥ ५५ ॥  
अह अन्नदिणे इदो जंपइ देवाण मञ्चयारंभि । फलवत्सरस्स य सहदं संपज्जाइ चिंतियमणस्स ॥ ५६ ॥

( फलवत्सरस्स सुरस्सवि संपज्जाइ चिंतयं मणसा ) पाठांतरं ।

तरु य कोवि सुरो “विहु सुरवर्डवयं असहेहेण । विसहरलवं काउं फसइ जाई॑ कुमरस्स ॥ ५७ ॥  
तं दद्धृणं नरवर्डलोर्डे अहियं” समाजलो जाई॑ । वाहरइ मंतकुसदे गारन्ति॑ मंतजुनेय ॥ ५८ ॥  
वहुविह विक्कासपहि विविहेसु य मंततंत जोएसुतह विहु जियरहिया विहु निक्किठा चिठ्ठए जाव  
ता पुणरवि सो देवो सुविक्कालवेण चण्णइ आणगतुएरुकमंजरीएहि॑ कुमर तुह जीवए लक्काई॑  
? पस्कित्ता । २ कुमरन्ति॑ । ३ अन्नदिणे । ४ गंतूणं । ५ तडेगो कोविमुरो । ६ सुरजंको । ७ सबो॑ । ८ विहियेसुय । ९ इव ।

मंजरि तस्मा॥

ता सो उगमदेवो करइ के मंजरि तस्मा॥  
जा चिठ्ठः सो<sup>२</sup> कुमरो दृढ़ा गुरुडुर्क छुकिय सरीरो । ता पिच्छ शीहलवेण ॥ ६२ ॥  
चिठ्ठः सो<sup>२</sup> कुमरं तुमरो दैयो देउ । अवदोयइ तं कुमरं परिद्धिं सरहलवेण ॥ ६३ ॥  
मुरुण विज्ञारुवं कुन्जारुवेण सो मुरो होउ । ता पिच्छ तं कुमरं परिद्धिं तह संजाते तुमं नद्वाद्य  
मुरुण करिरुवं मया रिलवेण आवाप जाव । ता पिच्छ तं कुमरं परिद्धिं तह संजाते तुमं नद्वाद्य  
मुरुणं करिरुवं मायां परितुठो सो जाणइ कुमरं तं । जह सुरवडणा जाणिउ तह संजाते तुमं मञ्जु पुरुसरिठं दृप  
संहरिकाणं मायां देउ । जह सुरवडणा जाणिउ तह संजाते तुमं मञ्जु पुरुसरिठं दृप  
पत्रणासु जं मणइठं परितुठो देउ । निमझाइयो देवेण सुरवडणां विश्विमा नमरिद्व  
पत्रणासु कंचणामणिरणण रथ्यपायारा । निमझाइयो देवेण सुरवडणां विश्विमा नमरिद्व  
पत्रणासु कंचणामणिरणण रथ्यपायारा । निमझाइयो देवेण सुरवडणां विश्विमा नमरिद्व  
पत्रणासु कंचणामणिरणण रथ्यपायारा । निमझाइयो देवेण सुरवडणां विश्विमा नमरिद्व  
पत्रणासु कंचणामणिरणण रथ्यपायारा । निमझाइयो देवेण सुरवडणां विश्विमा नमरिद्व  
साथंकारं नयरि कुमरसपुणवर्वं च तं दृढ़ये । परिवहिय संतोसो<sup>२</sup> न माइ अंगेसु नियमेसु<sup>३</sup> ॥  
साथंकारं नयरि कुमरसपुणवर्वं च तं दृढ़ये । परिवहिय संतोसो<sup>२</sup> न माइ अंगेसु नियमेसु<sup>३</sup> ॥  
कुमरोवि य तं नयरि कुमरं पुणवर्वं च तं दृढ़ये । परिवहिय संतोसो<sup>२</sup> न माइ अंगेसु नियमेसु<sup>३</sup> ॥  
सो मुरो विडु राया रजो अहि स्तिचिकणं तं कुमरं । सहियस्स जंति दियहा युहेण सकमरनव संहिएण  
कंचणापुरुभिं नयेर कवसारनित्रिस्स चंद्रदेहाए । सहियस्स जंति दियहा युहेण सकमरनव संहिएण  
कालकमं<sup>५</sup> पुनो फलसार नराहिवस्स संजाते । नामेण चंद्रसारो संपत्तो ऊवां रम्भं ॥ ६४ ॥  
चंधवकुमुयाणान्दो चंठव कलाकलावरपरियरिठे । उमसुकवालरावो संपत्तो ऊवां रम्भं ॥ ६५ ॥  
? पिच्छ । २. ता । ३. उभिमय । ४. अवदोयइ जाकुमरो । ५. आ गाया चीजी प्रतमां नक्षी । ६. चण्ड. सोसुरो-  
कुमरं । ७. मुरि । ८. पत्र । ९. निमविया । १०. चरक्तवण । ११. अताण गाण । १२. तोसेण । १३. नियपतु अंगेसु ।  
... अनिमचिकण । १५. संचंवर । १६. कालकमं ।

फल  
पूजा.

अद्य । सो फलसारनरिदो दद्यास हिते विसुक्लजन्तीए । जिणफलपूयाकरणे समुक्तउँ निच्छकादंभिं<sup>३</sup> उ३  
उम्मुक्त उवाणो सो<sup>४</sup> रक्कं दाऊण चंदपुतस्सै । दद्याइसमं धीरो निर्कंतो जिणवरपर्यंभि<sup>५</sup> ॥ ३४ ॥  
उगतवं काऊणं दद्यास हित्रो विसुक्लपरिणामो । मरिज्जुण समुपद्वां सत्तमकपालए देवोउ५  
उगयदेवोवि चुउ<sup>६</sup> समयं चक्राइ सत्तमे जम्मे । सिद्धिस्सइ सो धीरो जिणफलपूया पथाणेण  
इय जिणवरफलपूया चणिया सबोवगारिणी एसा । संखेवेण महडा सुपसडा होउ जवमहपीपु

इति फलपूजायां सत्तमं कथानकम् ।

? समुक्तउँ । २ निच्छकादंभिं । ३ उवाणस । ४ चंदसारसस । ५ जिणवरमयंभि । ६ उगयदेवेण समाप्तजावेण ।

## ८ कदवशपूजायां कथानकम् ।

डोयैऽ जो जलत्रित्यं कदवसं जनीइ वीयराणां । पावइ सो कद्वाणं जह पतं विष्पृथाए ॥१॥  
 अ विड जरहवासे मुपसिंदु सुरपुरं रमणीयं । वंचपुरं नमेण विष्पसहस्रोहि परिकदियं ॥२॥  
 तत्रविचतउवेचविक विष्पो परिकसइ सोमिदो नामा सोमा य तस्स तज्ज्ञा पुतोविहु जद्वक्कोन्ति ३  
 निम्मदवंसविमुक्ता अम्मंभि समुक्तायां पिया तस्स । सोमस्त्री नमेण सुविष्णीया ससुरवग्गस्स ४  
 अह सो सोमिलविष्पो पंचनं विहित्वेण संपतो । पुतेण यं पारंकु मय किंचं तस्स जणयस्स ५॥  
 तणिया सा सोमस्त्री सोमाए सासुयाइ सप्पणये । चारसि द्वाणनिभित्त ससुरस्स जल समाणेहिद्  
 उय सासुयाइ नणिया ब्रह्मय विच्छृण निगया ऊदयं । जलसंपद्वं घरयं समागया जिणहरासन्नो ॥७  
 ता निमुणाइ जलत्रित्यं ढोएइ यन्त्रं जिणचारिदर्श । सो पावइ सुपसहं परमपयं चावसुन्दीप ॥८॥  
 चरकारित्रित्य वद गगरीउ ढोअंति जे जिणिदस्स । ते निम्मदलताणयथरा धरंति सुगईप अप्पाणं  
 उय या सोऊण इमं सुर्णिदमुइकमद निगयं वयणं । ढोयइ तंचिय धरनयं जलत्रित्यं जिणवरिदस्स  
 मामिय मुडमणाहं जाणामि न तुल्संसञ्चंवं काउं । तं होउ मञ्ज पुतं हुह जलधरयस्स दाणेण॑१२  
 नेसमदिक्काविं गंतुं गंतुं नं सासुयाइ परिकहियं । जह तुह मुनहाइ घको गंतुं दिन्नो जिणिदस्स १२  
 ? होयउ । २ परिकिं । ३ पुतोविच । ४ जवत्रुक्तिः । ५ समुक्त्या । ६ वि । ७ जाजवसंपुत्रघासा । ८ घडय  
 होयउ गो जिणिदम्म । ९ नंत्रन् । १० जवत्रुपयाणेषु ।

सोक्षण इमं वयणं कोहेण हुयवहर्वे पजलिया । पञ्चण्ड ताँ जिणपुरठे देइ घर्न किं न सीसंमि १३  
 पञ्चण्ड पुणोनि रुठा नहु पविस्सइ महघरं मि सा ठुठापरिग हियदाउठवह गाचिठ इसाघर ठुचारडा  
 पविसंती नियगेहे निचारिया सामुयाइ सामुन्हा । मा पविसमु घरुरहिया अज्ञा घरे मझ तं पावो ॥

( मा पविसमु महगोहे घडरहिया अज्ञा तं पावि ) पांगतं ।

तय पूळयार्ये पियरो अज्ञा विन हुआसणोयतप्पविठे । नय दिव्वंविपपाण वि कह दिक्को जिणहरेघरुठे  
 गंतूणं रोबंती<sup>१</sup> कुंजारगिहंमि<sup>२</sup> जण्ड ठुंचार । बंधव मह देमु घडं हड्हाउे कंकणं घितुं ॥ १७ ॥  
 तेणवि सा पडिनणिया चइणि<sup>३</sup> तुमं कीस मगसि लुयंतीती<sup>४</sup> वि निय बुतंतो नीसेसोसा हिउतसस  
 चणिया य तुमं खडा जीइ तए जिणहरे घफो दिक्को । संपत्तं जम्मफलं सुहवीयं मुक्कुसुक्कसस १८  
 अणुमोयणाइ एवं वंद तेणावि सुहफलं कम्मं । घम्माणुमोयणाए जीवो जवसाथरं तरइ ॥ १९ ॥  
 जइ एवं ता गिन्हमु घफयं मा कुण्णु नियमणे खेयं । कि जदणी हड्हाउे गिन्हिसं कंकणं अहयंर<sup>५</sup>  
 द्य चणियों सा वितुं घमयं चरिऊण पवरनीरस्स अप्पेइ सासुयाए सावि तिया नियसहावंमि ॥  
 तं दट्टूणं घमयं पवायाचो यै तीइ संजाउे । तहविहु वांद कम्मं एगाजवं जिणपत्तसाउे ॥ २३ ॥  
 सो चेव कुंजकारो जिणजलपूयाणुमोयणफलेण । मरिझुण समुपद्वो कुंजपुरे सिरिहरो राया २४  
 ॥३७॥

? हुयवहुघ । २ जा । ३ पुड्याय । ४ पिचरो । ५ तिपविठे । ६ नहु । ७ रोयंती । ८ कुंजारघरंमि । ९ वहि  
 ण । १० तीइवि । ११ चणिए । १२ वि ।

सो चुंजड़ रायसिरि सिरियादेवीइ सह मुहासतो । पणमंत मंकदेसर कीरीक संसो हृप्यकमबो४५  
 सोमसिरिविय मरिउं सिरिदेवीगप्रसंचवा धूया । सिरिहररन्नो जाया जिणजलपूयाणुतावेण ७६  
 तीण ग्राम्मसि ठियां परमो जाणपीइ दोहलो जाऊ । जाणा मि॑ जड़ जिणिंदं न्हावेमो नीरकलसेहिं ७७  
 कंचणकलसजदेण चत्तीइ जिणेसरं न्हवेजणे॑ । संपुर्णकोहला सा सूर्या सुद्वलस्कर्णा॑ धूया ४७  
 विहिंय च तीइ नामं सुपसडे वासरं मि नियपितणा॑ । कुनसिरि अह वाद्या संपत्ता तुवणं परमं ४८  
 देविव परमलूक्य॑ तुंजड़ हियइत्याइ सुखकाइ॑ । निवसंती पिजभेहे मुवद्वाहा वंधवजणससे॑ ॥ ३० ॥  
 इंतरंतरं मि पनो चउनाणी मुणिचरो चरुज्ञाणे॑ । वडुमुणिवरपरियरिठे नामेणं विजयस्तुति॑ ॥३१॥  
 नाऊण मुणिचरिं समानयं सह जणेण नरनाहो॑ । धूयासहिते चलिते चंदण पकियाइ॑ सुरिसस दू  
 दक्षणा॑ मुणिचरिं दुराई॑ वाहणाइ॑ मुत्तीण॑ । चंदइ॑ धूयाइसमं तिरुत पग्याहिणी॑ काढं ॥ ३३ ॥  
 दन्तितरनिप्रंगो सेसेविय मुणिकरे नमेजाण॑ । उवविठो गुलमुले धम्मं सोउ॑ समाहतो ॥ ३४ ॥  
 इन्हो निवेण गणा नारी अह॑ धूलिधूसरसरीरा॑ । मलवमश्वधूसरंगी॑ चहुमिं चरतपहि॑ परियरिया३५

? मंयट । २ गप्रहियाए॑ । ३ डोहलो॑ । ४ जाणेमि॑ । ५ चत्तीए॑ । ६ संपत्त । ७ सुपपूया । ८ सोहषा । ९ कु-  
 नमिरिति पमिका । १० देवतोए॑ । ११ वंधवजणाणे॑ । १२ विजयसारुति॑ । १३ पिजाइ॑ । १४ वाहणापमुचूणे॑ ।  
 ?१५ पयाइणे॑ । १६ चहु॑ । १७ जरमकिणाचीवरंगी॑ ।

मीससमुद्दिष्यरक्तन चाहिणा गरुयपिकल्लवेण । पीडिङंती अहियं दिदा गुरुपायमूलंभि ॥३६॥

( सीससुव छियधमल्लवचा हिणी गरुयपिमूलवेण ) पाठांतरं ।

जगरं का गुण परसा निचं वहुउरुकटु लिक्यसरीरा । दिदा विहु चयजनएणी पञ्चवका रकसी चेव ३७  
चणिउ सो मुणिवश्णा नरवइ इब्रेव तुम्ह नयरंभि । डुगंयगहवङ्घया नामेण वेणुदत्तस्स ॥३७॥  
कालगउ प्रयाए जणउ जणीय जायमित्ताए । डुरुकेण जीवियाएँ कहविहु विहिणा निउगेण ३८  
सोजण इमं वयणं सीसं धुणिकण चिंतए राया । विसमो विहिपरिणामो संसारे इडु कम्माण्डाखण ॥  
साविय नमिजण मुणिं रोयंती चणइ गग्गरवेण । साहेहि॒ मळ्य चयवं जं किं पोराण्यं॑ कम्मं॒ ४१  
चणिया सा मुणिवश्णा जहे निसुणेसु पुवजम्मंमिजइ जिणपठेसजणियं चंदू कम्मं तए असुहंधृ  
वंजपुरे आसि तुमं सोमा नामेण माहणी पुर्वि॑ । सोमस्त्रिसुन्हाए जिणपुरहे ठोइर्जे॑ घरुर्जे॑ ॥४२॥  
कुवियाए ता नणिया जिणपुरहे कीसं ठोइर्जे॑ घरुर्जे॑ । इय चयणाउे एयं संपत्तं॑ दारुणं ऊर्कं ॥४३॥  
इय सोउणं पढायावेणं ताविया चणइ चयवं । अज्जवि एयं घोरं अणुहवियवं माए कम्मं ॥४४॥  
चणिया सा मुणिवश्णा पञ्चायावो य जो कर्तु पुर्वि॑ । तोणं चिय तं खिवियं॑ पृगचवेणव वहुकम्मं॑  
पञ्चायावेण जिउ नियकम्मं खिवइ सुखनावेण । सम्मं मिग्गवइ विर्व नियगुरुणी पायमूलंभि ॥४५॥

॥३८॥

॥४६॥

१ विहियः । २ जीवियाउँ । ३ विहु । ४ जीवाण॑ । ५ गग्यसरण॑ । ६ साहेह । ७ किंपि । ८ पुराकचं । ९ दो  
इय । १० घडए । ११ जिणमीसे किं न । १२ संपत्ता । १३ परिवविय । १४ तंकम्मं । १५ संवं । १६ इव ।

चिय कह्मु नालोणा ४८

कवरां गाँगमिससइ गावं<sup>१</sup> चिय कह्मु नालोणा ४८॥

मरिकाणं सोमस्त्री जयनं सो कत्र संपयं वसइ<sup>२</sup> । कवरां गाँगमिससइ गावं<sup>१</sup> चिय कह्मु नालोणा ४८॥

चलियं सोमस्त्री सा नियपितणो उद्दल पाय मूढेमि । चिट्ठइ संपइ मूढेमि । चित्तियं गऱ्मा॥४८॥

( नणिया सा मुषिवश्चा सोमस्त्री । निय ताय पयमूढे ) पानांतरं ।

पुणरवि सुरतरसुरकं चुक्षुण कमेण । दुरारुह समुठेउं पणमइ पर्विं कुंवदालोणी ॥ ४८ ॥

सोजण इमं वयणं कुंत्रसो उद्दल कर्त्र संपयं वसइ<sup>३</sup> ) पानांतरं ।

( चणइ य जो कुंत्रारो स मरिउं कर्त्र संपयं वसइ<sup>३</sup> ) पानांतरं ।

चलिया सा मुषिवश्चा चहै मरिकाण सो समुपद्वो । आणुमोयणागुणेण नरनाहो तुहू चिया पासै ५३ ॥

रायाविय संतुहो एवं सोरुण उद्दलवच्चरियं । पणमइ पुणो पुण विय प्रसियल निहत्तसिनिणा॥५४॥

जाईसराण जायं तिन्हंपिहु पुवजमसंचक्षुं । निमुणंताण ताणं साहिकं तं नियन्वरियं ॥५५॥

जाईसराण जायं तिन्हंपिहु विवियायं जाईसरेण नीसिसं॥५६॥

चलियं तुम्हेहि इमं जह ठियं अमह साहियं चरियं । अम्हेहि वि विवियायं जाईसरगाणी॥५७॥

चलिया हुमं महासइ काहिपडं<sup>४</sup> मझ्ल सीतदेसाउ। उत्तारिही<sup>५</sup> सकरुण काऊण अत्तणो हियं ॥

जरमंतरावराहं कुन्त्रस्त्री उगयाइ नारीए । नमिऊण नावसारं खसाविया कमविदगाणी॥५८॥

चलिया हुमं महासइ चाहिपडं<sup>४</sup> मझ्ल सीतदेसाउ। उत्तारिही<sup>५</sup> सकरुण काऊण अत्तणो हियं ॥

चलिया हुमं महासइ चाहिपडं<sup>४</sup> मझ्ल सीतदेसाउ। उत्तारिही<sup>५</sup> सकरुण काऊण अत्तणो हियं ॥ ५ जाईसरेण ॥

१ चट्ठइ । २ एयं । ३ पाविहइ । ४ घडपयाणेण । ५ एसो । ६ चिह्नित । ७ मुणिदेण ।

८ चट्ठइ । ९ पाविहइ । १० चाकियडं । ११ उत्तारेह । १२ सकुराण ।

यविदगाण । १० चाकियडं । ११ उत्तारेह । १२ सकुराण ।

इत्यष्टप्रकारैः पूजा कथिता ।

इति कलवशपूजायां आष्टमं कथानकं समाप्तम् ।

णिए अहतीए सम्मं नियकरयबेण फुसिकण । अवणीउय खणेण वा हिघडो तीइ सीसाठी ॥  
 इय चरियं धूयाए दहूण सह जणेण नरनाहो । पइदियहं चतीए जिणजवपूळा इ उज्जमइ ॥६०॥  
 कुंचसिरीविय निचं निम्मल जवन्नरियकण्यकवसोहि । जिणमज्जण्कुण्ठती तिन्निवि संश्लाउचिठेइ  
 उगण्यनारीवि विमुक्तमाणसा साहुणीहि सह निचांपच महवय कविया विहरइ जणसंकुलं युहाव  
 मुणिनाहोवि महप्पा पडियोहेऊण पाणिएो वहवे । विहरइ अप्पक्किवझो गामगरमं कियं वसुन्ददृ  
 कुंचसिरीविय आउं परिपालेऊण सुखपरिणामा । मरिकण समुपन्ना इसाणे सुरविमाणं मि ६४  
 चुचूण तव सुकं सुरनरसुरकं च आणुहवेऊण । जिणवरजवपूयाए सिप्रिस्सइ पञ्चमे जम्मे ॥६५॥  
 इय आठविहं पूयं चवा काऊण वीयरागाणं । पाचंति विग्वरहिया निच्छुहं सासव्य थाणं ॥६६॥

जिष्ठवरपूर्याएः अठविहाएः विसोफदं सोउँ । परताइः हरिन्द्रविनो जनवं अद्भुद्धकवा पूरा

इय ताएः मुण्डिन्दमंभि उज्जामित्राः ॥ इय जिष्ठवरपूर्याएः आयरेण ताय माग । अक्कवि असमबोहं मुण्डिन्दमंभि उज्जामित्राः ॥

ता एयाएः तो कायबो आयरेण ताय माग । ग्रासाविहु जिणपूर्या होही । तुहु मिवकदा नेव ॥  
इय जलिंगे मुषिवइणा निचदवितेण तहु होयवं । ग्रासाविहु मुर्द्दी गिहुओ चिखा ॥

पुणरवि संसियहियते पुछइ राया मुणीसरं नमिउँ । जहु सो मुरपियपुरिसो कोउय मझ्य ॥५॥  
कायपावोवि विसुझइ पचायावेण ताविपसरीरो । जहु सो मुरपियपुरिसो काहिङ्गां तं निसामिह ॥५॥

जहु संपता रिन्दी नारिद जहु तेण पाविया सिर्की । तहु तं मुरपियपुरिसो कहु पता तेण उत्तमा सुर्की ॥  
को सो मुरपियपुरिसो कहु पता तेण पाविया सिर्की । तहु तं मुरपियपुरिसो कहु तं मुरपियपुरिसो ॥

अविड चरहवासे चुरपुरसरिसं चुरसम्म नवरंभि । तहु नारिदो चंदो चंदो इव चंदु कुमुनालाला ॥  
तस्त मिया पुणतारा युणताराहरणकूसियसरीरा । उद्रवय पवरं पर्तहुर रमणीया रमणीया रमणीया ॥७॥

सो तीर्त्तसं राया विस्तयुहासतमाणसो लयो । न मुण्ड गयंपि कालं सङ्गसहितु तियसनाहुव ॥७॥  
तमि मुरे चुपसिन्दो सटी ॥ परिवरसइ सुंदरो नाम । मयणसिरिविय तज्जापुतोविय मुरपितु नाम ॥

पुतो तस्स अलिठो सतुव सयावि ॥ तस्स पक्किहाइ ॥

तमि ।

१ नवरति । ५ गुणहारा । ६ वीण । ७ रथणमुत्तिव । ८ निहिताणे । ९ सिंद । ३ निहिताणे ।

१ चाणिठो । २ सिंद । १३ दिठो सचु । १२ घजिय ।

१० निर्वां । ११ सिठी । १२ दिठो सचु ।

जइ जणउ घरमझे चिठ्ठइ ता रुन्नि सो सुर्ज बाहिँ । अह पुत्रो घरमझे ता जणउ इति सो बाहिँ  
एवं जणयसुयाणं कडुसियहियथाण जाइ जो कालो । ता अब्रवदिए चणिउ कहव सुर्ज तेण जणएण  
अट्रो पुत्र पणठो<sup>३</sup> अम्हयरे<sup>४</sup> कहवि विहि निउगेण । ता अब्रस्स निमित्तं वच्चामो अब्रदेसंमि २५  
अब्रविहृणो पुरिसो मुचंसजाऊवि बहहइ बहुयतं । पावइ परिजववाणं गुणरहिउ धणहु दंकुव २६  
धम्मवकामभुकाण बाहिरो होइ अब्रपरिहीणो । जेन करइ सुविसुकं पुरिसो जिणदेसियं धम्मम् ॥  
गहिकण किंपि चंरुं असारमोहृष्पि निययगेहाउरे । अहिमाणथणा दोन्निवि<sup>५</sup> वच्चामो अब्रदेसंमि ॥  
साहसमवतंवतो पायं देसंतरंमि संपत्तो । पुरिसो पमायरहिउ पावइ हियइहियं लाहिँ ॥ २७ ॥  
इय कथ कवनसिणेहा विणठचित्ता पणठसप्तावा । गहिकण किंपि चंरुं विणिगया निययगेहाउरे ॥  
संपत्ता उज्जाणे नगोह महाउसस्स मूर्दंमि । दिठो धरणिनिविठो दोहिंवि पोरे पुमाडस्स ॥ २८ ॥  
चिंतिति दोवि हियंप चिठ्ठइ हिठ्ठमि इव मेयस्स । सर्वंमि जर्ज चणियं इवं पाए पुमाकस्स ॥ २९ ॥  
दोन्निवितन्निहिपसत्ता दोन्निविअन्नोन्नवच्छुकुत्तादोन्निविचणंतिगहणेनहुअजसोहणोदियहो  
( उक्कवि तंमि पसत्ता उक्कवि अब्रव चंचणा जुत्ता ) पाठांतरं  
ता अब्रउ एर्तु द्विउ गिन्हिसंसोहणंमि दिवसंमि<sup>२</sup> । अवसउणोन्ति जरेउ संपैत्ता निययगेहंमि ॥

<sup>२</sup> सोवाहिचेव । ३ विसुर्जे । ४ श्रमह पणठो । ५ पुत्र घेरे । ६ जइ । ६ असारमुखंपि । ७ उक्कवि । ८ उक्कवि ।  
८ पुमाडस्स । १० हित्ता । ११ इत्ता । १२ दियहंपि । १३ समागया ।

ठुंडे दद्यव ताणं नहु निहानयणगोचरे पड़इ । आहवा अब्बिलुक्ता उरिसा निहं न पावंति ॥ २४ ॥

( जा ते बहुधण्डुका मुका चिंडति दोवि नियमेहे ) पावंतरं ।

जा ते अब्बिलुक्ता चिंडति य दोवि निययोहंमि । ता सो पुतो सुतो सयणे रथणीइ चिंटेइ॥२५॥  
जह जाणइ नेय पिया तह अज्जं जामिणीए सेसंमि । गंतून तं निहाणं आरोमि अवालिउं काउरह  
जा जाइ न तड़ सुर्ज ता पिणणा ऊनि तड़ गंतूण । उरुरिकुण<sup>३</sup> अड्डो पस्कितो अवान्देसंमिण॥२६॥  
तसो सो संपत्तो तं जणइ ताय कह सो अड्डो । उरुरिकुण इतो पस्कितो कइ पएसंमि ॥ २७ ॥  
तं पचणइ सोवि पिया मा चणसु पुत एरिसं चयणं । नहु दिठो हियझडो सो अड्डो एउडेसंमिण॥२८॥  
तं कवासूलसरिसं “वयाणं जणयस्त सो सुणेऊण । कोहानवपक्कादिउ वयसितो जवाणरासिवा॥२९॥  
जा अज्जवि ताय अहं कुद्धो न हरामि जीवियं तुक्ष । ता साहसु मह अरं तुक्ष आणां नियकरत्ता ।  
नइ सो पुत अणड्डो अड्डो ता तुप्र बद्धहो कीसापुढसि जेण पुणो तं तिसिउ पहिभर्व जखनिदयं ३१  
वप्पइ नंटभि पुणो जीयं जम्मतरेवि जीवेहि । अड्डो पुण पपडो नहु लप्पइ पुत्तरहिएहि ॥ ३२ ॥  
नइ तुक्षो कुद्धोविहु पुत तुमं हरसि जीवियं मझ्वतहवि न साहेमि अहं तं अरं जीवियप्रहियं ३४  
एतो<sup>४</sup> कोवेण सुर्ज वयसितो हुयवहोर्व पक्कादिउ । पाउ<sup>५</sup> दाजण गले निपीकइ अत्तणो जणयै३५  
१ रह । २ एइ । ३ उरुक्तिकुण । ४ इह पएसंमि । ५ कंनमूलविरसं । ६ पहियवा । ७ इतो । ८ दुयवहुच । ९ वर्तु ।

कवश  
पूजा.

जइ जएरे घरमझे चिठ्ठइ ता रुनि सो सुर्दे बाहिं<sup>१</sup> । अह पुत्रो घरमझे ता जएरे इसनि सो बाहिं  
एवं जएयसुयाणं कलुसियहिययाण जाइ जो कालो । ता अबदिए चणिउे कह व सुर्दे तेण जएयए  
अबो पुत्र पणठो<sup>२</sup> अमहघरे<sup>३</sup> कह वि विहि निउऐ । ता अबस्सन निमित्तं वचामो अबदेसंमि २५  
अबिहूणे पुरिसो सुवंसजाउवि बहइ दहुयतं । पावइ परिचवधाणं गुणरहिउे धणुह दंशुव २६  
धम्मठकासमुखकाण वाहिरो होइ अबपरिहीणो । जेन करइ सुविसुर्दुं पुरिसो जिणदेसियं धम्मं ॥  
गहिऊण किपि चंरं असारमोह्यंपि निययगेहाउे । अहिमाणधणा दोन्निविं वचामो अबदेसंमि ॥  
साहसमवदंवतो पायं देसंतरंमि संपत्तो । पुरिसो पमायरहिउे पावइ हियइहियं लाउँ ॥ २७ ॥  
इय कय कवरसिषेहा विणठचिना पणइसप्राचा । गहिऊण किपि चंरं विणिगया निययगेहाउे ॥  
संपत्ता उक्काणे नगरोह महाडुमस्स मूढंमि । दिठो धरणिनिविठो दोहिंवि पोउे पुमाडस्स ॥ २८ ॥  
चिंतनि दोवि हियंपि चिठ्ठइ हिउंमि दव मेयस्स । संभंमि जर्ज चणियं दवं पाए पुमारस्स ॥ २९ ॥  
दोन्निवितन्निहिपसत्ता दोन्निविअन्नोन्नवंचणुक्तुत्तादोन्निविचणंतिगहणेनहुञ्जसोहणोदियहो  
( दुववि तंमि पसत्ता दुववि अवन्न वंचणा उत्ता ) पारांतरं  
ता अबउ पट्टे छिउे निन्हिसं सोहणंमि दिवसंमि<sup>४</sup> । अवसउणोनि चणेउं संपैत्ता निययगेहंमि ॥

१ सोबाहिंचेव । २ विषुडे । ३ श्रमह पणठो । ४ बुत घरे । ५ जइ । ६ असारमुखंपि । ७ उत्तवि । ८ गाएं ।  
९ पुमाडस्स । १० हिडा । ११ इत्त । १२ दियहंपि । १३ समागया ।

निंद न पावंति ॥२४॥

उठ दृश्यत ताणं नहु निहाणयणोयेर पड़इ । अहवा अबिकुका पुरिसा निंद न पावंति ॥२५॥  
जा ते बहुधालुका मुका चिन्दति दोवि नियोहे ) पावंतरं ।

जा ते अबिकुका चिंदुति य दोवि नियगोहं मि । ता सो उनो सुनो सयणे रथणीइ नितेइ॥२६॥  
जा ते अबिकुका चिंदुति य दोवि नियगोहं मि । ता सो उनो सुनो सयणे रथणीइ नितेइ॥२७॥

जा ते अबिकुका चिंदुति य दोवि नियगोहं मि । गंतूण तं निहाणं आणोमि अबदेसंमि॥२८॥  
जह जाणइ नेय पिया तह अजं जामिणीए सेसंमि । गंतूण तं निहाणं आणोमि ॥२९॥  
जा जाइ न तह मुर्दे ता पिउणा रक्ति तड़ गंतूण । उक्तरिकाण इतो पस्कितो कइ पएसंमि ॥३०॥  
जा जाइ न तह मुर्दे ता अहो । उक्तरिकाण इतो हियइहो सो अहो एउदेसंमि ॥३१॥  
ततो सो संपन्तो तं जाणइ ताय कह सो अहो । नहु दिठो हियइहो सो जलणरासिवा॥३२॥  
ततो सो संपन्तो तं जाणउ पुत एरिसं वयाण । नहु दिठो हियइहो सो जलणरासिवा॥३३॥

तं पजणइ सोवि पिया सा जाणउ सो मुषेऊण । कोहानदपज्जलिउ वयसितो जलणरासिवा॥३४॥  
जा अज्जलिताय अहं कुझो न हरगमि जीवियं तुक्ष । ता साहचु मह अहं तुक्ष आएहं नितदिमं ३५  
तं कद्यसुदरसरिसं “वयाणं जाणयस्त सो मुषेऊण । कोसापुडसि जेण पुणो तं तिसिउ पहित्तव जद्यनितदिमं ३६  
जा अज्जलिताय अहं कुझो ता तुप्र बद्यहो कीसापुडसि नहु लप्पइपुनरहिएहं ॥ ३७ ॥  
नहु सो पुत अणो अहो ता तुप्र बद्यहो कीविवहं । अहो पुण पपडो नहु लप्पइपुनरहिएहं ॥ ३८ ॥  
दप्पइ नंठपि पुणो जीवियं मझातह वि न साहे मि अहं तं अहं जीवियप्रहियं ३९  
जहुक्को कुझो विहु पुत तुमं हरसि जीवियं मझातह । पाउं दाऊण गदे तिएरीरइ अतणो जाणयं ३५

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

अञ्जो पृथस्स पितुं<sup>१</sup> नाहं<sup>२</sup> परिचाविकण हियएण<sup>३</sup> । अइ गुरुयमठ्ठेरेण व मुक्को सहसन्ति जीवेण॥४२  
 मरिउण समुपक्षो सो तंमि निहाणंगमि मोहेण<sup>४</sup> । गोहेरगो गरिठो चिठ्ठइ तब दिउं निचं ॥४३॥  
 पुत्रो विवरकचित्तो चित्तइ हियएण पुत्ररहिउहं । ताउंचि मए पहउं जायं च न इछियं मझ्हा॥४४॥  
 एवं विसद्वचित्तो पुत्रो डुरकानबोहिं<sup>५</sup> संतत्तो । साहाए पप्रठो वानरोवं सोएइ आप्पाणं ॥ ४५ ॥  
 मयकिंचं काऊणं पित्तणो सो कह बि आव्रदियहंमि । संपत्तो निहिताणं<sup>६</sup> लोहेण<sup>७</sup> तस्स दबससध०  
 जा चिठ्ठइ तब रिउं ता पित्तइ तं युहेरां पुरउं । दंतगगहिय रथणावदीप तेएण पज्जांतं ॥४६॥  
 तं दहूणं सहसा सो जाउं<sup>८</sup> कोहबोहपरिगहिउं । चिठ्ठइ अवलोयंतो कुविय कर्यंतोह्वं उपेड्हों<sup>९</sup> ॥४७॥  
 सोविय तं दहूणं प्रकन्ति जयपसरवेवर सरीरो । नासंतो उठेण<sup>१०</sup> पहउं पुतेण सीसंमि ॥ ४८ ॥  
 रथणावदीसणाहं नियदेहं झकन्ति सो विमुक्तूणं<sup>११</sup> । उदावगरुवेण<sup>१२</sup> । संजाउं<sup>१३</sup> कम्मदोसेण<sup>१४</sup> ॥४९॥  
 सो सुरपियाजिहाणो पुत्रो तं रथणमालियं घेन्तु<sup>१५</sup> । नियकंठंमि निवेसइ नियेजाया बाहुजुथदबव ॥  
 तं निम्मवगुणकलियं<sup>१६</sup> दययंपिवं रथणमालियं दहुं<sup>१७</sup> । मव्रइ त्रुवण्यप्रहियं आप्पाणं सुरपिउ हिठो  
 चित्तइ सो चर्यन्तीउ एयं जाइ पड्हिवो वियाणेइ । ता महसहसीसेणं गिल्हइ नड्हेर संदेहो<sup>१९</sup> ॥४९॥

<sup>१</sup> चखहो । २ नाम्हे । ३ पाणेहि । ४ डुकानलोह । ५ वानरुच । ६ निहिगाणे । ७ संजाउं । ८ कथुंतुब ।  
 ९ उपिठो । १० दंडेण । ११ उदावगरुवेण । १२ घिउं । १३ पिय । १४ रस्य । १५ दइयपिय । १६ वहुं ।  
 १७ हरइ इमं न त्ति संदेहो ।

ता ज्ञाइ दिनार्थे किं केलाइ गाउ दोङ्क दिठोहै। ता पारंसि पापसे पेठैँ झाण छियं साहुँ॥४७॥  
नं दृढ़ान् चिनड़ नूँ बड़ुँ दक्खन द चरिगां। दिठो अलोण मुषिणा निम्बवरयणावलीक लिठेहै  
ता जार्कनि न माहुइ नवरड्गो पास मध्य छुच्चरियो। ता तह करेमि आङ्कां जह जाइ जमालयं सिरयं  
गंवं चिन्चिनित्तां चंद्र दुँड़ च उक्किवेक्कां। कोवं समुवहंतो पहा विठे अनिमुहं तस्स ॥ ५२ ॥  
तणि डेय दून गम्यां गर्वे नित्रे कीम मं पदोपसि। दिठोसि मण आङ्कां जीवंतो कठ वज्जिहिसि॥  
अत्र च किंपि ननं निच्छवच्छनो चुमंपि चिंतसि । जइ जाणसि किंपि तुमं ता जाणेसु चिंतियं मञ्च  
एव युग कहवि नवालनि मह्युवे छुठ नालर हिठसि ता मह्युइपहारं विसहमु सीसेण उविसहं  
पच्छुउभंगड़ एम्यो गम्यं नाकला डिनालें। संचासड़ सो साहुँ तं पुरिसं महुरवयणेहिं ॥ ५३ ॥

पतालमि चिनेण तुमं यद्रं जलवस्त्रम् युवतवचच नियाइ च तहाकहमु तुमं आहि जाळारणे  
एह गो चिम्बय हिवे चुरयिवे पलामिऊल नं साहुँ। पक्काइ चयवं सच्च विशालियं चिंतियं मञ्च ॥  
तणि ते सो युलिवड्गा गृवं चिग्रन्वाइ मध्यंचि। आसि सयालगंडो<sup>१३</sup> जहवर्व वरणइडोति<sup>१४</sup> पठ  
पलु नंवित्र चेव यां नीढो आचिनि करिकुद करनंतो। दिठो कहनि नमंतो सो हूठ। तेण स्तीहा  
नं दृढ़ान् चीदो चोंगला चरनि उत्तंकाना। पदन्तु गवमम रेडे गवणामु विक्कापुजोर्मे ॥ ६० ॥

<sup>१३</sup> यालग । <sup>१४</sup> वरण । १५ चयालग । १६ चुमं चिंतोसि । १७ चालमु । १८ चिंति । १९ पहुर्व । २० चिंति ।

<sup>१५</sup> गगलेज । १६ चालग । १७ चुमं चिंतोसि । १८ चिंति । १९ चिंति । २० चिंति । २१ चिंति ।

तं दण्डिणा गद्युः पियरइ रवंमि जाव सो सीहो। ता दिठो सरहेण कोहानबजलिय चित्तेण ॥६३॥  
 जरइ शीहिण गद्युःो पहर्ते सीहेण तेण सरहोषि। जो जं करेइ कर्मं उंजइ सो इर्ते जर्मंसि ॥६४॥  
 पावा पावसस फदं पावइ पावेण इह जर्मंसि। जह सो गंडवहगो सीहो सरहाज संपत्तो ॥६५॥  
 गहलाणोवगर्ते सो सीहो सरहधाइय सरहो। मरिझण समुपक्षो नेरइर्ते पहमपुहवीएाद्धा ॥  
 तउगर्ते सो सीहो वहुठेयण नेअणाइ विसहंतो। न लहहइ खाणपि सुर्कं तिलतुस्मिन्तपि ठुकत्तो ॥  
 आउ निमीलियमिन्तन तिसुहं ठुकमेव अण्वयेहुः। नरए नेरइआण अहोनिसं पञ्चमाणाणं ॥६६॥  
 सो तत्र सीहजीको नरए ठुकाइ आण्वयेहुः। आउठकयेण जाउ सुंदरसेटिनि तुह जणडौ ॥६७॥  
 जो पुण गंडवजीको सो पुण कोनीसु परिज्ञमे ऊण। सुंदरसेटिस्स सुउ संजाउ सुरपिउ तुमयांदा।  
 पाण परनवचरियं तुल्ल मए साहियं समासेण। एन्तो इह चवचरियं साहिङ्कं तं निसामेह ॥६८॥  
 एष नवे जनेहो जाणवसुयाण च किह किह तुमह। तं पुवचवाव जिय ठुकरवेराण्वयेण ॥६९॥  
 रमं गा कर्मं वा केरं पियं च एह जर्मंसि। अमासाउ पवहुह लावंतरे सर्वजीवाणं ॥७०॥  
 अंगचिय जो अर्गो दिठो तुम्हेहि इह पारंसु। सो तुह पियमहेण परिकतो पुत्रतीपणाइ ॥७१॥  
 तोंगिय पहुँ पासे रक्षो कहेकहव वि उगा कुम्हेहि। मरिझण समुपत्तो पोमाडो माहदोसेप्तु ॥७२॥

१. दण्डिणा । २. गद्युः । ३. निमीलियमिन्त । ४. तुह । ५. अहोनिसं । ६. आउठकयेण । ७. तुमयांदा ।

अव०  
पूजा.

तं दण्डिणा गद्युः पियरइ रवंमि जाव सो सीहो। ता दिठो सरहेण कोहानबजलिय चित्तेण ॥६३॥  
 जरइ शीहिण गद्युःो पहर्ते सीहेण तेण सरहोषि। जो जं करेइ कर्मं उंजइ सो इर्ते जर्मंसि ॥६४॥  
 पावा पावसस फदं पावइ पावेण इह जर्मंसि। जह सो गंडवहगो सीहो सरहाज संपत्तो ॥६५॥  
 गहलाणोवगर्ते सो सीहो सरहधाइय सरहो। मरिझण समुपक्षो नेरइर्ते पहमपुहवीएाद्धा ॥  
 आउ निमीलियमिन्तन तिसुहं ठुकमेव अण्वयेहुः। नरए नेरइआण अहोनिसं पञ्चमाणाणं ॥६६॥  
 सो तत्र सीहजीको नरए ठुकाइ आण्वयेहुः। आउठकयेण जाउ सुंदरसेटिनि तुह जणडौ ॥६७॥  
 जो पुण गंडवजीको सो पुण कोनीसु परिज्ञमे ऊण। सुंदरसेटिस्स सुउ संजाउ सुरपिउ तुमयांदा।  
 पाण परनवचरियं तुल्ल मए साहियं समासेण। एन्तो इह चवचरियं साहिङ्कं तं निसामेह ॥६८॥  
 एष नवे जनेहो जाणवसुयाण च किह किह तुमह। तं पुवचवाव जिय ठुकरवेराण्वयेण ॥६९॥  
 रमं गा कर्मं वा केरं पियं च एह जर्मंसि। अमासाउ पवहुह लावंतरे सर्वजीवाणं ॥७०॥  
 अंगचिय जो अर्गो दिठो तुम्हेहि इह पारंसु। सो तुह पियमहेण परिकतो पुत्रतीपणाइ ॥७१॥  
 तोंगिय पहुँ पासे रक्षो कहेकहव वि उगा कुम्हेहि। मरिझण समुपत्तो पोमाडो माहदोसेप्तु ॥७२॥

गर्भिद्वयनां ॥ ३४ ॥

पर्णि दिक्षां तिबो अद्वाणं यु महाप्रयं । रेतवं<sup>१</sup> वेयणिङ्गं न तया गर्भिद्वयनां ॥ ३५ ॥

जया मोहोद्वर्ते पर्णि दिक्षाविज जम्हा द्वोहपिसाला चर्यंति<sup>२</sup> ॥ ३५ ॥

पर्णि दिएणं तेणं मुक्तो पाठेय द्वोहेद्वेसेण । गर्भिद्वयनां चर्यंति<sup>३</sup> गयातवयाना  
आहार चय परिगाह मेहुण सद्वा य लोहसद्वा य । तह कोह माण माणा मोहोद्वय गव्यातवयाना  
सो गोहर्गंरहवो जणहे जा जाऽऽह पाण्साठे । तातं विणासिक्ताणं गव्यातवयाना तुम्हाणा  
एण इह चवचरियं तुङ्ग समासेण साहियं नह । संपङ्क नाकण इमं चेरं द्वेरण पर्णिद्वयनु ॥ ३५ ॥

खामङ् चवलणविकर्गो मुणिनाहे<sup>४</sup> पाण मिकण सोसिरसात्त्वामियवमसुअसेसं उच्चारियमध्यगावस्तु  
तेणं सुरपिय पुरिसो मुणिक्ताहे<sup>५</sup> पाण मिकण तिबो चवलणविकर्गो<sup>६</sup> पाणेण लेण इत्र जम्हेवि । दोसुवि चवेसु जाणाई विणासितु अत्रद्वुद्वेषां ॥ ३६ ॥

हा पाचाणविवागो<sup>७</sup> पाचेण लेण इत्र जम्हेवि । अत्रविणासेवि सथा निच्छंचिय चवद्वा हंतिआउ ॥  
धव्या ते जियदोए जे पुरिसा जणहि जणय चंधूण । तरस्ववि सोहि निमित्त चवचं जवाण पवित्रामि ए  
तेचिं जयंमि धव्या तेचिय कुव विमलनहयवलमियकाजेजाणणिजाणयचवपुलण्यासाउ<sup>८</sup> पूर्णति  
ता तुम्हं जणयस्तवि पाचं पावेण जं समायरियं । तरस्ववि रुहिरेण सुख्येश्वाउ ॥ ३६ ॥

क्षणितु सो मुणिक्ताहा सुख्य चारं न चाह पावेण । नहु रुहिरेण विलितं वडं रुहिरेण सम्मतवुद्धीयाह ॥  
जइंतं महसि विसुद्धी ता निच्छं निच्छदेण चित्तेण । पर्णिक्तासु जिणधमं सम्मं सम्मतवुद्धीयाह ॥

१ कोमदं । २ मोह । ३ विष्पति । ४ दोहो । ५ गोरेह । ६ इयं । ७ मुणिनाह । ८ पाचाणवि ।

९ तेविष । १० आणाड ।

अथवा

पूजा.

मात्र भूमाणारामं गुरुत्वं लीगाण जीवियं दोण। उक्तदो मुहुरुकोगो उवहो जिएदेसीउधम्मो  
मात्र भूमाणारामं गुरुत्वं लीगाण जीवियं दोण। उक्तामसु सया धम्मे मा मुक्तसु मोहजालंभिमि॥४७॥  
आविष्ट इति गुरुत्वं दियो गुरुत्वं हिं सो मान् नमितुं। अमय नरियते कुंतो सीसिण पकित्तिउ एसो॥  
गायत्रेविधाणं दाउं नरगद् वरणाउ तं समुद्दितं। रयणावदीवि दाउं नरवडणो इठड़इयार्डे॥४८॥  
पवित्रिकाग्राम विरुद्ध जिणवरधम्मे विचुक्त परिणामो। विहरइ गुलहिं समेतैः गामागरमं कियं वसुद्वे  
विद्वां गो रंगपनो सुसमनयरं पुणोवि मुणिनाहो। चिठ्ठ निच्छवद्याणो उक्काणे सिदायडुचंगो॥४९॥  
विद्वां गो निघरस्थी परद्वे रयणावां पुमुत्तुष। जा न्हाइउं पवत्ता ता सो उलावगो पन्तो॥५०॥  
नं निरं कंति जवंतं इहाणं आमिसंति कवित्तिण। रयणावदीं गहेउ आबूकिकर्त्त झन्ति उडुणो ए  
गा ता रदाणनित्तान पेढुपं रयणमाकियं पुरउ। ता पञ्चणइ नरनाहं परिकुविया ककुयवयणेहि॥  
नं निगमतारपीप तुमं आदहरणं रस्किजण असमद्वो। सो कह तुमं नरेसर रकेउ मेढणीं तरस्ति॥५१॥  
पर नणिए नो राया नहेउं जणइ अन्तणो पुरिते। रयणावदीइ चोरं सब पयत्तेण जाणेह॥५२॥  
एव विषया ते पुरिका नवडाणेतु सवडुनाण। संपत्ता जोयंता उक्काणे जत्र सो साहू॥५३॥  
इह नंदोविष उत्तां चंडुकिनाएः रयणनवाप। कीवर्यं संका कवित्त मुणिणो सीसोवरिं चक्रिजी॥५४॥

१. निरुद्ध । २. इट देवर । ३. नविं । ४. इत्तो । ५. नविं । ६. नविं । ७. तेव । ८. विद्वां । ९. विद्वां । १०. मध्यनत्तेण । ११. विद्वां । १२. विद्वां । १३. कीवक ।

इहूण मुण्डिवारिं हृजममंतर जणिय वेष तपतीरि । रथ्याणावदीण मुरुं' चिंह व करुनि उडीलो ॥  
 रथ्याणावदीवि पर्दिया मुण्डिपव्यकुपवस्तु मङ्गलयारंभि । तड गाहिं दिठा महूमा सागायमुरुंभिं ॥०  
 गासो मुण्डिवेसधरो दिठो रथ्याणावदीण चोरुनि । गावं विचिंचिनिक्राण नरवडाणा साक्षिं तोरिं ॥१०२॥  
 अवियानिगिण रथा परिकृष्टो तणइ अतणो पुरिसे । तरुमाहामा गावं गतवारेलां विळामेहृ ॥०३॥  
 इय ते बद्धागसा साहुं पतांति लकाणगयचित्तं । रथ्याणावदीई चोरो छुठ तुमं पाविई आज्ञा ॥०४॥  
 जहू निवारक्काण ताम गाहिया रथ्याणावदी । इनेरुक्का । तहू खालहु अद्वं चिय जे गहिये छु नवरंभि  
 आइठो तं वझो नरवडाणा आज्ञा छुठ कोठां । ता साहुसु कुकुर्वं नहु जोरं व्यवहारा तुक्का ॥०५॥  
 इय सो सच्चापड्को निच्छबकाणातु चक्किं तहु जाव । ता सो पुणो वि नलिई भुमुरमुनं इठ दुवंनि  
 इय चणिक्राण पासो० कंठे नविज्ञाण तस्स मुण्डिवडाणो । तरु माहामा निवरुदो तातुडा कलिं मां पासो०  
 गावं तिविवि वारे निज्ञवचित्तस्तु तुट्टाय पासो । ता ते तस्स य कठां मुद्दाकुंक पक्कुवंति ॥०६॥  
 गान्तो सासाणादेवी निच्छबक्कितस्तु तस्स परितुठा । वर कंच्चाणा मणि॑ चक्किं मुद्दोवरि । आसाणं कुणाद  
 जहू जहू ते उवसगं सूखाण परिठियस्तु कुवंतितह तहु मुणी महूप्या परस्स झाराणं समाशहृ ॥०७॥  
 मुक्कुकालोमि परिठियस्तु थेरसनं तस्स मुणिवडाणो । विहूदिय करम्भै चतुर्कं उपरवं कवदंनाणा० ॥०८॥  
 देवेवहिं कव्या महिमा कंच्चवनाराणंभि तस्स मुणिवडाणोमुक्के क्रुमुमसम्भुदं गंशोद्यमीसियं मीमं ॥०९॥  
 ? मुरुं । २ तद्यागाहिं । ३ फुक्कंचिय । ४ तय । ५ चरड । ६ पासे । ७ पउडा । ८ वर । ९ वीरस । १० वाड ।

इतो निष्पुरिसेहि गंतूणं अन्ताणो नरिदस्स । जह दिंठ तह सिंठ सर्वं तं साहुणो चरियं ॥ २४ ॥  
 गुरु विम्हिय हय हियउ नरनाहो जणइ अन्ताणो पुरिसोकह चोरस्सवि मुणिणो संजायं केवदानार्णं  
 ता नूणं नहु चोरो सो कोवि मुणिस्सरोवि चोरोन्ति । चणिकण मझ सिठो ता तं गंतुं खमावेमि ॥  
 इय चणिकणं राया निय पुर नर नारि दोय परियरिउ । गंतूण मुणिचारिंदं खामइ नमिजण चतीए  
 चयवं जो अवराहो तुझ्क कर्ते कहवि मोहमूढेण । सो सबो खमियबो पावस्सवि मझ पण्यस्स २५  
 इय चणिकणं राया पुणो पुणो पणमिजण मुणिनाहं । मुणिणा दिवासीसो उवविठो महियलुठंगो ॥  
 सुरक्यकंचणपउमे उवविठो सुरनारेदपरिसाए । पचणइ तं नरनाहं मुणिनाहो महुरवयणेहि २६ ॥  
 अद्वाणधो जीवो पन्निउ मोहारुवीइ मञ्चंमि । नाणपहं अवहंतो कं उरकं जं न पावेइ ॥ २७ ॥  
 अद्वाणं खलु कंठ कठयराउवि पावकम्माउ । लोगों हियमहियं वा न जाएए जेण आवारिउ ॥  
 असहायस्स सहाउं संजाउं मझ नहि तुह दोसो । जेण मए कम्मरिउं हणिजणं संपर्यं पत्तो ॥ २८ ॥  
 अज्ञवि धन्नोसि तुमं नरवर मा कुणसु नियमणे खेयं । जो कथदोसोवि तुमं पडायावं समुद्वहसि ॥  
 कथपावोवि हु सुझइ पडायावेण ताविषसरिरो । जहय नरेसर अहयं पडायावेण संतुर्दो ॥ २९ ॥  
 पुठोणं नरवइण मुणिणा संपर्ददिवनाषेण । पुवतं नियचरियं सविसेसं साहियं तस्स ॥ ३० ॥  
 तं मुणिण वज्जरियं चरियं सोजण सोवि उद्वावो । संन्तरिउं पुवजम्मो तरस्त्रिहराउ समुत्तरियं ॥  
 ? न होइ । २ चोरति । ३ महुरवयणेण । ४ जीवो । ५ सुहपयं । ६ वहसिपत्ता । ७ पडियुद्दो । ८ संस्त्रिय ।

कथ गुरु पद्मायाचो जतीए तं मुण्ठि नमेऊण् । खासइ नियडुचारियं सौ मवं नियनतासाण् ॥१२७॥  
 पुरुइ निवो नमेउं किं एसो नाहु तुम्हपयपुरुइ । विकुलइ महियत्वा मिर्दै<sup>२</sup> कुसांतो<sup>३</sup> उच्चाकंठेपाइ ॥१२८॥  
 जं परिकणाणुयं डुर्कं सुर्कं च पुबजम्मेसु । तं सौ मुण्ठिवडणा नीसेसं साहियं गत्रो ॥ १३० ॥  
 संजरिय गुबजम्मो संपङ्क संपत्त मुख्यरिणामो । मग्नाइ आणतणमेसो निंदतो आणती जम्मं १३१  
 चण्डे धत्रो एसो नरवइसहियाइ सवपरिसाए । जासेसो परिणामो तिरियस्सवि आणासाणे जाई  
 काळे उपतदाणं संमतविषुक्त वोहिलाचं च । औरते समाहिमराणं अतवजीका न गावंति<sup>४</sup> १३२  
 मुण्ठिणाविहु नाकाणं परिणामं तस्स सुरुचित्स्स । दिनं निवयहियत्वस्स आणसाणं परिकणो नस्साण ॥  
 नवकारोविहु दिवो नावेणं पकित्तिकण सो परकीमारिकण तस्मुपपत्रो सोहम्मे सुर्वविमाणांमि १३५  
 सोविय नरि इचंदो<sup>५</sup> दाऊणं वरसुचित्स्स नियरक्को । परिक्काइ पवरक्कों केवलिणो पायमूर्द्दभि ॥ १३६ ॥  
 उगां तवो विहाणकाऊणं संजमं च सुविशुक्त । मरिकण समुपत्रो पंचमकार्यमि सुरनाहो ॥१३७॥  
 इय सो सुरपियपुरिसो पहायावेण केवली होउं । आजातकर्यमि मरिई<sup>६</sup> संपत्तो सासवं गणाण् ॥१३८॥  
 एवं विवोहिकाणं हरिचंदं विजयचंदमुण्ठिचंदो<sup>७</sup> । विहरइ महिं महापा वोहिंतो नवियकुमुयाइ १३९  
 पकित्तोहिकण जेणं सायरचंदोय केवली जयचं । खविकण कम्मसेसं संपत्तो सासवं गाण् ॥ १४० ॥

२ नाह । २ पहियलिडिई । ३ कुरुदंतो । ४ अत्तणो । ५ कुरुदंतो । ६ पाविति । ७ विहिणा । ८ चर ।  
 ९ नरेदविदो । १० आराहिजाणसम्म । ११ मुण्ठिनाहो ।

१ संपत्ताचिषुद्ध । २ संपत्ता सासंवं । ३ द्विजित्विष्य । ४ चर्चन्विदि । ५ संजाणर्ण । ६ संजाय । ७ कृष्णद ।  
८ हित्युग्रवाण । ९ उपायवाण । १० उपायवस्तु ।

इति प्रजाप्तके अवशिष्ट कथा समाप्ता ।

जयसिरि पवन्निषीविव उपाइयदिव्वकेवलसमिल्दि । निदुविय कम्मसेता संपत्ताणुत्तरं गाणं॥१२४॥  
तह मयणसुंदरी विहु कम्बलसिरि चेव दोवि॒ पव्वक्तं॑ । काक्काणं काक्काणया उच्चवद्वातु महासुके॑ १२५२  
न्नगर्वंपि॑ विजयचंदो पम्निवोहे ऊण नव्वकुमुग्याइ । हुंग निरि गह्यसिहरे संपत्तो सासयं गाणं १२५३  
एयं परमपथं सुपस डं मंगलं च कद्याणं । हिथ इड्डिय सुहजणगं॑ चरियं सिरिविजयचंदस्स ॥१२५४  
इति समाप्तः चरियं सुपविन्तं विजयचंदमुणिवद्दणो । निमुण्णताणं एयं कुण्ठु सुहं चवियलोयाणं ॥  
एयं जो सुण्ण नरो निच्छलचिन्तो॑ विमुक्त्वुर्दीप । सो न्रव डुरक्कविमुक्को पावद मुरकं सदासुके॑ १२५५  
एयं मंगलानिलयं चरियं सिरिविजयचंदकेवलिणो । जा गयणे गहचकं ता मोहं हणज चवियाणं ॥  
सिरिनिव्वयवंसमहाधयस्स सिरिविजयचंदवस्तुरिस्स । सीसंण तस्स रद्यं चंदपहमहयरेणेयं॥१२५६  
रईयंविवरहियं चरियं सिरिविजयचंदकेवलिणो । गाहांडंद निवंदं चवियाणं विवोहणठापे॑ १२५७  
देयावरमवरनयरे रिसहनारिंदसं मंदिरे रझ्यं । नियविरदेव सीसास्स साहुणो तस्स वरपेणं ॥१२५८  
मुणिकमर्हक (१२५९)उप काले सिरिविजयचंदवद्दते । रईयं कुरकरहं चंदपहमहयरेणेयं १२५९  
जाव जसो ससिधवदो धववद्दमहिमंरुतंजिर्णिदाणाणताव इमं जयत्तजपचरियं सिरिविजयचंदस्स  
इति प्रजाप्तके अवशिष्ट कथा समाप्ता ।

